

**DUE DATE STAMP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

# वर्तमान राजस्थान

( सार्वजनिक जीवन के संरक्षण )

नेतृत्व

गमनागमण चौधरी

---

१९४८

---

दिल्ली का बता

राजस्थान प्रकाशन मण्डल

अजमेर

प्रकाशक  
ग्राहूतिक चिकित्सा ग्रन्थमाला कार्यस्थल  
नीमकाथना (जयपुर)

मूल्य ४)

सर्वाधिकार लेखक के स्वाधीन

प्रथम वार १०००

# समर्पण

पं० अर्जुनलालजी सेठी राजस्थान में राष्ट्रीयता के प्रणेता थे । उन्होंने इस प्रान्त में आजादी की चाह का बीज वोया और अपने त्याग व तपस्या से सींवा था ।

सेठ लमनलालजी वजाज प्रान्त की रचनात्मक प्रवृत्तियों के जनक, पोषक और संचालक थे । प्रान्त में गाँधी तत्वों का प्रवेश और प्रसार उन्होंने की सूक्ष्म, सलाह और सहायता से हुआ । देश के सर्वोच्च नेताओं में स्थान पाकर उन्होंने राजस्थान का गौरव बढ़ाया था ।

श्री० विजयसिंहजी पथिक राजस्थान की असली जनता के पहले नेता थे । उन्होंने यहां के किसानों को जगाया, उन्होंने स्थानीय देशभक्ति की मावना को सजीव बनाया और उन्होंने राजस्थानी युवकों को आजन्म देश-सेवा की दीक्षा दी थी ।

सेठीजी की प्रेरणा, सेठजी की ददारता, और पथिकजी के पथ-प्रदर्शन से लेखक उपकृत हुआ है । इसकी दृष्टि में आधुनिक राजस्थान के निर्माता मुख्यतः यहीं तीन वुजुर्ग कहे जा सकते हैं ।

के अलावा अनेक देशभक्तों, समाज-सुधारकों, साहित्य-और छोटे-बड़े स्त्री-पुरुषों ने इस निर्माण कार्य में गुरुलिया है । मैं हार्दिक आदर और प्रेम से यह पुस्तक की समर्पण करता हूँ ।

—रामनारायण चौधरी

## क्षमा याचना

हमें बहुत दुःख है कि इस संस्करण में प्रृक् की कई भूलें रह गई हैं। इसके लिये हम लेखक महोदय और पाठकों से क्षमा याचना करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि अगले संस्करण में ये गलतियां सुधार दी जायेंगी।

व्यवस्थापक,

नया राजस्थान प्रिटिंग प्रेस,

अजमेर।

# वर्तमान राजस्थान

## पहला अध्याय

मेरी कल्पना और इतिहास की नज़र में राजस्थान देश के उस हिस्से का नाम है जिसे राजपूताना कहते हैं, हालांकि हमारी राष्ट्रीय महासभा ने भाषा के आधार पर जो प्रान्त बनाया उसमें मध्य भारत भी शामिल कर लिया गया। इस प्रान्त में अजमेर मेरवाड़े का अंग्रेजी चिला, जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, जैसलमेर, मेरवाड़, छाँगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, वूंदी, झालावाड़, अलवर, किशनगढ़, करौली, सिरोही और दांता के राजपूत राजवाड़े, भरतपुर और धौलपुर के जाट और टॉक और पालनपुर की मुख्यमान रियासतें शामिल हैं। इसका ज्ञेत्रफल १३०४६२ वर्गमील और आवादी १३६७०००० है। वारिश यहाँ पर साल भर में कम से कम ५ इंच और अधिक से अधिक ५० इंच के क्लीव होती है। बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान होने के कारण आवहन खुश और है। गर्मी में सख्त गर्मी और सर्दी में कड़ाके की सर्दी दक्षिण में हरे भरे जंगल और पहाड़ भी हैं। घम्बल, राही भरख़ नदियाँ हैं। सांभर की झील हर साल

लाखों सन नमक पैदा करती है। खनिज पदार्थों में भोड़ल, संगमरंसर और दूसरी तरह के पत्थर मुख्य हैं। भाषा राजस्थानी है जिसकी मुख्य मुख्य शब्दायें सारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और हृदाड़ी हैं। अनाल की पैदावार में लौ, नेहूँ, चना, मक्की, बाजरा और ज्वार खास हैं। उन भी काकी होती है। पहनावा आम तौर पर पुरुषों का साफ़ा या पगड़ी, धोती और कुरता और लिंगों का लहँगा, ओढ़नी और अंगिया या चोली होती है। कारीगरी में यहाँ की रँगाई, पञ्चिकारी, शिल्प और संगीत मशहूर हैं। राजपूत युद्ध के लिये और वैश्य व्यापार के लिये प्रसिद्ध हैं। ज्यादातर लोगों का वंया खेती और घरेलू धंधे हैं। देखने के काविल जगहों में चित्तौड़ और रणथंभौर के किले, दूलधाड़ा (आवृ) का जैन मंदिर, जयपुर शहर और मेवाड़ का जयसमुद्र तालाब मुख्य हैं। इस प्रान्त को राणा प्रताप व दुर्गादास जैसे वीर और दाढ़ू व मीरां जैसे संतों को पैदा करने का भी गौरव नहीं बहुआ है। उनकी गाथाएँ राजस्थानी साहित्य की अमर निधियाँ हैं।

### शुरू की बात

मौजूदा राजस्थान में जागृति का दौर वंगभंग और स्वदेशी आन्दोलन के बाद शुरू हुआ। उन्हीं दिनों छोटे से जापान ने बड़े भारी रूस को हरा कर यह सामित कर दिया कि जो एशिया वाले धर्म और नीति में संसार के अगुआ ठीक तालीम पाकर यतोयितों को ऐन्हीं के

नीचा दिखा सकते हैं। हिन्दुस्तानियों को इस घटना से बड़ा हौसला हुआ। मुल्क के एक कौने से दूसरे कौने तक देश-प्रेम की एक आँधी सी आ गई। राजस्थान उससे अद्वृता न रहा, मगर वह लद्दंश सावारण लनता को न छू सकी, कुछ व्यक्तियों को ही लग कर रह गई।

उसी ज्ञाने में आर्यसमाज का आन्दोलन भी जोरों पर था। महर्षि दयानन्द ने वहाँ काम भी किया था और अजमेर में उनका देहान्त हुआ था। जोवपुर के महाराजा जसवन्तसिंह और उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह पर स्वामींकी के जीवन और उपदेश की काफी छाप पढ़ी थी। इवर सनातन धर्म पर इस आन्दोलन का दूसरा ही असर हुआ। दोनों ही हिन्दू-धर्म की असली दीवार वेदों को मानते थे, लेकिन वाहरी वातों के खासे हिस्से को आर्यसमाज बड़ा गला समझ कर इस पर चौरक्षाड़ कर रहा था तो सनातन प्रेमी उपकी सज्जी और सूंठी अच्छाइयाँ दिखाने में आकाश-पाताल एक कर रहे थे। इस कशमकश में लहाँ शास्त्रार्थी और खण्डन-मण्डन के जल्सों में आपसी तनातनी बढ़ती थी, वहाँ शिक्षा प्रचार, त्वियों को उठाने, कुरीतियाँ दूर करने वर्गीरा कई तरह से समाज मुवार का काम भी हुआ। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह हुई कि जगह जगह आर्य समाज कायम हुए। इनसे सार्वजनिक जीवन की नींव पड़ी, संगठन का बीज बोया गया और किसी न किसी रूप में देश-प्रेम का प्रचार होने लगा।

हिन्दू मुसलमानों के आपसी ताल्लुक़ात अच्छे थे। आपस में धार्मिक विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज का भेद सहन करते थे और फिर भी आपस के सुख दुख में भागीदार बनते थे। शादी ग्रामी में तो सभी शरीक होते थे, धार्मिक अवसरों पर भी बहुत लोग सहयोग देते थे। जलमूलनी ग्यारस के जुलूस में मुसलमान और मुहर्रम में हिन्दू वरावर उत्साह दिखाते थे। कृष्ण के कीर्तन अनेक मुसलमान और मौलूद के बाज कई हिन्दू चाव से सुनते थे। हिन्दू मेहमानों के लिए मुसलमान त्राहणों से भोजन बनवाते थे और हिन्दुओं के सावों का लिहाज करके गोमांस से परहेज रखते थे। मुसलमान रियासतों में गोवध बन्द था और कई हिन्दू राज्य अपने खर्च से ताजिये निकलवाते थे।

### राजनैतिक हलचल

राजनैतिक हालत अच्छी नहीं थी। राजपूताने का केन्द्र अंग्रेजों की प्रांतीय राजधानी होने के कारण अजमेर था। यहां रियासतों से कुछ ज्यादा आज्ञादी थो। त्रिटिश साम्राज्य की सदा यह नीति रही है कि देशी रजवाड़ों का शासन अंग्रेजी हुक्मत से खराब दिखाई देता रहे, ताकि जनता को स्वराज्य से अंग्रेजी राज ज्यादा अच्छा लगे। इस कारण अजमेर-मेरवाड़ा में राजनैतिक और सांस्कृतिक तरक्की राजपूताने के दूसरे भागों से कुछ ज्यादा होना कुदरती था। रियासती हिस्से में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर राज्य ही मुख्य माने जाते थे। बीकानेर

का प्रभाव उस बज्रत तक नहीं वढ़ा था। एक कारण तीनों रज-  
वाड़ों की प्रवानता का यह भी था कि तीनों के पिछले राजाओं  
ने हक्कमत में कुछ सुधार किये थे। जयपुर के महाराजा रामसिंह-  
जी जोवपुर के लखवंतसिंहली और मेवाड़ के सज्जनसिंहजी ने  
अपने अपने राज्यों में कौंसिलें बनाईं, स्कूल कालेज खोले, न्याय  
के महकमों का इंतजाम किया और सफाई तंदुरस्ती के महकमे  
बारी किये थे। गरज यह कि ये तीनों रियासतें औरों से आगे  
वढ़ो हुई समझी जाती थीं।

### • जयपुर रियासत

जयपुर रियासत के एक गांव में पैदा होने से मेरे सामने  
बही की हालत ज्यादा आई। वैसे, थोड़े से अदल-बदल के  
साथ, उसे रानपूताने भर के लिए नमूना समझा जा सकता  
है। जिस समय का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह महाराज माधोसिंह-  
जी का जमाना था। विधान की दृष्टि से राज्य की समूची सत्ता  
राजा के हाथ में थी, मगर शासन का सारा संचालन 'मुखाहव'  
( प्रधान मंत्री ) करता था। उसके बदलने पर बहुत सा 'अमला'  
बदल जाता था। जो आता अपने मित्रों, रिश्तेदारों और कृपा-  
पात्रों की भरती करता। नाम को एक कौंसिल थी। वह एक ही  
साथ रियासत की सबसे बड़ी बन्दोबस्त करने वाली संस्था, सब  
से ऊँची अदालत और कानून बनाने वाली सभा थी। उसमें  
कुछ लासीरदार, एक दो खानदानों सुस्तमान, कुछ पढ़े लिखे  
जयपुरी और कुछ अंग्रेजों के दिये हुये वाहरी हिन्दुस्तानी में वर-

होते थे। कौंसिल क्या थी, एक भानमती का पिटारा होती थी। मुख्याहिय ही उसके कर्ता वर्ता थे। शासन में प्रजा का कोई हाय न था। चुनी हुई पंचायतें, न्यूनिसिपल्टी वा सभा जैसी कोई चीज़ न थी। ऊपर से नीचे तक चारा कारबार, रियासत के तन-खाहदार नौकर चलते थे।

वेदंजात ( मुफ्फस्त्वल ) में खालसे और लागीनी दो तरह के इलाके थे। खालसे में जिला मजिस्ट्रेट 'नाजिम' कहलाते थे। वे वहाँ के मुख्य न्यायाधीश, लगान वसूल करने वाले, सब से बड़े कर्मचारी और प्रवंवर्विभाग के अक्षसर होते थे। इनमें से कई कानून नहीं जानते थे और राजवानी में असर रखने के कारण ओहदे पथे हुये थे। उनकी मदद के लिये पैदल और दृढ़सवार फौज की एक एक हुकड़ी, पुलिस और माल विभाग के मुलानिम रहते थे। जिले के केन्द्र में एक प्राइमरी वा मिडिल स्कूल, एक छोटा जा असरवाल, एक देशी ढाकखाना, एक राह-दारी ( सायर ) की चौकी और एक लेलखाना होता था। नाजिम अक्षसर अपने इलाके के राजा होते थे। सर्कारी काम कान और रहन सहन में वे अपने मालिक की नकल करते थे, मनमानी करते, मालामाल होते और मौज दड़ाते थे।

देहात की पुलिस 'गीराई' कहलाती थी। वह हर ज़िले में एक एक छिप्टी सुपरडेट के मात्रहत होती थी। ये अफसर वहुधा कोई उज्ज्ञ राजपूत या मुसलमान होते थे। उनकी निर्दियरा उनकी मुख्य सिफारिश होती थी। सर्कारी हल्कों में इसे

‘द्रवंगपन’ कहा जाता था। ये अक्सर दौरे पर रहते थे। जहाँ जाते तहलका मचा देते थे। इनका आतंक इतना ज्वरदर्श होता था कि जहाँ इनका दौरा लगता, भले घरों की बहु वेटियों, बालकों और डरपोक प्रजालनों का आज्ञादी के साथ निकलना मुश्किल हो जाता था। अपराधों का पता लगाने का उनके पास एक ही तरीका था। जिन पर सन्देह होता उन्हें खुले तौर पर दूरखत से लटका कर मारना, काठ ( खोड़े ) में लगा देना, धूप में खड़ा करके सिर पर पत्थर रखवा देना या कम्बल अद्वा कर पिटवाना उस बक पुलिस के ब्रह्मास्त्र थे। इसकी मार से निर्दोष भी जुर्म का झकवाल कर लेते थे। हाँ, भरपूर पेट पूजा कर देने से भी हृष्टकारा हो जाता था।

लगान वसूली का यह ढंग था कि ‘नायब कलकटर’ चौधरियों और पटवारियों की सलाह से खड़ी कसल का ‘कूंता’ ( अंदाजा ) करके पैदावार की कमां वैशी के अनुसार लगान की कम ज्यादा रकम मुकर्रर कर देते थे। वसूली के लिये कहने को तो तहसीलदार होते थे और उनके पास ‘डीलों’ ( प्यादों ) का एक दल भी रहता था। मगर वसूली का सीधा काम ‘इजारदारों’ की मार्फत होता था। इस प्रथा के अनुसार कस्तों के महालन एक या अधिक गांवों का लगान वसूली का ‘इजारा’ या ठेका ले लेते थे। राज्य की रकम तो वंधी हुई होती थी, परन्तु इजारदार अपने मेहनताने के तौर पर अधिक भी वसूल कर सकते थे। वह तहसील के प्यादों की मदद वाले ही सक-

अपने 'शहने' भी रख सकता था। इन लोगों को इज्जारदार गांठ से कुछ नहीं देता था, उनकी 'वलव' के 'परचाने' जारी कर देता था जिन्हें 'आसामी' चुकाते थे। तहसीलदार और उनके अमले का खास काम यही था कि इज्जारदारों की वसूली में दिक्कत हो तो किसानों को काठ (खोड़े) में बिठा कर या दूसरी तरह वल प्रयोग करके उनकी हड्डियां चूस ली जायें। भार यह कि माल के महकमे के मारे देहात में त्राहि त्राहि मच्ची रहती थी।

### जागीरों में

जागीरदारों के यहां के हालात इससे भी बदतर थे। वे खुद आमतौर पर वे पढ़े, वेकार, वंश के अभिमानी और विलासी होते थे। उनके यहां हैसियत के अनुसार दास दासियों की छोटी बड़ी टोली थी। इन अभागे प्राणियों में पुरुषों को स्वतंत्रता और स्त्रियों को सतीत्व के अधिकार नहीं थे। इन्हें से हल्का और बुरे से बुरा काम इनसे लिया जाता था। जागीरी प्रजा की हालत भी इन गुलामों से बहुत अच्छी नहीं थी। व्यादातर 'सर्दीरों' को कानून से फौजदारी या दीवानी के अखितयार न होने पर भी प्रायः सभी जागीरदारों का आतंक, छलबल, प्रलोभन और उत्पीड़न रैयत को बुरी तरह दबा कर रखने में सफल होता था। वे 'लाटा बाँटा' की प्रथा के अनुसार किसानों से पैदावार का चौथाई से आवा हिस्सा तक लगान के रूप में वस्तु कर लेते थे, जिसे चाइते चेदखल करते, समय असमय वेगार में

जोतते और अनेक तरह की लाग वाग लेते थे। उनकी शिकार की कुटुंब से लानवरों से ज्यादा किसानों का शिकार होता था। शराब पीकर मोग-विलास में पड़े रहना और प्रजा को चूखना ही ज्यादातर जागीरदारों का रोजाना लीबन कहा जा सकता था। सामन्तशाही के अंग होने के कारण दूसरी योग्यताएं न होने पर भी रियासत की हुक्मत में उनका काफी हाथ रहता था। लेकिन अभी तक इन्सानियत के गुण उनमें से विलक्षित नहीं हुए थे।

### अंग्रेजों का बोलबाला

अंग्रेजों का दबद्वा गैर मामूली था। तादाद में तो एक डाक्टर, एक इंजीनियर, एक वैड मास्टर, एक तामीरात का अफसर और एक रेजीडेन्ट—कुल मिला कर चंद ही गोरे थे। मगर जितनी तादाद थोड़ी थी, असर उतना ही ज्यादा था। उनकी सफेद चमड़ी के कारण उनमें से छोटे से छोटे को राज्य का बड़े से बड़ा जागीरदार व अधिकारी अपने से ऊँचा मानता था। वे खून भी कर देते थे तो रियासत की पुलिस या अदालत उनके हाथ नहीं लगा सकती थी। गोरे सर्जन के लिए आम जनता में यह वाणी थी कि वह महाराजा को भी पागल बना कर गद्दा से उतरवा सकता है। अजंट साहब (रेजीडेन्ट) का इशारा, बड़े साहब (ए. जी. जी.) की तहरीर और लाट साहब (वायसराय) का खरीता महाराज के लिए गैरमामूली महत्व रखता था। हर साल रेजीडेन्ट और

हर तीसरे या पाँचवें वर्ष प. जी. जी. का दौरा होता था। लगभग हर बायसराय अपने ज्ञाने में एक बार जयपुर जहर तशीरीक लाते थे। इनके आने से रियासत पर कितना आर्थिक भार पड़ता था, देहाती प्रजा को रसद व वेगार की चक्की में कैसे पिसना होता था और साम्राज्यवाद का कैसा जहरीला प्रचार होता था, यह एक दर्दनाक कहानी है। हाँ, इन दौरों से कभी-कभी प्रजा की शिकायतें भी सामने आ जाती थीं, मगर इससे प्रजा को तो शायद ही कुछ राहत मिलती, अलवत्ता राजा के खिलाफ पोलिटिकल डिपार्टमेंट की गुप्त सामग्री जहर बढ़ जाती।

### नौकरियाँ

रियासत में नौकरियाँ सचमुच विकती थीं। चपराई से दीवान तक का ओहदा या तो रिश्वत से या सिक्कारिश से मिलता था। योग्यता की कद्र शायद ही कभी होती थी। कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी और न कारगुजारी का हिसाब रखा जाता था। नौकरी पाने के लिए जैसे रकमें बँधो हुई थीं, जैसे ही नौकरी पाने के बाद ये लोग भी हर काम के लिए कीमत लेते थे। न्याय-विभाग को ही लें तो मिसल देखने से लगाकर अनुकूल फैसला कराने तक सब कुछ रिश्वत से हो सकता था। उसमें भी, 'जो बड़े से पावे'। वेतन बहुत थोड़े थे, लेकिन 'ऊपर की आमदनी' कई गुनी हो जाती थी। जहाँ न्याय व कानून का दुर्गत हो, वहाँ दलीलों और नज़ीरों का क्या गुजरी?

लाचार, वकीलों को भी 'खाने खिलाने' का धंधा करना पड़ता था। इस तरह गरीब प्रजा—खासकर देहातियों व किसानों—के खिलाफ सारे बुद्धिशाली और शिक्षित वर्गों का एक पड़यंत्र सा काम कर रहा था जिसे यही उद्येह बुन रहती थी कि किस तरह इन भोले अनन्दाताओं से अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाय। इन वेचारों से राज और राम दोनों खटे हुए थे।

### महाराजा साहब

महाराजा में अच्छाइयों और बुराइयों का अजीब मेल था। एक तरफ वे धर्म से बड़े ढरने वाले थे, रोज उठकर गाय और गोविन्ददेव के दर्शन करते, माला लपते, गंगाजल के सिवाय दूसरा पानी न पीते और सैकड़ों ब्राह्मणों और कंगालों को खिलाते थे। प्रजा के लिये उनके दिल में कोमल स्थान था। उस पर सखती करने के बे विरोधी थे। उनके ज़माने में कोई दमनकाण्ड 'नहीं' मुना गया। दयालु इतने कि जयपुर के सैट्रल जेल में सुधारों के नाम पर कुछ नई पावंडियाँ लगाने के विरोध में जब व्यारह महीने की हड्डताल हुई तो अधिकारियों के लाख चाहने पर भी बूढ़े महाराजा ने कैदियों पर लाठी या गोलियाँ न चलने दी। दृष्टरी तरफ वे इतने अव्याश थे कि उनके महल में तीन चार हजार स्त्रियाँ थीं। इन में से व्यादातर को डर या लालच दिखा कर जवानी में फँस लिया गया था। उनकी बुद्धिशा व्याप्त करना कठिन है, अंदाजा आसानी से हो सकता है। नतीजा यह होता था कि महाराजा को भोग विलास के

आगे राजकान देखने की 'कुर्सित ही नहीं' मिल सकती थी। उस समय का अंदाजा यह था कि राज्य की आमदनी के तीन चराघर भाग किये जायें तो एक हिस्सा जागीरदारों पर, दूसरा शासन पर और तोसरा अकेले महाराजा पर खर्च होता था। प्रजा में राजनैतिक विचारों की इतनी कमी थी कि इन बातों पर असंतोष होने के बजाय राजा के लिये अंधी अद्वा थी। वह उसको ईश्वर का अंश मानती और उसकी अंधाधुन्य नकल करती थी। मुझे खूब याद है कि तीज, गनगौर और दशहरे के उत्सवों पर साल में तीन बार जब महाराजा महलों के बाहर निकलते तो उनकी 'सवारी' देखने के लिए राजधानी के ही नहीं, दूर दूर के देहात के नर नारी राज मार्ग पर समुद्र की तरह उमड़ पड़ते और 'खम्मा अनन्दाता' के धोप से आकाश को गुँजा देते थे। खानगो जीवन में भी राजाओं के क़दमों पर चलने में प्रजाजन अपना गौरव समझते थे। आश्नाई करना गृहस्थ में और वेश्या रखना सरकारो मुजाजिमत में चुरा नहीं समझा जाता था। धर्म का ढोंग भी राजा की तरह प्रजा में फैला हुआ था। लेकिन जैसे बादलों में विजली और रेगिस्तान में हरियाली होती है, वैसे ही इस अंधेर में भी कुछ उजाले की जगहें थीं। राजधानी में ही सही, थोड़ा सांस्कृतिक वायुमण्डल था, शिक्षण संस्थाएं थीं, कला की कद्र थी, अजायबघ था, व्योतिप्रयन्त्रालय था और 'गुनीजन खाने' में गाने बजाने वालों को आश्रय मिलता था। विलास की सामग्री बहुत थी,

मगर सारी स्वदेशी। विदेशी चीजों का शौक न तो राजा को था, न प्रजा को। लागीरदारों में कहीं कहीं और राजकर्मचारियों में हर जगह कोई न कोई न्याय प्रेसी और सदाचारी पुरुष मिल जाते थे। प्रजा जनों में भी इके दुके आदमी स्वामी-मानी, परोपकारी और द्वंग आदमी पाये जाते थे। जगह जगह साधु संत चुपचाप अपने ढंग से जनता में अध्यात्म, सदाचार और ईश्वर परायणता का प्रचार कर रहे थे। शासन में मानवता का अंश बाकी था, वेरहमी ने अभी पश्चिम का सा रूप धारण नहीं किया था और जालिम से जालिम कर्मचारी और पामर से पामर प्रलाजनों के अंतर का दैवी भाग जगाया जा सकता था।

### सार्वजनिक जीवन

सार्वजनिक जीवन नहीं था। राजनैतिक संस्थाएँ और सभाएँ नाम को भी न थीं। अखबार तो निकलते ही क्या? आर्यसमाज ज़रूर था। उसके सामाहिक जल्से भी होते थे और कभी कभी वाहर के उपदेशकों के व्याख्यान भी हो जाते थे। थोड़ी हलचल जैन साधुओं के भाषणों से भी समय समय पर हो जाया करती थी। मगर प्रजा के अधिकारों और कर्तव्यों, राज्य के शासन-सुवारों और देश की राजनीति से जहां तक संवेद है, वहां तक मामला कोरमकोर था। सन् १६०५ से १६१० के बीच के छः साल में सिर्फ पांच अवसर मुझे याद पढ़ते हैं जब देशभक्ति का नाम सुना हो या सार्वजनिक जीवन के दर्शन हुए हैं। पहली घटना १६०६ की

है जब मैंने तंवरावाटी के नायिम पु० हरिनारायणली के यहाँ फ़तहपुर के सेठ रामदयालजी नेवटिया के 'देशोपकारक' मासिक का एक अंक देखा। उसमें पहले ही पन्ने पर स्व० पं० चन्द्रघर गुलेरी की एक कविता थी जिसमें रूस पर जापान की विजय का बखान करते हुए एशिया वासियों—खास कर हिन्दुस्तानियों—से जागने की अपील की गई थी। दूसरा वाक्या १६०८ का है। इस समय मेरी उम्र १२ वर्ष की होगी और मैं लोअर मिडिल में पढ़ता था। नेस्टफ़र्लिड की तीसरी रीडर में बॉल्टर स्कॉट की 'लब आँक दो करट्री' नामक कविता का पाठ था। उसे मास्टर रामकुमारजी चौथा ने अपना सारा हृदय उँडेल कर पढ़ाया था। तोसरा सौका पं० श्रवणलाल नामक सतातनी प्रचारक के व्याख्यान का था जिसमें बक्ता ने प्राचीन भारत की सतियों की अलौकिक शक्ति का चित्र खीचा था। चौथा सौका श्री० रामनाथ रत्नू नामक चारण सहजन की विलायत यात्रा का देशभक्ति से भरा हुआ हाल पढ़ना था। पाँचवीं घटना यह थी कि जयपुर के आर्यसमाज में एक महाशयनी ने आर्य सभ्यता पर जोरदार माषण दिया था। इनके अलावा यह भी सुना था कि राजधानी में वडे राज कर्मचारियों के दो दलों में जो 'सज्जन पार्टी' थी इसकी समिति अक्सर नीति, सदाचार व संस्कृति संवर्धी विषयों की चर्चा किया करती है। लेकिन सन् १६१३ तक जिस चीज का मुझे पता नहीं लगा और जो सार्वजनिक जीवन के ख्याल से जयपुर की ही नहीं—प्रांत भर में सबसे महत्व की

चीज़ थी, वह थी पंडित अर्जुनलाल जी सेठी की हस्ती और चुपचाप काम करने वाली उनकी मंडली। मगर इसका हाल तो दूसरे ही किसी परिच्छेद में आवेगा।

नूरज यह कि रियासतों में देहाती प्रजा अज्ञान, गृहीती और जुल्म से पीड़ित थी तो शहरी जनता आलस्य, विलास और नौकरी के गढ़े में फँसी हुई थी। राजनैतिक जीवन का कहीं निशान न था। ऐसी दशा में देश सेवा का पौदा क्या तो उगे और क्या बढ़े? मेरी तरह हजारों नौजवान ऐसे थे जिन्हें आजादी और देश प्रेम का प्राणबायु मुश्किल से छू पाता था कि उनके दिलों-दिमाग की कलियाँ विन खिले ही मुरझा जाती थीं।

### अजमेर का शासन

उस समय राजस्थान में राजनीति नाम को भी कहीं थी तो वह अजमेर में थी। वहां कांग्रेस का नरमदली संगठन था। रा० सा० विश्वंभरनायजी टंडन, श्री प्रसुदयालजी भार्गव वकील और वैरिट्टर गोरीशंकरजी इसके मुखिया थे।

शासन में एक अंग्रेज चीफ कमिश्नर यहां का राजा था। उसके हाथ में एकत्री शासन के करीब करीब सारे अधिकार थे। उसकी मनमानी को रोकने वाली न कोई कौंसिल थी, न धारासभा। वही राजपूताने के लिये गवर्नर-जनरल का एजेन्ट भी था। उसके मातृहृत एक कमिश्नर था जो एक ही साथ जब-मजिस्ट्रेट, कलक्टर, शिक्षा का डाइरेक्टर, जेलों का अ-

और सभी विभागों का विधाता था। उसकी मदद के लिये असिस्टेंट कमिशनर और पुलिस सुपरिनेंडेंट भी यूरोपियन ही होते थे। पुलिस मारपोट से काम लेती थी और माल, पुलिस और इन्साफ वगैरा सब महकभों में रिश्वत का वाचार गर्म था। न्याय और प्रबन्ध विभाग एक था और कोई हाईकोर्ट न थी। इसलिये लोगों को खालिस इन्साफ नहीं मिलता था। जिले का एक बड़ा भाग इस्तमरारदारों के मातहत था। स्वयंभू दर्वारों की यह जमात वाप दादों से मिले हुए अधिकार और सहृदालियों भोगती थी। और वृद्धिश सरकार की सीधी देख रेख में लगावान-वेनार और मनमाना लगान वसूल करती थी, वेदखलियां करती और प्रला को सराने और चूसने की सभी लीलाएं करती थी, दास दासियां रखती, और लोगों को गैर कानूनी सजाएं देती थी। खालसे में लगान ज़रूर हल्का था, मगर वेनार अंप्रेज भी होते थे। जब वायसराय की रेल इवर से गुनरती तो उसकी रक्षा के लिये रिचास्टों की तरह उस अंप्रेजों इलाके में भी देहाती वेनार में पकड़ लिये जाते और रात हो चा दिन, जाड़ा हो चा गर्मी, धूप हो चा बर्षा चार के खन्भों के पास पहरा दैने को खड़े कर दिये जाते थे। न्यूनिसिपलिटियों और जिला बोर्ड में सरकारी आर्द्धमियों की ही भरमार थी। उनमें लोक सत्ता नाम की ही थी।

अजमेर में रेलवे का केन्द्र और बड़ा कारखाना होने से लोगों को रोजगार ज़रूर मिलता था, मगर उसमें भी अंप्रेजों और

## दो शब्द

बंगभंग के बाद देश के दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान में भी राष्ट्रीय ज्ञागृति आरम्भ हुई। प्रान्त में क्रांतिकारी आनंदोलन शुरू हुआ। अबमेर-मेरवाड़ा में होमरुल की हलचल का असर पड़ा। उसके बाद गांधी युग आया उसी के साथ श्री विजयसिंहजी पर्याक का चलाया हुआ विलौलिया का सत्याग्रह हुआ और राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में रियासतों की देहाती प्रजा ने अपने कष्ट निवारण के लिये अनेक लड़ाइयां लड़ीं। इसी बीच खाड़ी, राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन और दूसरी रचनात्मक प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ। इसमें में सन् १९३० की शांत क्रांति आ पहुंची। राजस्थान ने उसमें भी भाग लिया। इसी तरह सन् १९३८-३९ के आज्ञा भंग आनंदोलनों में भी इस प्रांत ने पत्रपुष्य भेंट किया। फिर गांधीजी ने हिन्दू धर्म के माथे से अछूतपन का कलंक मिटाने के लिये जो महायज्ञ रचाया उसमें भी राजपूताने ने बूते के अनुसार हिस्सा बटाया। इसके बाद हरिपुरा कांथेस से देशी रियसतों की जनका को रखावलम्बन का जो संदेश मिला उस पर हमारे रजवाड़ों में अमल हुआ और प्रजा भएड़ों का जन्म और संगठन हुआ। हमारे कई राज्यों में प्रजा ने अपने अधिकारों के लिये सत्याग्रह किया। सन् १९४० में मौजूदा महायुद्ध के सिलसिले में त्रिटिश सत्ता की

दम्भनीति के प्रति विरोध प्रदर्शित अनेके के लिये व्यक्तिगत सत्याप्रह हुआ । उसमें भी कुछ राजस्थानियोंने सांग लिया । सन् १९४२ में आज्ञादी का आखिरी जंग शुरू हुआ । इसके सिलसिले में कैदी बन कर तो यह पंक्तियाँ लिखी ही जा रही हैं ।

इस राजनीतिक जद्वोनहद के अलावा प्रांत में साहित्य, समाज सुधार, शिक्षा प्रचार और दूसरी सांस्कृतिक कोशशों भी हुईं ।

लेकिन आधुनिक राजस्थान के इस सारे जागृतिकाल का कोई इतिहास नहीं लिखा गया । हमारे मध्यकालीन गौरव की गाथायें तो अनेक भारतीय और विदेशी लेखकोंने गाई हैं । वे हमें ही नहीं, देश भर को स्मृति देती हैं । परन्तु हाल की स्थातंत्र्य चेष्टाओं का विवान क्रमबद्ध रूप में विद्वान्म दृष्टि से भी नहीं हुआ । बाहर वालों की नज़र में हमारे आपसी भगड़े जहर आये, हमारा उच्चल पक्ष सामने नहीं आया । लेकिन वह जितना छिपा है उतना जगत्य भी नहीं है । उसके प्रकाश में आये विना पर्याप्तासिक सत्य अधूरा रहता, आने वाली पीढ़ियों को एक ज्ञास सामग्री का अभाव खटकता और भावी निर्माण कार्य में वर्तमान की नृविद्यों और खराबियों का लाभ न मिलता ।

इस अन्नाव को अनेक मित्रों की राह कई साल से मैं भी महसूस करता था । लेकिन सार्वजनिक जीवन की मस्फुकियोंमें हम जैसे सेवकों को शान्ति पूर्वक कुछ लिखने का अवकाश जेल में ही मिला करता है । नुश्कस्मती से वह मौका हाथ लग

न्या। लेकिन जेलखाने में एक राजनैतिक इतिहास लिखने के लिये जो सामग्री और अनुकूलता चाहिये वह मन्यसर नहीं होती। इस नज़रवन्दी में तो प्रतिकूलताएँ और भी कहीं रहीं। साथ ही लेखक के जीवन का उस इतिहास से बनिष्ट सम्बन्ध रहा हो तो न वह अपने व्यक्तित्व को उससे अलग रख सकता है, न निःसंकोच भाव से उसमें अपना भाग समाविष्ट कर सकता है। ऐसी हालत में अच्छा तो यही था कि कोई ऐसे भाई इस भार को उठाते जो अधिक तटस्थ वृच्छा से लिख सकते हैं। मगर जिन दो चार मित्रों की ऐसी स्थिति है वे हैयार नहीं हुए। इसलिए लान्चार होकर मुझी को यह काम हाथ में लेना पड़ा। बहुत विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह पुस्तक संस्मरणों के रूप में ही लिखी जाय। जहाँ तक घटनाओं का सम्बन्ध है यह ध्यान रखने की कोशिश की गई है कि उन्हें ठीक उसी रूप में पेश किया जाय जिसमें वे मेरे सामने आई या बाद रहीं। उनकी सच्चाई के बारे में शंका की जगह दूसरे जानकार साधियों की सलाह भी ली गई है। व्यक्तियों के गुणों का ही वर्णन करने पर अधिक ज़ोर दिया गया है और जहाँ दोप दिखाना चाहरी था वहाँ उन्हें प्रवृत्तियों से सम्बद्ध करके बताया गया है।

अबश्य ही कुछ घटनाओं, प्रवृत्तियों और व्यक्तियों का उल्लेख इस पुस्तक में नहीं हुआ है जो सार्वजनिक या ऐतिहासिक हास्त से महत्वपूर्ण कहीं जा सकती है, मगर संस्मरण पद्धति में ऐसा होना अनिवार्य है। इसमें तो निकट परिचय या प्रत्यक्ष अनुभव की बातें ही दी जा सकती हैं।

यह पुस्तक मई १९४५ से पहले ही जेल में लिखी गई थी। इसलिये इसमें तभी तक की घटनाएं आई हैं। केवल अन्त में योद्धासा ज़िक्र वाद के हालात का करके उसे मौजूदा समय तक लाने की कोशिश की गई है।

अगर सत्य, सुरुचि और सार्वजनिक हित के स्वाल से कोई आपत्तिजनक बात दिखाई पड़े तो पाठक सुझे सुझा देने की कृपा करें ताकि अगले संस्करण में ऐसी सुचनाओं से लाभ उठाया जा सके।

---

# भूमिका

हमारे देश ने स्वाधीनता की पहली मंजिल पार करली है। विदेशियों के चुंगल से वह मुक्त होनया है और सैकड़ों वर्षों बाद हमें उन्मुक्त व्युत्थान में सांस लेने का मौका मिला है। क्यों दूसरी मंजिल शुरू करने के पहले यह जास्ती है कि हम पिछली घटनाओं पर एक सरबरी निगाह डाल लें। कृतज्ञता का भी यह हक्काज्ञा है कि उन साम्राज्यों का भी स्मरण कर लिया जाय, जो गत संप्रामों में जूझ गये और जिनका नाम समकालीन व्यास्त भी भूलते जाते हैं। इसके सिवाय भारतीय स्वाधीनता के विरुद्ध और प्रामाणिक इतिहास के लिये भिन्न भिन्न जन-पदों के विविध संघर्षों का विवरण अनिवार्यतः आवश्यक है। संक्षेप में यों कहिये कि भावी इतिहास लेखक के लिये मसाला तय्यार करना है। स्वयं लेखक महोदय बन्धुवर रामनारायणजी चौधरी ने अपने प्रारम्भिक कथन में लिखा है:—

“आधुनिक राजस्थान के इस जागृतिकाल का कोई इतिहास नहीं” लिखा गया। हमारे मध्यकालीन गौरव की गाथायें दो अनेक भारतीय और विदेशी लेखकों ने गाई हैं, वे हमें ही नहीं, देश भर को सूर्ति देती हैं, परन्तु हाल की स्वातंत्र्य

\* ही, अजमेर-मेरवाड़ में शायद अब भी वही दम-चौंटू बातावरण मौजूद है। पढ़िये पृष्ठ २३२

चेष्टोंओं का दखान क्रमबद्ध रूप में, विहंगम दृष्टि से भी नहीं हुआ। बाहर बालों की नज़र में हमारे आपसी मङ्गड़े ज़खर आये, हमारा उज्ज्वल पक्ष सामने नहीं आया। लेकिन वह जितना छिपा है उतना नगरण भी नहीं है। उसके प्रकाश में आये विना ऐतिहासिक सत्य अधूरा रहता, आने वाली पीढ़ियों को एक खास सामग्री का अभाव खटकता और भावी निर्माण कार्य में बतेसान की ख़ूबियों और खराबियों का लाभ न मिलता……”

निससन्देह लेखक को अपने द्वेष में पर्याप्त सफलता मिली है : हन्दोंने एक टॉच़ा तैयार कर दिया है—स्टील फ्रेम ही बना दिया है—और वह भी संकेत कर दिया है कि ऐतिहासिक भवन निर्माण की सामग्री कहाँ कहाँ मिल सकती है। फिर भी इस पुस्तक को सुर्वाङ्ग पूर्ण राजनीतिक इतिहास नहीं कहा जा सकता—.खुद लेखक ने इसका दावा नहीं किया और इसे संस्मरण प्रन्थ ही काना है औँ वह भी प्रतिकूल परिस्थितियों में—जेलखाने में लिया हुआ। समालोचकों का वर्त्तव्य है कि वे इसी दृष्टि से इस प्रन्थ के गुण दोषों पर विचार करें।

‘वर्तमान राजस्थान’ के इस ड्रामा को हमने घड़े ध्यानपूर्वक देखा है। नाटक के विविध दृश्यों ने कभी हमें चक्कित कर दिया है तो कभी उद्विग्न, कभी सर्वास्त तो कभी गदगद और यद्यपि कभी कभी हम अपरिचित नामों की भरमार से कुछ बवरा गये हैं तथापि हमारे उन्नें की नौवत कभी नहीं आई। सम्भवतः इसका कारण यही है कि इस नाटक के कितने ही पात्रों के

दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्रोत्सुंहुआ है, कई महात्माओं से अपना विनिष्ट सम्बन्ध जो रहा है और कई तो अब भी हमारे लिये आदरणीय हैं।

इस नाटक में कहीं आपको जयपुर महाराज की तीन चार हजार (!) बियों के दर्शन होंगे, तो कहीं आठ रूपये महीने पर गुजर करने वाले पर्याकर्जो के। कहीं किसी उल्लङ्घ कोतवाल द्वारा सुप्रसिद्ध पत्रकार माई शोभालालजी गुप्त जूतों से पिटते हुए देख पड़े गे तो कहीं पुस्तक लेखक चौधरी जी मारवाड़ी भेष में पट्ट्यन्त्र करते हुए। पुस्तक के ५६ वें पृष्ठ पर महात्माजी तथा पथिकजी के बारीलाप की लो मांकी दिखलाई गई है उससे गद्गद होजाना पड़ता है। रंगमंच पर कहीं भोगविलासी राजा-महाराजा आते हैं तो कहीं उनके निरंकुश दीवान और दूसरी और अपना सर्वत्व माण्डभूमि की बलिवेदी पर अर्पित करके शहीद बन जाने वाले युवकों के भी दिव्य दर्शन होते हैं। स्वयं नाटककार और सूत्रधार का पार्ट भी गौवजनक तथा सूर्तिप्रद है। उनके प्रारम्भिक क्रान्तिकारी जीवन का वृत्तान्त उपन्यास की तरह मनोरंजक है। हम विनम्रतापूर्वक उनके उस उल्लंघन रूप की बन्दना करते हैं।

लेखक महोदय से हमारा २५-२६ वर्ष पुराना सम्बन्ध है और आज हम अपने इस अपराध को स्वीकार करते हैं कि उसकी असाधारण प्रचार शक्ति से हमें कभी ईर्षा भी थी। यह दम्भ समय की बात है जब कि उनके सेवासंघ का प्रचार विभाग

अपनी सफलता की चरमसीमा तक पहुंच चुका था और श्रीयुत यैथिक लारेंस द्वारा ब्रिटिश पार्लिमेण्ट में सवाल कराना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगया था। निस्सन्देह उन दिनों प्रचारक की हैसियत से वे हमसे कहीं आगे बढ़ गये थे, पर दुर्भाग्यवश सेवा संघ की शक्तियां तितर वितर हो गईं और उसके कार्यकर्ताओं को भिन्न भिन्न ज़ेत्रों में कार्य करने के लिये विवश होना पड़ा। मनुष्यों की तरह राजनैतिक संस्थाओं के लीबन में भी उत्तर चढ़ाव के दिन आते हैं और ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कम ही होते हैं जो आरम्भ से अन्त तक अपनी सजोवता बनाये रखते हैं। इर्ष की बात है कि इस पुस्तक के लेखक की गणना 'जीवित' व्यक्तियों में की जा सकती है। अलमेर-मेरवाड़े के निरंकुश शासक द्वारा उनके अखबार पर निरन्तर बार होना इस बात का सूचक है कि चौधरीजी में क्रान्ति की वह चिनगारी अभी बाकी है, जिसे बुझाने में वीसियों चीफ कमिश्नरों का मुंह मुलस सकता है!

संस्मरण प्रन्थ में यह स्वाभाविक ही है कि लेखक अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ ही साथ घटनाओं पर प्रकाश ढाले। इससे जहाँ पुस्तक की रोचकता में वृद्धि हो जाती है वहाँ अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों तथा व्यक्तियों का उल्लेख छूट जाता है। सन्तोष की बात है कि लेखक ने अपनी पुस्तक की इस त्रुटि को स्वीकार किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुस्तक में कहीं भी अहंनाव अथवा दम्भ की मरक नहीं आने

पाई। लेखक की तटस्थ मनोवृत्ति और गुण प्राहकता निस्सन्देह प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। राजस्थान के अलग अलग दंलों के कार्यों का तथा, भिन्न भिन्न नेताओं के परिश्रम का उचित मूल्याङ्कन करने में लेखक को कहाँ तक सफलता मिली है उसका ठीक ठंक लेखा लोखा तो वही लोग कर सकते हैं जो राजस्थान की परिस्थिति से भली भाँति परिचित हों, जिन्होंने उक्त जनपद के सघर्षों में भाग लिया हो और जो उसकी गतिविधि से परिचित हो हों। उदाहरणार्थ, अद्वेय पर्याक जी, भाई हरिभाऊजी और बन्धुवर शोभालालजी—यह काम हमारे जैसे पालतू कालतू साहित्यिक के बूते का नहीं। क्य हाँ, एक कुद्र पत्रकार के नाते, इतना हम भी कहेंगे कि चौधरी जी में कृतज्ञता नामक गुण अच्छी मात्रा में विद्यमान है, जो आज के कृतन्त्र युग में बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। श्री० अर्जुनलालजी सेठी को जिन आदरपूर्ण शब्दों में समरण किया गया है उससे चौधरीजी की गुरु भक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। स्वर्गीय ठाकुर कस्तीसिंहजी वारहठ, खरबा के राव गोपालसिंहजी और व्यावर के सेठ दामोदरदासजी राठी इत्यादि के चरित्रों की अद्वापूर्ण माँकियाँ इस पुस्तक में दीख पड़ेंगी। पुस्तक समर्पण चिल्कुल उपयुक्त हुआ है—स्वर्गीय पं० अर्जुनलालजी सेठी, स्व० जमनालालजी वजाज और अद्वेय विजयसिंहजी पर्याक के नाम पर—और निस्सन्देह वर्तमान

\* इस पुस्तक की भूमिका लिखने का आग्रहपूर्ण आदेश हमें क्यों दिया गया, हमारे लिए यह भी एक पहली है।

राजस्थान के तथा इसके लेखक के भी निर्माण में इस त्रिमूर्ति का जबरेदरत हाथ है। पर इस पुस्तक के सबसे अधिक महत्व पूर्ण अंश वही हैं जहाँ मोतीलाल, जयचन्द्र, दोटेलालजी, कुँवर मदनसिंह और पं० नयनूराम द्वया प्रतापसिंह को समरण किया गया है। आज के अभाने जमाने में, जब कि अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की सत्तर वर्ष बूढ़ी माँ गत सत्रह वर्षों से निस्सहाय अवस्था में अपने दिन काट रही है, प्रतापसिंहजी कैसे शहीदों की बाद करने वाला कोई आदमी मौजूद है, इस बात से दिल को कुछ दसलिसी होती है। माजूम नहीं कि हमारे प्रधान संत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, एम. एल. ए. तथा नाना प्रकार के अन्य सरकारी अफसरों ने (जो अपने बलदानों का मोल तोल करके पद प्राप्ति के अधिकारी बन गये हैं) अथवा पदों के लिये लालाचित उन महानुभावों ने (जो अपने तथाकार्यत त्यागों का अत्युक्तिमय प्रदर्शन करके अपनी भूठी-सज्जी हुंडी सुनाने के लिए चिन्तित दूसरे फिरते हैं) क्या हमारे इन भूरे शासकों ने मोतीचन्द्र और प्रतापसिंह जैसे शहीदों के नाम भी हुने हैं? भारतीय न्यायीनता का वह इतिहास विलक्षण अर्ध्या ही होगा—हम तो इसे नितान्त असत्य भी कहेंगे जिसमें इन शहीदों का ज़िक्र न हो।

चौधरीजी ने प्रतापसिंह के विषय में लिखा है:—

“सच तो यह है कि महात्मा गांधी को छोड़कर और किसी पर मेरी इतनी अद्वा नहीं हुई जितनी प्रतापजी पर। वे देश

की खातिर हिंसा के पक्षपाती जहर वे, लेकिन उनका दूसरा चारा व्यवहार किसी अहिंसावादी से कम न था। वे जहाँ रहते वहाँ का बातावरण सरलता, प्रेम और पवित्रता से भर देते थे।”

क्या ही अच्छा हो यदि ऐसे शहीदों के रेखा चित्रों का संग्रह सचित्र पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाय ! भोग तथा प्रमाद में फँसे हुए हम लोगों के लिये, जो किसी ज़ंकशन त्वेशन के वेटिङ्ग रूम को अपना अन्तिम लक्ष्य या मंज़िले मक्कसूद ही समझ बैठे हैं, वह ग्रन्थ अत्यन्त शिक्षाप्रद होगा और भावी नागरिकों के लिए पथग्रदर्शक। जिन स्वत्रों में उन अमर शहीदों के तैल चित्र होने चाहिये थे, वहाँ निर्जीव राज प्रमुखों की कुर्सियां होंगी—किमाश्चर्यमतः परम ?

स्वयं चौधरीजी के पिछले जीवन के अनेक स्थल बड़े स्फूर्ति-प्रद हैं। भारत सरकार के होम मेम्बर सर रेजीनाल्ड क्रॉडक की हत्या के पट्ट्यंत्र में मारवाड़ी वेष में उनकी हरद्वार यात्रा, प्रतापजी की खोज में हैदराबाद की मुसाफिरी और ‘व्यंकन विलास कम्पनी’ में वर्क सोडा वेचने के साथ साथ ‘ठोस काम’ की तथ्यारी। और इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है उनका सेवा संघ सम्बन्धी रचनात्मक कार्य। ‘संघ के दस वर्षों का इतिहास’ इस नाम का एक ग्रन्थ परिक्षी की सहायता से बड़ी लिख सकते हैं। ‘संघ’ भव भी विद्यमान है—आस्तिकों के निराकार ईश्वर की तरह—और अपने जन पद के भूरे शासकों से लोहा

लेने के लिये शायद उसे निकट भविष्य में साकार रूप भी लेना पड़ेगा—चाहे उसके सदस्य दूसरे ही हों और भले ही उनके राजनैतिक विश्वास सम्म्यवादी या समाजवादी हों। पर हम इतने कृतज्ञ नहीं कि संघ के उन गौरवपूर्ण दिनों को भूल जायँ जब पथिकजी के साथी संगियों ने अपना व्यक्तित्व संघ में विलीन कर दिया था और पथिकजी और संघ पर्याय वाची—शब्द बन गये थे।

सन् १९२० या २१ की बात है:—

‘देशबन्धु सी० आर० दास के मकान पर महात्मा गान्धीजी व भारतभक्त ऐरडूज वातचीत कर रहे थे। वहीं वैठा हुआ मैं भी इस वार्तालाप को सुन रहा था। कुछ देर बाद मी० ऐरडूज ने कहा, “महादेव भाई कहाँ हैं?” महात्मा जी ने उत्तर दिया, “वे कहाँ वाहर गये हुए हैं, क्या आपको उनसे कुछ काम है?” मी० ऐरडूज ने कहा, “पथिक के विषय में उनसे कुछ पूछना या, कौन हैं, कैसे आदमी हैं?” महात्माजी मुस्कराते हुए बोले:—

“I can tell you something about Pathik. Pathik is a worker while others are talkers. Pathik is a soldier, brave, impetuous, but obstinate. He was Mahadev's infallible guide in Bijaulia and the remarkable thing is that the masses of Bijaulia have implicit confidence in him.”

“मैं आपको पथिक के बारे में कुछ बतला सकता हूँ। पथिक

काम करने वाला है दूसरे सब बातें हैं। पथिक एक सिपाही आदमी है, बहादुर है, जोशीला और तेज़ मिजाज है लेकिन ज़िद्दी है। जब महादेव विजौलिया गये तब पथिक उनके निर्भ्रान्त साथी थे। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विजौलिया की जनता का उन पर पूरा पूरा विश्वास है।” मनुष्य चरित्र के जितने उत्तम द्वारा महात्मा गांधी थे उन्होंना शायद ही कोई दूसरा हो। Pathik is a soldier “पथिक एक सिपाही है” इन चार शब्दों में महात्माजी ने पथिकजी के सम्पूर्ण चरित्र का परिचय दे दिया था।

निःसन्देह पथिकजी के लिये महात्माजी का यह सर्टीफिकेट सेवासंबंध के उन कार्यकर्ताओं के लिये भी प्रमाण पत्र या लो विना किसी पढ़ या पुरस्कार की आशा के संबंध में दिन रात परिश्रम कर रहे थे। मालूम नहीं कि हमारे पापूलर मिनिस्टरों को सेवासंबंध के उन कार्यकर्ताओं के तप और त्याग का कुछ पता है भी या नहीं।

लेखक को अपने ५८ वर्षीय जीवन में नो विविध अनुभव हुए हैं उससे उनके मस्तिष्क को सन्तुलन मिला है और लेखनी को प्रौढ़ता। यद्यपि सीधी सादी ज्ञान में उन्होंने अपने विचार जनता के समुख रखते हैं—माधा के साज शृङ्गार की उन्होंने कोशश नहीं की, फिर भी कुछ स्थल ऐसे बन पड़े हैं जो जानदार माधा के उदाहरण के रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं। वास्तव में वह प्रमुख बहुत प्रभावशाली है, जहां गान्धीजी के

सर्वोदय की तुलना विप्लववाद तथा साम्यवाद से की गई है। बारहवें अध्याय के कितने ही वाक्य बोलचाल की सजीव भाषा के जीते जागते नमूने हैं।

पृष्ठ १८६ से १८८ तक हरिजनों के विषय में जो कुछ लिखा गया है उसकी भाषा में ओज और प्रवाह दोनों हैं क्योंकि उसके पीछे एक स्पन्दनशील हृदय है।

चौधरीजी से हमारी एक शिकायत है, वह यह कि महात्माजी के निकट सम्पर्क में इतने दिन रहने के बाद भी उन्होंने इस ग्रन्थ में उनके बारे में कुछ मिलाकर तीन चार पृष्ठ से अधिक नहीं लिखे ! किरभी जो माँकी महात्माजी के जीवन की उन्होंने दिखलाई हे वह प्रशंसनीय है, बन्दनीय, स्मरणीय है।

पुस्तक का अन्तिम अध्याय 'अब क्या किया जाय ?' केवल राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिये ही नहीं, बरन् विन्ध्य प्रदेश तथा अन्य जनपदों के नेताओं के लिये भी पठनीय है। हाँ, जो कायेक्रम उन्होंने तजबीज किया है, वह कितने अंश में व्यावहारिक है, इस प्रश्न का निर्णय राजनीति विशारद ही कर सकते हैं। हमारे लिये तो वह ज्ञेय सर्वथा अपरिचित है— 'वह रंग ही नया है, कूचा ही दूसरा है' पर एक छुट्ट पत्रकार ही दृष्टि से केवल एक बात इसमें कहनी है। "राष्ट्र के कर्णधारों" में चौधरीजी की श्रद्धा हमें करुणोत्पादक प्रतीत हुई। वराच महरवानी चौधरीजी अपनी पुस्तक के २३५ वें पृष्ठ को एक बार किर से पढ़ जायँ और किर "सबल

केन्द्रीय हुकूमत” के गुण गान करने से वाज्ञ आवें। विकेन्द्रीकरण के आदर्श को पहुँचने के लिये ‘केन्द्रीकरण’ के मार्ग की सिफारिश करना मानो सतीत्त्व रक्षा के लिये चियों को दाल की मंडी और चिरपुर रोड भेजना है !

पर इस विषय पर हम बन्धुवर चौधरीजी से वहस नहीं करेंगे। ‘मिश्र र्हचिहिलोकः’। अन्त में हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं कि उन्होंने अन्य जनपदीय कार्यकर्ताओं के लिये एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थिति किया है—भावी इतिहास लेखक के लिये अमूल्य मसाला इकट्ठा कर दिया है—और एक ऐसी पुस्तक लिख दी है जो दार्जस्थान के विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जानी चाहिये, ताकि हमारी नवीन पीढ़ी अपने अर्बाचीन इति-हास्त से परिचित हो जाय।

जैसा कि हमने प्रारम्भ में ही लिखा है, स्वाधीनता की पहली मंजिल ही हमने पार की है, और कई मंजिलों अभी बाकी हैं। महात्माजी का रामराव्य अभी सैकड़ों वर्ष के फासिले पर है—‘राव्य’ नामक विषये बृक्ष छी सुखी पांक्तियों के मङ्गले में और उसके बड़े से उखड़ने में शतार्द्धवर्षों की देर है। जिस आदर्श स्थिति और अवश्यंभावी युग की कल्पना बाहूनित और कोपाट-कित, लैनिन और सर्वोपरि गांधीजी ने की थी वह अभी बहुत बहुत दूर है और उसको निकट लाने के लिये लाखों ही व्यक्तियों को अपने जीवन का बलिदान देना होगा।

देश की स्वाधीनता के प्राचीन, अर्बाचीन और नवीन इतिहास

में राजस्थान ने अपने तप, साधना तथा त्याग से सदृश एक  
विशेष स्थान रखा है। वह उस गौरवपूर्ण पद को भविष्य में  
भी सुरक्षित रखें, यही हमारी कामना है।

गांधी भवन  
टीकमगढ़  
२४.७.४८

बनारसीदास चतुर्वेदी



ऐन्लोइंडियनों का ही बोल वाला था। वे रिश्वतें भी खूब खाते थे। रेलवे के माल की चोरी करने का कर्मचारियों में आम रिवाज था।

पुष्कर में हिन्दुओं का तीर्थ और अजमेर में खाजा साहब की दर्गाह होने के कारण वार्षिक अद्वा के साथ अंब-विश्वास, मिख्यमंगापन और दूसरी खरावियां फैली हुई थीं। खाद्यमांस पर्णों के दो निठल्ले वर्ग समाज पर भार बने हुए थे।

मेयो कॉलेज हमारे राजाओं और उमरावों के लड़कों को अप्रेजी सभ्यता के सांचे में ढाल रहा था, उन्हें विदेशी शासकों की गुलामी, अपनी प्रका की उपेक्षा, आचारहीन जीवन, राष्ट्रीयता के विरोध और ऐशा आराम की जिन्दगी विताने की शिक्षा दी जा रही थी। स्वतंत्र विचारों और अच्छे प्रभावों की वहाँ पहुँच नहीं होने दी जाती थी। हमारे राजाओं की ज्यादावर बुराइयों की जड़ यही चलीम है।

### समाज की हालत

समाज में कुरीतियां खूब फैली हुई थीं। गृहीत राजपूतों में कन्यावव होता था। नाहरण और वैश्यों में और उससे भी ज्यादा छोटी और अबूत समझी जानेवाली जातियों में वडों की शादी का रिवाज खूब था। ऊंचे कहलाने वाले वर्णों में विवाह विवाह की मनाई थी। बुद्धों के व्याह और लड़कियों के बेचने के रिवाज बढ़ते जा रहे थे। शादी, गमी और दूसरे सामाजिक रसोरिवाज

पर सूठी बढ़ाई की खातिर बूते से अधिक ज़र्च होता था। क़र्ज़-दारी फैलती जा रही थी। सानं पान, रहन, सहन और स्वास्थ्य की तरफ से सरकार और प्रजा दोनों उदासीन थे और रोग बढ़ते जा रहे थे। राजवर्गी लोगों में परदे की प्रथा थी। उनकी देखादेखी और सरकारी जमातें भी भूँठी प्रतिष्ठा के लोभ में यह कुप्रथा अपना रही थीं, छुआचूत का ज्ओर था। विलायत यात्रा की बिरादरी से मनाही थी। आम लोगों में लड़कियों को पढ़ाने का शौक पैदा नहीं हुआ था।

लेकिन जनता के सामाजिक जीवन पर पुरानी देहाती सभ्यता की छाप बहुत कुछ वाक़ी थी। जात पाँत का भेद भाव कुछ वातों में सख्त होते हुए भी इंसान की वरावरी, आपस के भाईचारे और सहयोग की भावना बनी हुई थी। गाँव भर की भलाई के मामलों में ऊँचनीच सभी की सलाह ली जाती थी। व्याह और मौसर में सभी काम काल और रूपये पैसे से एक दूसरे की मदद करते थे। चमार की लड़की को पंडितजी अपनी बेटी कह कर पुकारते थे और सेठजी की बहुये मेहत-रानी को भी काकीजी या ताईजी के नाम से पुकारती थी। एक के घर ज़बाई आता तो सभी खुशी मनाते थे। घर में कहों से बौगात आती या विशेष भोजन बनता तो पढ़ौसियों में बाँट कर न खाना बुरा समझा जाता था। किसी के घर गाय मैंस दूध देती हों तो जिनके यहां पशु न हों या सूख गये हों वे निःसंकोच छाड़ ले जाते थे। मौत होने पर दाह किया के लिये

कंकड़ियां तक शमशान यात्रा में जाने वाले अपने घर से कन्धों पर रख कर ले जाते थे। गाँव में वहुत से मेहमान इकट्ठे आ गये तो दो दो चार चार अतिथि हर गृहस्थ बाँट लेता था। किसी के घर वीमारी आती तो दूसरे सभी घरों से हाल चाल पूछने कोई न कोई चल्ह फहुँच लाता था। अनाथ या विधवा के हल चलाने और फसल काटने में सभी हाय बँटाते। घर की मालकिनें नौकरों को खिलाती थीं उनकी हैसियत के माफिक ही, भगर खिलाती सबसे पहले थीं। शुरिये बोहरे—आसामी साहूकार का सम्बन्ध शोपण का होने पर भी आपस में कम से कम कष्ट देने का लिहाज़ रखा जाता था। मुकद्दमेवाज़ी का आश्रय लेकर विगाहने के बजाय एक दूसरे को बनाने की अधिक कोशिश की जाती। दान पुण्य, नियम ब्रत, कथा वार्ता और तीर्थ यात्रा की रुचि छायम थी और आरती के समय मंदिरों में खासी भीड़ होती थी। बड़े छोटे का लिहाज़ या और सम्मिलित परिवार की संस्था ढीली होने पर भी खड़ी थी। लेकिन इस शुद्ध और प्रेम से भरे बातावरण में बाहर से आने जाने वाले भाँति भाँति के राजकर्मचारियों द्वारा दुराचरण, फूट और स्वार्थ के बील चोये जाने शुरू हो गये थे।

धनवान अपने नाम के लिये कलकत्ते वर्म्बई से लाया हुआ पैसा एक तरफ धर्मशालाओं, कुण्डावड़ियों और पाठशालाओं पर खर्च करते थे और दूसरी तरफ आलीशान हवे-लियाँ खड़ी करने, शादी गमी में कञ्जूल खर्च करने या मुकद्दमे-

बोज्जी करके दूसरों पर रुचाव जमाने में लगते थे। कुछ लोगों का ध्यान स्कूलों, पुस्तकालयों और अस्पताल बगैर की तरफ भी जाने लगा था।

जनता की भाषा राजस्थानी और राजभाषा जयपुर में उदू और कई राज्यों में भी लिपि नागरी और ज्वान उदू थी। अंग्रेजी का प्रचार बढ़ रहा था।

शिक्षण संस्थाओं का यह हाल था कि हमारा महाराजा हाई स्कूल रियासत भर में प्रमुख होने पर भी उसमें कोई अच्छा वाचनालय या वादविवाद समिति न थी और न कोई अध्यापक या बाहर के मेहमान सार्वजनिक विषयों पर व्याख्यान देते थे। मेरी गिनती होशियार विद्यार्थियों में थी, मगर मौट्रिक पास कर लेने तक मैंने किसी अखबार की सूरत नहीं देखी थी। नेकी 'बड़ी' जैसे निर्दोष नाटक खेलने के लिये प्रिंसिपल साहब को ठेठ कौंसिल की मंजूरी लेने की ज़रूरत पड़ी और वह भी न मिली।

## दूसरा अध्याय

### क्रान्तिकारी जामाना

मेरा १९१२ की वात है। मैंने सोलहवें साल के साथ ही इंटर क्लास में क्लदम रखा। गर्भी की छाड़ियों में कलकत्ते का 'टेलीग्राफ' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक देखा। मेरे लिए अखबार के ये पहले दर्शन थे। शुरू में तो मेरी दिलचस्पी अंग्रेजी भाषा की योग्यता बढ़ाने में ज्यादा थी, मगर बाद में समाचारपत्रों का चस्का सदा के लिये लग गया। फिर भी देश-प्रेम की दीक्षा नहीं मिली। वह मिली १९१३ के जुलाई मास में। मुझे अपने छोटे भाई युगलकिशोर को स्कूल में भर्ती करवाना था। महाराजा हाई स्कूल में जगह नहीं थी। पं० अर्जुनलाल सेठी का नाम सुन कर उन्हीं की जैन वर्द्धमान पाठशाला में भाई को लेकर पहुंचा। एक पुराने ढंग के नोहरे में सेठीजी से पहली मर्जिल के मरोके पर मुलाकात हुई।

पहली ही भेट का खूब असर पड़ा। हमारे स्कूल व कालेज में पोशाक तो सभी अध्यापकों और अधिकांश विद्यार्थियों की देशी ही थी, मगर शौकीनी में बहुतेरे एक दूसरे से होड़ लगाते थे। यहाँ आचार्य महोदय एक मोटे भोटे कुर्ते में बैठे थे। ग्रन्थालय

नामक एक जौहरी का पाँच छः साल का लड़का वहीं लकड़ी के खिलौने से मकान बना रहा था और 'स्वदेशी' का बजे ढंका' 'स्वदेशी' का बजे ढंका' गुनगुना रहा था। सेठीजी ने हम दोनों भाइयों को देखा और बालक से पूछा, 'विदे, क्या बना रहे हो ?' कौरन जबाब मिला, "अंग्रेजों को निकालने के लिये किला !" सेठीजी की तेज़ आँखों ने बालक के शब्दों का असर मेरे चेहरे पर देखा और कहा, 'आप चाहें तो भाई को मेरे पास छोड़ जाइये। यह पाठशाला में पढ़ेगा और छात्रालय में रहेगा। खर्च की चिन्ता मैं ही कर लूँगा।' मेरे लिये यह चुपड़ी और दो दो बाली बात थी। मैं उत्तर भी न देने पाया था कि पाठशाला की धंटी बजी। हम दोनों भाई भी उनके साथ चौक में जा खड़े हुए। प्रार्थना क्या थी, पराधीन भारत के हृदय की पीड़ा, स्वतन्त्रता देवी के आवगहन और कर्मण्यता की पुकार का सजीव गान था। मन मेरे उसी घड़ी ठान लिया कि जीवन भारत माता की गुलामी की वोङ्हियाँ तोड़ने मैं ही कुर्बान होगा। ३० वर्ष के इस लम्बे अर्द्धे में बहुत से उतार चढ़ाव आये, मगर उस दिन के निश्चय में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतना प्रबल था वह मंत्र। युगलकिशोर सेठीजी की छत्रछाया में रहने लगा। मैंने देखा कितना ज्वरदस्त अन्तर है सरकारी तालीम और राष्ट्रीय शिक्षा में। एक महाराजा को लेज था जहाँ देश-भक्ति की गंध भी छू न पाती थी, नैतिक वातावरण गंदा था, नौकरी ही वहाँ के पढ़ाने और पढ़ने वालों का एक मात्र ध्येय था, प्रिसि-

पल से लेंगा कर पढ़ले वर्ग के शिक्षक तक छड़ी, जुर्माना और बांट फटकार से काम लेते थे। दूसरी ओर सेठीकी का विद्यालय था जहाँ छोटे छोटे बच्चों को 'आप' कह कर पुकारा जाता था, प्रेम, स्वातंत्र्य और कौशल ही अध्यापकों के अस्त्र थे, किंडरगार्टन ढंग से पढ़ाई होती थी, राष्ट्रीयता की सुगन्ध वहाँ के सारे वायुमंडल में समाई हुई थी और समाज और देश की सेवा ही विद्यार्थी के लीबन का मकसद बनाया जाता था। शिक्षक खुद आचरण से त्याग का पाठ पढ़ाते थे। मुझे याद है सीनियर इंजिनियर में जब प्रोफेसर ने एक दिन 'देश-प्रेम' पर वहस रखने की सूचना दी तो प्रिंसिपल साहब को उसमें राजनीति की वृआई और वह विषय नहीं रखने दिया। जैन बर्द्धमान पाठशाला में ऐसी चर्चाएं रोज़ होती थीं। एक समय तो राज्य को भीखता यहाँ तक बढ़ी कि बम बनाने वाले से कालेज में कई साल तक चायंस की पढ़ाई बंद रखी गई।

इबर तो यह हाल या कि जब कुर्सत मिलती सेठीकी का ख्याल आता और मैं रोज़ उनके यहाँ जाने लगा। उबर उन्होंने भी एक युवक को मुझसे संसर्ग बढ़ाने के लिए सुकरार कर दिया। उन्हीं दिनों स्व० छोटेलाल जैन हार्डिंग चमकेस से छूट कर दिल्ली से जयपुर लौट आये थे। वे मेरे सहपाठी थे। उनसे घनिष्ठता होने में देर न लगी। ये दोनों बाय में ले जाते, कांतिकारियों के क्रिस्से सुनाते, सेठीकी के कार्य का हाल बताते और जोशीली पुस्तकें पढ़ने को देते।

सेठीजी के जीवन के हाल चाल ने मुझ पर काफी असर किया। वे जयपुर कालेज के तेजस्वी ग्रेजुएट थे। अँग्रेजी के अलावा हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और पाली भाषा के परिषिद्धत थे। जैन धर्म के गहरे विद्वान्, तेज सुधारक और जैन समाज की नई पीढ़ी के नेता थे। उस हैसियत से उनकी धाक भारत भर में थी। वे प्रभावशाली वक्ता थे। देशियों में उस समय जयपुर में बिरले ही सेठीजी के सानी थे। वे चाहते तो राज्य के ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुँच सकते थे। एक अच्छा ओहदा उन्हें पेश भी किया गया था, भगर वे तो भारत माता की सेवा का ब्रत ले चुके थे। उसी ब्रत को पूरा करने में उन्होंने अपनी उम्र का सबसे अच्छा और बहुत बड़ा भाग पूरा किया। सेठीजो के संसर्ग में मुझे पहले पहल गीता, स्वामी रामतीर्थ के व्याख्यान, सावरकर की 'वार आफ इंडियन इंडिपेंडेंस', अरविन्द का 'कर्मयोगी' व 'युगान्तर', देउस्कर की 'देश की वात', डिग्वी की 'प्रास्पेरस इंडिया' और अंकिम वावू का 'आनन्द मठ' वगौरा पुस्तकों पढ़ने को मिली। इस साहित्य ने अध्यात्म, इतिहास और राष्ट्रीयता का ज्ञान कराने के साथ-साथ अँग्रेजी राज्य के अन्याय और उसे उखाइ फेंकने के संकल्प को मेरे मानस पटल पर अमिट रूप से अंकित कर दिया।

जयपुर में मैं जिस मकान में रहता था वहां चार पांच विद्यार्थी और भी रहते थे। ज्यादातर उम्र में वडे भगर पढ़ाई में मुझसे पीछे थे। मैं उन्हें पढ़ने लिखने में सहायता दिया

करता था। मैंने उन्हीं में जोशीली बातों और विष्लब साहित्य का प्रचार शुरू कर दिया और एक छोटी सी मंडली बना ली। इस बीच में सेठीजी की संस्था का विस्तार हो चला था और वे उसे मुख्य दानी की इच्छा पर इन्दौर ले गये। उनकी गैर मौजूदगी में जयपुर के क्रांतिकारी दल की बागडोर बा० ब्रजमोहनलालजी के हाथों में आ गई थी। ये दिल्ली के कायस्थ, जयपुर के स्कूल आफ आर्ट्स के वाइस प्रिसिपल और हार्डिंग बम केस के मुख्य मास्टर अमीरचन्द्र व लाला हरदयाल के मित्र थे। प्रचारक थे, लेकिन संगठन की शक्ति बहुत नहीं थी। इस समय १८१४ का महायुद्ध छिड़ गया। उससे पहले क्रांतिकारी दल की राज-पूताना शाखा संगठित हो चुकी थी। सेठीजी उसके नेता थे। कोटा के स्व० ठा० के सरीसिंहजी वारहठ, खरवा के राव गोपाल, सिंहजी और व्यावर के सेठ दामोदरदासजी राठी इस संगठन के लंब थे। सेठीजी के जिसमें युवकों को तैयार करने और शिक्षितों में प्रचार करने का विशेष काम था। जैन समाज उनका मुख्य कार्य ज्ञेत्र था। उसके साधनों से वे राष्ट्रीयता की साधना करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र और काश्मीर जैसे दूर दूर के प्रांतों से चुन चुन कर नौजवान इकट्ठे किये थे। वे कैसे जीवट के लोग थे, इसके दो हष्टान्त मुझे याद हैं। श्री० मोतीचन्द्र उस युवक दल के अगुआ थे। एक बार उनका आपरेशन हुआ। डा० डलजंग-सिंह की राय में वह इतना गंभीर था कि क्लोरोकार्म सुंधाये बिना चीरा लगाने की उनकी हिम्मत न हुई। मोतीचन्द्र का

आप्रह यह या कि होश, मैं ही चीर फाड़ की जाय। आखिर वैसा ही हुआ और भोतीचन्द्र ने उक तक नहीं की। डाक्टर दांतों तले उंगली दबा कर रह गया। आरा के महन्त की हत्या के अभियोग में जब उन्हें फांसी लगी तो कहते हैं वलिंदाज की खुशी में उकका कई पौँड बजन बढ़ा हुआ पाया गया, लेकिन असली अपराधी तो ये जयचन्द्र जो अखीर तक पुलिस के हाथ न आये। उनके साथ नेर गंदरा सन्वन्ध हो गया था। उनका क्रिस्ता विचित्र था। वे काश्मीर राज्य के पूँछ ठिकाने में किसी लुटभैया के लड़के थे। एक दूसरे युवक के साथ अनन्य मित्रता हो गई। प्लेग आया तो दोनों में कौल करार हुआ कि लो बच रहे वह घर से निकल पड़े और उम्र भर अपने भावी के लिए तपत्या करे। जयचन्द्र बच गये। सीवे हरिद्वार पहुँच कर घाड़ में गंगा में और गर्भ में बालू रेत में तपत्या करने लगे। गाने का शौक था। एक दिन सेठीजी का चहाँ भाषण था। उसमें संगीत का भी कार्यक्रम था। जयचन्द्र कोने में बैठे सुन रहे थे। सेठीजी की पारती दृष्टि ने उन्हें पहचान लिया कि काम का आदमी है। साथ ले आये। वह निर्भय इतने थे कि कई बार वारह-वारी पुलिस के बीच से निकल गये। चलने में इतने तेज़ कि एक दिन युड्डवार पुलिस का पीछा बचाते हुए ७० मील तय करके शाम को नेरे पास पहुँच गये। दो मंजिल से कूद कर भाग जाने का उन्हें इतना पक्ष विश्वास था कि हमारे

प्रबल आग्रह पर भी वे धीरे बोलने या दूखरी सावधानी रखने को तैयार न होते थे।

बारहठ के सरीसिंहजी का कार्यक्षेत्र राजपूताने के रईसों और जागीरदारों में था। उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में उनका काफी प्रभाव था। चारणों में तो उन्होंने कई क्रांतिकारी तैयार कर दिये थे। कुछ राजा और वडे उम्राव भी सहानुभूति रखते थे। एक हो आदमियों के दिमाग में राठौर साम्राज्य स्थापित करने की कल्पनाएं भी घूमने लगीं।

राव साहब खरवा का कार्यक्षेत्र छोटे जागीरदारों और भोगियों में था। अजमेर मेरवाड़ा और मेरवाड़ में इनकी प्रवृत्तियों का केन्द्र था। हथियार इकट्ठे करना, इनका खास काम था। पथिकजी राव साहब के दाहिने हाथ थे। उस समय वे भूपंथिह के नाम से रहते थे।

सेठ दामोदरदासजी धनी थे। क्रांतिकारी आंदोलन को हपये की मदद देना इनका खास काम था। जन्म से वैश्य होकर भी राजव के साहसी थे। वाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा और अरविन्द बाबू को इन्होंने खोखम चढ़ा कर अपने यहाँ ठहराया था। इन्होंने राजस्थान में स्वदेशी की मावना को मूर्त रूप देने के लिये व्यावर में कपड़े का पहला कारखाना खोला और वाँ संचेतन गंगोली जैसे देशभक्त को दसका मैनेजर बनाया।

महायुद्ध छिड़ने पर सेठीजी नज़रबंद कर के पहले जयपुर

जेल में रखे गये और बाद में मद्रास प्रांत के वैलोर जेल में भेजे दिये गये। उनके कई युवक अनुयायी गिरफ्तार या फरार हो गये। बारहठजी को आग व जोधपुर के मामलों में लंबी सज्जा हो गई। शाहपुरा के 'आर्य नरेश' नाहरसिंहजी ने उनकी जागीर वं कोठी जब्त कर ली। उनके छोटे भाई जोरावरसिंह लापता हो गये। खरवा राव साहव और पथिकजी टाडगढ़ के क़िले में नज़रखंद कर दिये गये; बाद में पथिकबी तो चुपके से मेवाड़ में निकल गये और राव साठ अलमेर जेल में रख दिये गये सेठ दामोदरदासजी भी चल वसे। वाकी रहे बारहठजी के बड़े लड़के प्रतापसिंह, छोटेलालजी जैन और जयपुर की हमारी मण्डली। हमारे सलाहकार भले ही वावू वृजभोहनलालजी थे, मगर असली सेनानी छोटेलालजी थे। नौनवानों को वातों से कुरबानी और प्रत्यक्ष काम द्यादा भाता है। छोटेलालजी थे भी बड़े सख्त आदमी। वे न अपने को बखशते और न औरों को। जाड़े के दिनों में तड़के ही हमारा द्वार खटखटाते, जौहरीं चांचार से सूरजपोल तक दौड़ाते और बाटी चढ़ा कर गलता के कुँड में तैरते। इस तालीम से हमारा लोश ज्यूँ ज्यूँ बढ़ता गया, त्यूँ त्यूँ कुछ कर गुजारने की चाह भी बढ़ती गई। छोटेलालजी की राय हुई कि सेंठींजी को जयपुर जेल से निकाल ले जाने की ओजना बनाई जाय। वावूजी ने इसे खाली पुलाव दमझा। इसमें तरह तरह के जोड़ तोड़ वाले साहस का कोई आदमी भी न था। वावूजी ने एक होटल खोल कर उसके द्वारा

पश्चिम के ढङ्ग पर काम करने की कल्पना दी। छोटेलालजी को वह पसन्द न आई। महात्मा गांधी का सुना क्रांतिवाद उन्हें खींच चुका था। वे सावरमती चले गये। हमारो 'व्यंजन विलास कम्पनी' सुल गई। एक साथी को स्कूल छुड़ा कर मैनेजर बना दिया। जयपुर में उस समय नागरिक स्वतंत्रता की कैसी दुर्दशा थी, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमें वर्कसोडा बेचने के लिये ठेठ कौंसिल से मंजूरी लेनी पड़ी।

'उन्हों दिनों हमारे दल में एक जैन वकील शरीक हुए। दुबले-पतले और चिर रोगी थे, परन्तु गज्जब की कष्ट-सहिष्णुता का परिचय दिया। बात यह हुई कि १९१५ में हम लोगों ने जयपुर के रेजीटेन्ट और राज्य के प्रधानमन्त्री के खिलाफ एक पर्चा बांटने का निश्चय किया। उसे मैंने लिखा, जैन वकील ने साइक्लोस्टाइल पर छापा और मैनेजर ने वितरण किया। मैंह आँधी की रात थी, वह दो बजे उठा। एक कंवल ओढ़ा और कोट की जेव में पर्चे और एक हाथ में लैंड का डिव्वा लेकर चल पड़ा। दिन निकलने से पहले पहले वह काम करके लौट आया। सुबह होते ही शहर में सनसनी फैल गई। स्कूल, कॉलेज, कौंसिल, महलों के दर्वाजों, कोतवाली और मुख्य-मुख्य रास्तों के ऊँकड़ पर पर्चा चिपका हुआ था। नई चीज़ थी; जगह-जगह कुँड के कुँड पड़ रहे थे। पुलिस के आने वे पर्चे चत्काइ ले जाने से पहले हमारो काम सफलता के साथ हो चुका

था। बड़ी दैदूर्यमुहूर्म हुई। मगर अपराधियों का पता न चला। बहुत असें बांद वकीलजी के यहाँ साइक्लोस्टाइल पकड़ा गया। सबा लाख की वस्ती में किसी दूसरी गैर सरकारी जगह वैसी मशीन नहीं थी। वकीलजी को पुलिस ने खूब यातनाएं दी, परन्तु सब कुछ सह कर भी उन्होंने भेद जाहिर नहीं किया।

लेयपुर में यह तो सभा सोसाइटियों की मुमानियत थी, परन्तु अंग्रेजों के लिए सब छूट थी। मिशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल पादरी लो साहब घड़ल्ले से एक डिवेटिंग क्लब चलाते थे। मुख्य उद्देश्य तो था, ईसाई धर्म और उसकी आड़ में सोमाज्यवाद का प्रचार करना, लेकिन आदमी होशियार और साधारण व्यवहार में सज्जन और परोपकारी थे। इन दो गुणों के कारण युवक उनकी तरफ रिचर्चते थे। हमारे बाबूजी की तेज़ बुद्धि ने यह देख कर हमें भी उधर लगा दिया। हम भी क्लब में जाने लगे और थोड़े दिन में वहाँ की हवा काफी पलट दी।

१९१५ का बाल शुरू हुआ ही था कि एक दिन अंग्रेज अंग्रेज छटेलालजी कंपनी में एक ऐनकधारी युवक को लेकर आये। छोटी-छोटी आँखें, साँवला रंग और ठिगना क़द था। ये प्रतापसिंह थे। उन दिनों हिन्दुस्तानी फौज में गादर की तैयारी की जा रही थी। इसके संयोजक बांद रासबिहारी बोस थे। उनका केन्द्र बनारस था। एक खास काम के लिए उन्होंने श्री० शचीन्द्र सान्याल को दिल्ली भेजा था। प्रतापसिंह उनके साथ थे। इसी खास काम में एक संदेश ले जाने वाले की

चरूत थी। छोटेलालजी की सलाह से प्रतापजी ने मुझे पसंद किया। दूसरे ही दिन प्रतापजी और मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गये। शहर के पुराने हिस्से में एक मकान की पहली मंजिल पर पहुँचे तो एक गठीले लवान ने हमारा स्वागत किया। यह शाचीन्द्र थे। एक कोठरी में अखबार बिक्रे थे। यही उनका विस्तर था। शाम तक मुझे योजना का पता लग गया। वह यह थी कि भारत सरकार के होम मेम्बर सर रेजीनॉल्ड क्रॉडक को गोली का निशाना बनाया जाय, यह काम करें जयचन्द्र और मैं उन्हें हरद्वार से बुला लाऊँ। संकेत यह था कि जैसे ही क्रॉडक साहब वाली घटना के समाचार प्रकाशित हों, मेरठ बगैरह की भारतीय सेना बिद्रोह कर दे। जहाँ तक मुझे याद है इसके लिए २५ फरवरी १९१५ की तारीख मुकर्रर हुई थी। अस्तु मैं रात की गाड़ी से हरद्वार के लिए चल पड़ा। भारत रक्षा क्लानून का शिकंजा इतना कड़ा था कि हर जगह पुलिस किसी नौजवान को देखते ही संदेह करती और उसे पूछ ताकि किये विना आगे न बढ़ने देती। लेकिन मुझे मारवाड़ी भेष माधा ने अच्छा काम दिया। हरद्वार में उन दिनों कुँभ का मेला था, परन्तु काली कमली बाले बाबा का स्थान ढूँढने में विशेष अड़चन नहीं हुई। हमारे जयचन्द्र बाबा के दाहिने हाथ बन बैठे थे। देखते ही लिपट गये। लेकिन मेरे साथ दिल्ली चलने में असर्थता प्रगट करते हुए बोले, 'मैंने यहाँ एक अच्छा दूल तैयार

कर लिया है। अभी कल परस्तों ही एक सफल डाका ढाला है—। हाथमें लिया हुआ काम छोड़ कर जाना ठीक नहीं। हाँ, चाहो तो पांच दस्त हजार रुपया ले जाओ। डाके का माल भी है और बाबा का मंडार भी भरपूर है।' धन लाने की मुझे आज्ञा न थी। मैं खाली हाथ वापस आ गया। शब्दोन्द्र और प्रतापजी को निराशा हुई। जो काम लयचन्द्र के सुपुर्दे होने वाला था वह प्रतापजी को चौंपा गया। मगर संयोग से क्रांक साहब मुकर्रर चारीख को बीमार हो जाने से बाहर नहीं निकले और बच गये। मैं उसी रात लग्यपुर लौट आया।

इधर हमारी कम्पनी कुछ चली चलाई नहीं और न उसके जरिये जो 'ठोस' काम सोचा गया था वही हुआ। हम उसे उठा देने की सोच ही रहे थे कि प्रतापजी पर बनारस पड़यन्च के सिलसिले में वाररट निकल गये और वे भाग कर हैदराबाद (सिन्ध) में जा छिपे। खुफिया पुलिस तलाश करती हुई जग्यपुर पहुँची और एक ओसवाल गृहस्थ के पीछे पड़ी। कम-ज्जोरी में आकर उन्होंने हैदराबाद तो बता दिया, मगर किर संभल कर सिध के बजाय निजाम की राजधानी का पता दे दिया। छिप्टी सुपरडंट पाने यह सुराग पाकर दक्षिण की तरफ रवाना हुए। इधर हमारी मंडली को प्रतापजी को बचाने की किक हुई। इस बार भी मुझ को चुना गया। मारवाड़ी पोशाक में चल पड़ा। मुझे हिदायत थी कि मारवाड़ के भीनमालिया स्टेशन पर द्वार कर चारणों के गांव पाचेटियां में पहले राजाश

कर लूं। शायद प्रतापजी वहाँ हों। हमारे देहाती समाज में अनजान लोगों से खूब पूछ ताछ होती है। इससे मेरे काम में बड़ी बाधा पड़ रही थी। आखिर एक किस्सा बड़ लिया और जो कोई पूछता उसी को सुना कर पिंड छुड़ाता। गांव के निकट पहुँचते पहुँचते मालूम हो गया कि जिस घर पर प्रतापजी ठहरा करते थे उसे पुलिस ने घेर रखा है। मैं समझ गया कि पंछी अभी पकड़ में नहीं आया है, मैं व्यर्थ में क्यों फँसूँ? मैंने मिथ की राह ली। हैदराबाद पहुँच कर दिन भर की खोज के बाद प्रतापजी से मेंट हुई। उन्होंने एक खानगी दबाखाने में कम्पौण्डर की जगह काम शुरू कर दिया था और कुरसत के समय बाचनालयों में जाने वाले नौजवानों में कान्ति-कारी प्रचार करने लंग गये थे। दूसरे ही दिन हम दोनों बीकानेर के लिये चल पड़े। खोचा यह था कि मैं तो राजधानी में कोई नौकरी कर लूँगा, प्रतापजी कहीं देहात में ला वसेंगे और दोनों मिल कर विलववादी दल खड़ा करेंगे। योड़ी सहूलियत भी थी। मेरे एक चचा बीकानेर बौंसिल में रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और गांवों में प्रतापजी के कुछ सम्बन्धी रहते थे। लेकिन एक गलती ने योजना पर पानी फेर दिया। जोधपुर स्टेशन पास आया तो प्रतापजी की इच्छा आशानाडा स्टेशन पर उतर कर वहाँ के स्टेशन मास्टर से मिल लेने की हुई। वह दल का सदस्य था। भगव कुछ दिन पहले उसके यहाँ बम का पार्सल पकड़ा जा चुका था और वह अपनी खाल बचाने को पुलिस का मुख्यिर बन

गया था। इसकी हँमें किसी को खबर न थी। तथा यह हुआ कि मैं जोधपुर उतर कर शहर देख लूँ और दूसरे दिन शाम की गाड़ी से बीकानेर के लिये चल पहूँच। रास्ते में आशानाडा के प्लेटफार्म से प्रतापजी को 'भाधो' के नाम से पुकारूँ। अगर कोई जंवाब न मिले तो समझ लूँ कि प्रतापजी किल्हाल देहात में छुस गये हैं और मैं बीकानेर पहुँच कर उनका इंतजार करूँ। लेकिन प्रतापजी तो आशानाडा उतरते ही गिरफ्तार कर लिये गये थे। मेरी आवाज का कोई असर न देख कर मैं बीकानेर पहुँच गया।

चचा ने बड़े प्रेम से स्वागत किया और कोई जगह दिल बाने का आश्वासन दिया। कोई एक सप्ताह गुजर गया, परन्तु प्रतापजी का कोई समाचार न मिला।

इधर हरिद्वार की कारगुजारी के सिलविले में मुझे प्रतापजी ने बोस बाबू की तरफ से जो बड़ी और शाल मैट की थी वह चोरी चली गई। ये पुरस्कार मुझे बहुत प्रिय थे। प्रतापजी के वियोग की पीड़ा भी कम न थी। वह आदमी ही ऐसा प्यारा था। जितने विष्ववादी देशभक्तों से मेरा परिचय हुआ उनमें प्रताप की छाप मुझ पर सबसे अच्छी पड़ी थी। वे बड़े कोमल स्वभाव के, निहायत शिष्ट और सदा खुश रहने वाले जीव थे। गीता को उन्होंने जिस रूप में समझा था उसी के अनुसार उनकी सारी चेष्टायें होती थीं। घन और स्त्री की इच्छा को उन्होंने खूब जीता था। शरीर इतना सघा हुआ था कि

बयपुर में बब वे मेरे पास रहे थे तो एक बार लगातार ७२ घंटे बागते रहे और बिना खाये पिये बराबर काम करते रहे, और फिर सोये तो तीन दिन तक उठने का नाम नहीं लिया। गलता के कुराड़ में घंटों तैरते भी उन्हें देखा। सच तो यह है कि महात्मा गांधी को छोड़ कर और किसी पर मेरी इतनी श्रद्धा नहीं हुई जितनी प्रतापजी पर। वे देश की खातिर हिंसा के पक्षपाती चखर थे, लेकिन उनका दूसरा सारा व्यवहार किसी अहिंसावादी से कम न था। वे वाहाँ रहते वहीं का चातावरण सरलता, प्रेम और पवित्रता से भर देते थे। मेरा विश्वास है कि वे ज़िंदा रहते तो गांधीजी के एक खास साथी होते।

हाँ, तो पुरस्कार और प्रतापजी को खोकर उस दिन रंज ही रंज में मैंने आशानाड़ा के स्टेशन मास्टर को प्रतापजी की पूछताछ का एक खत लिख डाला। लिखने में सावधानी तो काफ़ी चरती थी, मगर पुलिस के लिए इतना सा धागा काफ़ी था। तीसरे दिन एक बाबाजी मेरे कमरे के चारों तरफ चक्कर काटते हुए दिखाई दिये और चौथे रोज़ सी० आई० डी० के एक इंस्पेक्टर आ घमके। उनके पास मेरी गिरफ्तारी का सामान था। बनारस घड़यंत्र के साथ मेरा सम्बन्ध जोड़ा गया। चचा बहुत घबराये। वे पुराने ढंग के राजस्क आदमी थे, मगर उनना ही सुझ पर स्नेह रखते थे। अपने द्वार पर मेरा गिरफ्तार होना वे अपने लिये बड़ी बदनामी की बात समझते थे। इन्स्पेक्टर ये

राजस्यान के जाने पहचाने व्यास मगतराजजी। उन्हें मैंने जो क्रिस्सा घड़ कर बताया दस पर तो उन्हें क्या विश्वास होता, परन्तु चचा के बड़े ओहदे का लिहाज्ज और उन पर अहसान करके बोले, “आपके विद्यान से मेरी तस्वीर नहीं होती, पर मैं और खोज करूँगा और ज़खरत हुई तो फिर मिलेंगे।” मैंने उसी दिन बौकानेर छोड़ दिया। इस थोड़े से क्र्याम में मैंने देख लिया कि वहाँ का वातावरण जयपुर से भी गया बीता है और इसमें क्रांतिवाद का अंकुर जल्दी फूट नहीं सकेगा। लेविन मैं सीधा जयपुर न जाकर नीमकेथाने होकर गया। देशभक्ति के नये रंग में रंगे जाने के बाद पत्नी से सुलाक्षात् नहीं हुई थी। चोचा उसे भी नवजीवन का परिचय देकर आने वाली घटनाओं के आधार के लिये कुछ तैयार कर दूँ। जयपुर में सलाह मश्वरे के बाद तथ हुआ कि मैं सांसर जाकर छिप रहूँ। वहाँ मेरे बड़े भाई सुंशी छगनलालजी अदालत में अहलकार थे। आदमी शुरू से ही गंभीर और साहसी थे। वहीं पिंताजी भी आगये। वे उन लोगों में से थे जो सन्तान के लिये सब कुछ करने और सहने को तैयार रहते हैं। दोनों के रुख से मुझे बल मिला। सांसर में श्रीकृष्णजी सोढाणी से परिचय हुआ। उन्हें भी कलकत्ते में क्रांतिवाद की हवा लग चुकी थी।

उन दिनों की एक घटना याद है। मेरे किसी पत्र से छोटे-लालजी को भ्रम हुआ था या ऐतियांत उन्होंने ज़रूरी समझ यह तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु स्व० माघव शुक्ल की ये

वंकियां उन्होंने लिख भेजीः—

“तुम नौकरी इस राक्षसी के, फंद में ऐसे फंसे ।  
निज शक्ति मन मस्तिष्क, बलयुत जा रहे नीचे घंसे ॥  
हा, स्वैरिणी के हाथ तुमने, रत्न जीवन दे दिया ।  
चह भूमि रोती रह गई, जिसने तुम्हें पैदा किया ॥  
यदि दुःख पढ़ने पर हृदय का भेद जाहिर कर दिया ।  
हरपोक बन कर शत्रु पग पर, शीशा अपना घर दिया ॥  
दो रोज़ के उपवास में ही धीरता जाती रही ।  
रोने लगे दुक दण्ड से, गम्भीरता तब क्या रही ?  
यदि कष्ट सहने के लिए तन मन सभी असमर्थ हैं ।  
तो देशमक्तों छोड़ दो, आशा तुम्हारी व्यर्थ हैं ॥”

कहना न होगा कि मौनी छोटेलालजी के इस प्राणदायक संदेश ने सरकारी नौकरी न करने और दल के प्रति बकादार रहने के मेरे निश्चय को और भी दृढ़ कर दिया ।

१६१५ का नवम्बर मास आ गया था । बनारस पड़यन्त्र के समें शाचीन दादा और प्रतापजी को लंबी सज्जाएँ हो गई थीं । मैंने समझा, मामला खत्म हुआ, जरा घर की भी मुश्किलेनी चाहिये । दूसरे दिन नीमकेयाने पहुँच गया । साथ २ श्रीमान् मगनराज व्यास भी कुल्लेरे से उसी गाड़ी में चैठे, मगर मुझे पता नहीं चलने दिया । वे मजिस्ट्रेट के पास गये । मजिस्ट्रेट पिताजी के मिलने वाले थे । उनका इशारा पाकर पिताजी ने घर पर सूचना भेज दी । मैं घर से निकलकर गांव के बाहर एक मन्दिर में जा द्विपा । जैकिन घरवालों के लिये यह एक नये ढंग की और गम्भीर विपन्नि थी । आखिर मजिस्ट्रेट के बीच बाबा से

यह स्मरकौता हुआ कि व्यासजी सुने वहाँ गिरफ्तार न करेंगे और योद्धीं पृष्ठताछ करके चले जायेंगे। व्यासजी ने मिलते ही उक्खना दिया, 'आपने बीकानेर में तो घिस्सा दिया। अब तो सच सच कह दीजिये।' सुने उस वक्त तक इतना तो अनुभव हो चला था कि पुलिस की नरमी खाली उदारता नहीं हो सकती, उसका मामला चख्कर कमज़ोर होगा। मैंने व्यासजी पर इसी आशय की एक नज़र डाली और इब बार योद्धा गंगा जमनी जवाब दे दिया। वे चले तो गये, मगर महिने मर बाद ही उनका खत आया कि जयपुर में मिलिये। बचन के अनुसार पिताजी के साथ उनसे जयपुर में मिला।

राजपूताने के दल को व्यासजी पर बड़ा रोप था। प्रतापजी की गिरफ्तारी और सज्जायावी से हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। इसका बदला लेने के लिये व्यासजी को वहाँ 'रन्व लेने' की तज्जीज हुई। तय हुआ कि पिस्तौल एक किशोर साथी लावें जिनके समूर एक बड़ी जागीर के दीवान थे, मैं व्यासजी को एडवर्ड मेमोरियल में वारों में रोके रखूँ और छोटेलालजी उन पर बार करें। परन्तु मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। योजना पार न पड़ी। उन दिनों जयपुर शहर के पुलिस सुपरडंट और मॉलिस्ट्रेट तिवाड़ी दीनदयालजी थे। उनके बड़े लड़के स्व० शिवराज मेरे मित्र थे। उनसे व्यासजी की कार्रवाइयों का हमें रोच पता लगता रहता था। इस कारण वे हमारे दल का बहुत कुछ न बिगाड़ सके। आदमी भी शरीक थे। व्यर्थ किसी को तंग भी नहीं करते थे। मेरे खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला, यह कह कर चले गये।

## तीसरा अध्याय

### शेखावाटी में

**घं**रवालों का आग्रह था कि कोई रोजगार करूँ। मेरा मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। काम की धुन बढ़ रही थी, मगर कोई निमित्त तो चाहिये। हमारे प्रिसिपल मेरी खतरनाक हलचल को देख कर मुझे कॉलेज के लिए बला सनभ.ने लगे थे। जापान भेजने का प्रस्ताव पास हुआ। विद्यार्थियों के परम सद्यक स्व० डॉ० डलजंगसिंह ने खर्च देने का वादा किया। लेकिन इसका अर्थ होता तुरन्त देश सेवा से हाथ धोना और अन्त में सरकारी नौकरी ! यह मुझे मंजूर न था। आखिर मैंने रामगढ़ ( शेखावाटी ) में शिक्षक होकर जाना पसंद किया। १९१६ के शुरू में मैं वहाँ पहुँच गया।

गते में एक जागीरदार के यहाँ शादी में शारीर होना था। जागीरी प्रथा के मातहत मानव जीवन को देखने का यह पहला मौका था। वर मेरे शिष्य थे और कन्या पक्ष से पुराना सम्बन्ध था। जागीरदार ३ घण्टे तक रोज़ हवन पूजा पाठ और दूसरे कर्मकाण्ड करते थे, लेकिन अच्छल दर्जे के दुराचारी थे। इस व्याह में देखा कि किस तरह एक आदमी के इशारे पर दर्जनों दास दासियाँ, वीसियों नौकर चाकर और सैकड़ों

किसान दिन रात नाचते हैं, किस तरह गरीबों की कमाई राग रंग में ढड़ाई जाती है और ऊपर से उजली दिखाई देने वाली व्यवस्था के भीतर कितना अंवकार, दंभ और अत्याचार छुपा रहता है। मन पर सामन्तशाही के बारे में एक खास असर उसी दिन से हो गया।

रामगढ़ में धन की सत्ता का पहला अनुमति हुआ। जो हालात यहाँ थे वे ही करीब करीब सारे शेखायाटी इलाके में थे। स्कूल सेठों का था। हैदराबाद नाम को एक बूढ़े शिक्षक थे, मगर कान चुम्ली को करना पड़ता था। कस्ता चूं दो सीकर के रवराजाजी की जानीर में था, परन्तु असल में राजा वहाँ के थे सेठ लोग ही। इनमें लद्दभी के जो नवे कृष्णपात्र थे उनमें नाम की इच्छा अविक थी, पुरानों में सत्ता का ग्रेस ज्यादा था। कुछ लोगों को छोड़ कर दोनों ही अपनी दौलत का दिखावा भंडे भोग-विलास और गरीब को चूसने या सताने के बजाय नवी नवी आलीशान हवेलियाँ, दबाखाने, घर्मशालाएं और पाठशालाएं बनाने में करते थे। गौशालाओं के प्रबन्ध में सहयोग था; राजनीतिक प्रभाव के मामलों में स्तर्दा चलती थी। पुरानों में कुलीनता के गुणों के साथ अहंकार का दूर्जुण था। वे विद्या, कला और संगीत के ग्रेसी थे, जगर सावारण लोगों के साथ निज्जने में कंजूसी करते थे। जब बाहर निकलते, आगे प्रीछे लठैर रानपूर रखते थे और 'हुजू' कहलाने के बड़े शौकीन थे। नवे इस बारे में ज्यादा सादगी बतते थे और

लोकप्रियता का लाभ उठाते थे। ब्राह्मणों का प्रभाव भीतर और बाहर 'दोनों' जगह था। 'महाराज' रसोईबर के छोटे मालिक होते थे और 'पण्डितजी' का 'सेठजी' पर खूब असर था। मगर ज्यादातर ब्राह्मण आपढ़ और यजमान वृत्ति पर रहने वाले थे। बहुतेरे भंग और गांजे के व्यासनी और आलसी थे। फिर भी उनका मान जन्म से होता था और उन्हें दान भी काकी मिलता था। विदेशी चीजों का प्रचार काफी हो चला था। लुआद्वृत का भूत लगभग सभी पर दुरी तरह सवार था। मगर गरीबों की मदद और जीव-दया की भावना भी जोरदार थी। आम लोगों में पढ़ने की रुचि बहुत 'नेहीं' थी और अंग्रेजी तो बहुत से सिर्फ तार पढ़ने लिखने की योग्यता प्राप्त करने को ही सीखते थे। शिक्षकों का कोई आदर न था। वे नौकर समझे जाने थे। अधिकांश 'मास्टरों' का रोकी ही मुख्य उद्देश्य था; स्वामिमान और समाज-सेवा गौण चीजें थीं। विद्यादान की अपेक्षा धन लान का हेतु प्रबल था। इस कारण 'खुशामद' में ही आमढ़ होती थी। फिर भी सामूली हालात एक देश सेवक की दृष्टि से जयपुर की अपेक्षा कहीं ज्यादा अनुकूल थे। कलकत्ता, वर्मड़ वडोरा प्रगतिशील शहरों से रात दिन का सम्बन्ध होने के कारण लोगों में कुछ राजनीतिक संस्कार थे। धनिकवर्ग में नरम ढंग की देशमुक्ति और समाज स्थान की वृत्ति थी। न खुफिय पुलिस थी और न सना संस्थाओं की रोकटोक। आसपास के किसानों और देहातियों के साथ सेठजों

का संबंध सूदखोर साहुकारों का नहीं था, समय पर उनकी सहायता करने का था। लाखों के बारेन्यारे करने वाले लोग, लेन-देन के घन्बे को टटपूँ जिया और जलील समझते थे। जागीरदार भी धन की मार के आगे उन्हीं उच्छृंखलता नहीं दिखा पाते थे। इस कारण राज्य के और भागों से शेखावाड़ी का किसान कम पीड़ित, ज्यादा इवंग और अधिक खुशहाल था।

सब वातों को देखते हुए मुझे अपना नया कायन्त्र पसंद आया और मैंने काम शुरू करने में देर नहीं की। पढ़ाना मुझे आता था। मैंने मिडिल स्कूल में जो ऊँचे से ऊँचे दर्जे हो सकते थे, ले लिये। विद्यार्थियों में अपनी नई नई वातों के कारण जल्दी लोकप्रिय हो गया और वही उम्र के लड़कों में क्रांतिवार के विचार देने लगा। इतिहास दो तरह से पढ़ाता। परीक्षा के लिए मार्सडन साहब का और ज्ञान के लिए राष्ट्रीय लेकों का लिखा हुआ। श्री० वालकृष्णजी पोदार की जिज्ञासा, श्री० लक्ष्मणप्रसादजी की सहज्यता और श्री० मोतीलालजी प्रहलादका का सावीपन मुझे भाया। वालकृष्णजी रामगढ़ में ज्यादा रहते थे। उन्हें थोड़े ही दिन में क्रांतिकारी साहित्य का चक्का लग गया।

उन दिनों श्रीमती एनीबीसेंट का सितारा हिंदुस्तान के राजनीतिक आकाश में चमक रहा था। होमरुल आंदोलन की वे नेतृ थीं। उनका 'न्यू इंडिया' अंग्रेजी का सबसे जोशीला

दैनिक था। राष्ट्रीय साहित्य भी उनके यहाँ से अच्छा निकल रहा था। वालकृष्णजी मेरे साथ ये युस्तकें और अखबार पढ़ने लगे। परन्तु वहाँ कोई काम सफल नहीं हो सकता था जब तक पंडितों की जमात का सज्जाव प्राप्त न कर लिया जाता। मेरे जैसे उम्र सुधारक के लिए तो उनकी सहानुभूति और भी जरूरी थी। मैंने कुछ शास्त्रियों से थोड़े ही अर्सें में मित्रता बढ़ा ली। उसका उपयोग भी जल्दी ही सावित हो गया। बात यह हुई कि मैंने अपने एक वैद्य मित्र के पास संयोग से एक ब्राह्मण विद्यार्थी के हाथ पेशाव की शीशी जांच के लिए भेजदी। यह बात जाहिर होते ही मुझे लगा कि मैंने भिड़ के छत्ते को छेड़ दिया। पंडितों की मित्रता के प्रभाव से तूफान थोड़े में ही शांत हो गया और मेरा काम समय से पहले ही चौपट होने से बच गया।

इसी समय रामगढ़ में एक खास घटना हुई। वहाँ के बड़े सेठ तो पोद्धार ही थे, मगर राजकाज के मामलों में खेमका उनके प्रतिद्रुन्दी थे। दोनों में किसी जमीन के टुकड़े पर झगड़ा चल रहा था। ठिकाने ने पोद्धारों के हक्क में फ़ैसला दिया। खेमकों को यह अन्याय मालूम हुआ और कुछ उपाय न देख कर उन्होंने 'देशत्याग' का आश्रय लिया। उनके सामान की गाड़ियों का एक जलूस सा वन गया। सारा रामगढ़ इस करुण दृश्य को देखने उमड़ पड़ा। हरेक नर नारी का दिल पसीज गया। जिन लोगों का मुकाबल पोद्धारों की तरफ था उनकी

संहानुभूति भी खेमकों के साथ हो गई। पोद्दारों की इनसानियत भी अछूती न रह सकी। वे खेमकों को मता कर बापस ले आए। खुद कष्ट उठा कर दुश्मन का दिल जीतने के इस पुराने हिंदुस्तानी हथियार का प्रयोग कितना कारगर होता है यह, उस दिन पहले पहल समक्ष में आया।

हम लोगों ने एक पुस्तकालय, बच्चनालय और वाद्‌विवाद समिति संगठित करली। खेल नये जोश के साथ शुरू कर दिये और एक रात की पाठशाला खोलदी। उधर सर्व श्री० गौरी-शंकरजी, विरामरत्नालजी और मोतीलालजी रुझा की कोशिश से हमारे से भी अच्छी संस्था खुली जिसमें नये ढंग के साहित्य और समाचार-पत्र अधिक आने लगे।

उन्हीं दिनों कलकत्ते में एक खास घटना हुई जिसका शेखावाटी और मारवाड़ी समाज पर विशेष परिणाम हुआ। कलकत्ते में मारवाड़ी सेवा समिति नाम की संस्था थी। वंगलियों के झाहरण से राजस्तानी जौबवानों में भी पुरुषोचित खेलों, समाज सेवा के कामों और देश यकि पूर्ण विचारों की रुचि पैदा हुई। ये सब काम वे सेवा समिति के जरिये करने लगे। कुछ लोगों का क्रांतिकारियों से भी संपर्क होगया। ब्रिटिश सरकार की उस पर नज़र पड़ी। सर्व श्री० वनश्यामदास विड्ला, ओंकार मल सर्गम, ज्ञालाप्रसाद कानोड़िया, हनुमान-प्रसाद पोद्दार और कन्हैयालाल चित्तजांगप्पा पर भारत रक्षा कानून का बार हुआ। इनमें से दो जो धनी ये 'देस' चले आते

में सफल हुए। सरकार ने इसी पर संतोष कर लिया कि वे युद्धकाल तक शेखावाटी में रहे। बाकी तीनों बंगाल में अलग २ स्थानों पर नजारवन्द कर दिये गये। इस घटना से पहले मुझे मारवाड़ी कहलाने में जो शर्म महसूस होती थी वह जाती रही। लेकिन हमारे स्कूल के संचालकों में से 'बड़े कुँवर साह' का व्यवहार मुझे इरना अपमान से भरा मालूम हुआ कि मैंने इस्तीका देकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की। यह मेरे समाज-चाढ़ी होने की शुरुआत थी। सौभाग्य से इससे पहले सेठ जमनालालजी बलाज से परिचय हो चुका था। वे रुद्धों की संस्कृत पाठशालाओं को एक कालेज का रूप देने के सिलसिले में रामगढ़ आये थे। हमारे स्कूल में भी उनका आना हुआ। उन्होंने मुझे इतिहास पढ़ाते देखा और शाम को मिलने का बुलावा दे गये। मुलाकात के अन्त में वे बोले, "कभी यहाँ से जाने का प्रसंग आ जाय तो मुझे लिखिये।"



## चौथा परिच्छेद

### वर्धा में

१६१७ की बरसात थी। रामगढ़ छोड़ने पर मैंने एक तरफ से सेठ जमनालालजी को और दूसरी तरफ छोटेलालजी को इत्तिला दी। वे उस व्रक्त महात्मा गाँधीजी के साथ चम्पारन में काम कर रहे थे। वहाँ का सत्याग्रह सरुल हो चुका था और गाँधीजी शिक्षा-प्रचार वर्गैरह-रचनात्मक कार्य संगठित कर रहे थे। मुझे वर्धा और चम्पारन दोनों नगद से निमन्त्रण मिला। लेकिन गाँधीजी ने अपनी जरूरत से जमनालालजी की जरूरत को अधिक महत्व दिया। उनकी उदारता का यह पहला परिचय था। मैं वर्धा चला गया। वहाँ की संगति, काम करने का मौका और राजस्थानी व राष्ट्रीय वातावरण पाकर मुझे खुशी हुई। सर्वश्री जमनालालजी वजाज्जी श्री० कृष्णदासजी जाजू व वृद्धिचन्द्रजी पोहार लैसे दुखुर्गे, श्री० चिरंजीलालजी बड़जात्या और श्री० द्वारकादासजी मैया आदि सुहृदों और श्री० दत्तोपन्त मोहनी व श्री० दामले आदि शिक्षकों से गहरा परिचय हुआ। मारवाड़ी विद्यालय, छात्रावास और सेवा समाज वर्गैरह संस्थाओं में काम करने का मौका मिला और राष्ट्रीय विचारों और प्रवृत्तियों के फैलाने की गुंजाइश भी।

उस जमाने में रिजले सर्कूलर का जोर था। यह एक सरकारी गश्तीपत्र था जिसके अनुसार विद्यार्थी ही नहीं, सरकारी सहायता पाने वाली और सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों तक को राजनीतिक संस्थाओं में जाने की मनाही थी। मैं इस बंधन को नहीं मानता था और खुले तौर पर न सिफ्ट राजनीतिक जलसों में जाता, चलिक हमारे विद्यालय में भी राष्ट्रीय काम का सूत्रपात कर चुका था। श्रीमती सरोजिनी नायडू के स्वागत में भाग लेकर और भाषण देकर तो मैंने अपने विचारों को अच्छी तरह जाहिर कर दिया था। हमारे इनसपेक्टर स्टैले साहब कट्टर साम्राज्यवादी थे। उन्हें मेरी ये कार्रवाइयां अवांछनीय मालूम हुईं और संचालकों से मेरी शिकायत हुई। लेकिन उनकी तटस्थता और मेरी घड़ता ने मेरी स्वतंत्रता में कोई चापा नहीं आने दी।

वधा में रह कर मैंने १९१७ की कांग्रेस देखी। वहीं लोकमान्य और महात्माजी के पहले दर्शन किये। लौटकर मारवाड़ी अग्रवाल महासभा की स्थापना में सेठ जमनालालजी को भरसक मदद दी। परन्तु वहाँ की उस समय की सृतियों में सब से भयुर वह थी जब इंफ्लुएंजा की महामारी के समय मारवाड़ी सेवा समाज की तरफ से कष्ट निवारण का काम किया। महार और माँग आदि हरिजन जातियों में जैसी भयंकर गरीबी यो बैसी ही तोबता थी बीमारी की।

इन दोनों से भी भयंकर था उनके अङ्गूष्ठपन का अभिशाप । मेरे और अध्यापक चौथमलजी मंगल के सिवाय कोई सवर्ण उन लोगों में जाने को तैयार न हुआ । हम दोनों सुबह शाम जाते और दबा और खाने पहनने का सामान लौटते । दरिद्रता का इतना हृदयविदारक दृश्य तो मैंने भीलों में भी नहीं देखा । कपड़े की कमी के कारण कई रोगी बहनें तो सचमुच ऐसी नंगी हालत में होती थीं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते थे । जब हम सुबह ही वहाँ जाते तो चारों तरफ मुर्दे जलते देख कर कुछ भयंनीत भी होते, मगर शाम को सेवा कार्य से लौटते तो हमारे युवक हृदय एक तरह का गर्व और आनन्द महसूस किये विना न रहते ।

लेकिन अब मेरी आत्मा स्वतंत्र जीवन और खुला राजनीति में विचरण करने को आंतुर हो चली थी । मैंने द्यूं हो मारवाड़ी विद्यालय का काम छोड़ा, सेठ जमनालालजी ने कुछ मित्रों के सहयोग से एक स्वदेशी कपड़े की बड़ी सी टुकान खुलवांदी । परन्तु योड़े ही असे में अनुभव हो गया कि मैं व्यापार के लिए नहीं बना या । उन्हीं दिनों में श्री० ब्रिजलालजी वियाणी और छगनलालजी भास्कर आदि से जो नागपुर में कालेज के विद्यार्थी थे, परिचय हुआ । साथ ही एक दो घटनाओं से सेठ जमनालालजी की अन्तमुख वृत्ति और निरमिमानता का प्रमाण मिला । एक दिन उन्होंने अपने मित्र वर्धा के सेशन जज श्री० लक्ष्मीनारायण को विदाई भोज दिया । वासियों दूसरे मेहमानों के साथ मैं भी

तारीक हुआ। मुख्य अतिथि के साथ यजमान और उनके दो खास मित्रों को चांदी के वर्तनों में भोजन परोसा गया और बाकी लोगों को पीतल के वर्तनों में। धनवानों के यहां ऐसी असभ्यता अक्सर होती है और खासकर हमारे संस्कृति में पिछड़े हुए राजस्थानी समाज में ऐसी पाँत में दुभाँत कोई असाधारण वात भी नहीं। लेकिन मुझे वह खटकी और मैंने खुले तौर पर असन्तोष जाहिर किया। मैं दो चार दिन सेठजी के यहां नहीं गया। हम राज के मिलने वाले ठहरे। उनसे नहीं रहा गया और मुझे बुला भेजा। संयोग से इस वक्त भी नौकर जो दो गिलासों में पानी लाया तो उनमें से एक चांदों का था और दूसरा पीतल का। सेठजी के यहां उस दिन के बाद इस तरह का भेद भाव कभी नज़र नहीं आया। सचमुच उनका समाव उनके बहुत से गुणों में से बड़ा गुण या जिसके कारण सार्वजनिक सेवक उनके नज़दीक जाते थे और जिसके न होने के कारण दूसरे वनिकों से दूर भागते हैं।

वर्षा के दूसरे वर्षाकृ जिनकी मुफ्फ पर छाप पढ़ी वे थे श्री० जाजूजी। वे ऊपर से रुखे, बहुत कम बोलने वाले और काम लेने में बड़े कठोर लगे, मगर भीतर से बहुत सहृदय, अपनेपन को अंत तक नियाने वाले, आपत्ति के समय काम आने वाले और ग़ज़ब के मेहनती हैं। वे एक प्रकार से जमनालालजी के लिये एक साथ सलाहकार, पथ प्रदर्शक और मित्र तीनों थे। सेठजी के बड़े से बड़े कामों में पर्दे के पीछे जाजूजी का हाथ

रहता ही था। सच तो यह है कि वर्धा को आज लो सार्वजनिक महत्व मिला हुआ है उसका पहला श्रेय जमनालालजी को है तो उनके बाद दूसरा नंबर जाजूली का ही आता है।

इस अर्सें में मैंने यह भी देख लिया कि जमनालालजी का वर धार, व्यापार और सेवा त्रैत्र मध्य प्रदेश में होते हुए भी वे अपनी जन्मभूमि राजस्थान को कभी नहीं भूल सके। वहाँ की छोटी से छोटी प्रवृत्ति में भी उनकी दिलचस्पी रहती थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी जल्दी मिल गया। सन् १९१६ की अमृतसर क्रांति से आसपास उन्होंने सर्व श्री० गणेशशंकरजी विद्यार्थी, विजयसिंहजी पथिक और चांदकरणजी शारदा वगैरा को 'राजपूताना मध्य भारत सभा' कायम करने में सहयोग दिया देशी राज्यों की प्रका की राजनैतिक सेवा का उद्देश्य रखने वाली यह पहली संस्था थी। इसने एक साप्ताहिक पत्र निकालने का भी निश्चय किया। इन दोनों कामों में सेठ जमनालालजी ने दिल खोल कर मदद दी।

लेकिन इस अखिलार के निकलने से पहले कुछ घटनाएँ हो चुकी थीं जिनका मेरे और राजस्थान के सार्वजनिक दीवन पर गहरा असर पड़ा। ये घटनाएँ यों पंडित अर्जुनलालजी सेठी का नज़रवन्दी और ठा० केसरीसिंहजी वारहठ का कैद से छूटना, श्री० पथिकजी का वर्धा आना, और लोकमान्य तिलक का परलोक वास।

सेठीजी के त्याग की शोहरत देश भर में फैली हुई थी।

वे वर्धा आये और आते ही हम युवकों के दिलों में समा गये। उनके एक एक शब्द से आज्ञादी की भावना और अंग्रेजों राज के प्रति घृणा कूट पड़ती थी। वे साम्राज्यशाहों के अत्याचारों की पीड़ा से पागल दिखाई पड़ते थे। उनके भाषण सुन कर जनता जोश में बाली हो जाती थी। वे सर्व साधारण को मन्त्र-मुख्य करना जानते थे और हृदय से बोलते थे।

केसरीसिंहजी की घबान और क्रज्जम में मिठास और संतुलन अधिक था। उनके व्यवहार में अपनेपन, धीरज और गंभीरता का समंजस्य था। उनकी कोई चैष्टा शान के खिलाफ न होती थी। वे देश के जितने उत्कट प्रेमी और ब्रिटिश शासन के जितने कहर शत्रु थे उनने आजकल के सुधारवाद के हिमायती और मध्यकालीन राज्य-व्यवस्था के बरोबी नहीं थे। लेकिन उनका त्याग अनुपम था। उनका सारा परिवार एक तरह से स्वतन्त्रता देवी पर पंतगों की तरह कुर्बान होगया था। वे डिंगल सापा के बढ़िया कवि थे। अपनी इसी काव्य-शक्ति के द्वारा उन्होंने सन् १९११ के दिल्ली दरवार में मझाराणा-कनहर्सिंहजी को हाजिर रहने से विमुख कर मेवाड़ की शान को बचाया था। हिन्दी में वे गंगेर लेखन-शैली के प्रवर्तकों में से थे। कीर्ति के कामों से दूर रहते थे। जापण नहीं दिया करते थे। वर्धा में उनका राजाओं सा स्वागत हुआ था। १ अगस्त सन् १९२० को तिलक महाराज का स्वर्गवास हुआ। दूधरे दिन वह हुँबद समाचार 'कानिकल' में पढ़ा। मैं रोग शब्द्या प्र५ था। हृदय पर ज्वरदृत

आघात हुआ। उस दिन मेरी आंखों ने जितनी अशुद्धि की उतनी आगे चल कर स्नेहसयी माता और परमोपकारक पिता के मरने पर भी नहीं की। देश सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य तो पहले ही बन चुका था। उस दिन सारा समय लगा कर सेवा कार्य करने का निश्चय हुआ।

इसके कुछ ही दिन बाद कांग्रेस के विशेष अधिक्षेषन में शरीक होकर और गाँधीजी के असहयोग कार्यक्रम की प्रेरणाएं लेकर परिकल्पी भी क्लबक्टो से वर्धा आ दहुँचे। उनकी विजौलिया की कारगुजारियां पहले सुन रखी थीं। उनकी सूझ, उनके साहस और उनके ग्रामनायक के अनेक गुणों का मैं प्रशंसक बन चुका था। हृदय उत्सुकता से उनकी तरफ दौड़ रहा था। निस दिन वे वर्धा आये हम लोग रेल पर उनके स्वागत के लिये गये। उनका लम्बा कद, कानों पर वंधी हुई सिक्खों की सी ढाढ़ी, रातपूती ढंग का साफा, कमर से लटकती हुई सुनहरी भूँठ की तलवार, चौड़ी पेशानी और तेजस्वी आंखों ने कौरन बता दिया। कि जिस आदमी की तलाश थी वह मिल गया। उन्हें भी सुझ में एक उपश्रोता साथी नजार आया। उनका प्रस्ताव आते ही मैं व्यापार वर्धा छोड़ कर उनके साथ हो लिया।

‘राजस्थान के सरी’ निकला। परिकल्पी सम्पादक हुये। प्रकाशक व सहायक सम्पादक बनने का सौभाग्य सुन्मे मिला। उन दिनों कानूनी जिम्मेदारी प्रकाशक की ही होती थी।

सम्यादक का नाम देना भी चलती नहीं था। यह देशी राज्यों की प्रजा का पहला मुख्यत्रय था। वूँ तो गणेशजी के 'प्रताप' ने दियासुती जनता का खूब पक्ष समर्थन किया था, मगर 'राजस्थान के सरी' पर उस जनता का सम्पूर्ण अधिकार था। सेठजी की सहायता से प्रेस आ गया था। शुरू में सेठीजी और बाहुठजी जी लिखते थे। पथिकजी तो उसके प्राण ही थे। बाहुठजी के जंबाई श्री० ईश्वरदानजी आसिया की और मेरी सारी शक्ति उसमें लग गई। श्री हरिभाई किंकर का साक्षात् कार भी वहीं हुआ। उन गौरवर्ण, हँस मुख चेहरा, विशाल ललाट, नोले और खुले नेत्र, लम्बी जड़, लहराती हुई ढाढ़ी और क्रियाशाल अंग-प्रत्वंग देखते ही कोमल नावना पैदा हो गई। ब्रह्म वारोजी (उन दिनों वे इसी नाम से प्रसिद्ध थे) के मेहनती, सरल और स्नेही स्व नाव ने मुझे चढ़ा के लिये आत्मीयता के पाश में बांध लिया। बच्चों के साथ उनका असाधारण प्रेम, जये परिचय करने की उनकी विलक्षण क्षमता, स्त्रियों, पीड़ितों और पिछड़े हुये वर्गों में सदाचार, समाज सुधार और देश सेवा के प्रचार की उनकी धुन और सब से ज्यादा उनकी नैतिक अटलता ऐसे गुण हैं, जो दूसरे बहुत कम लोगों में पाये जाते हैं। अस्तु, हरिजो भी 'राजस्थान के सरी' के सशयक मैनेजर और अनवड़ इंजोनियर के रूप में शामिल हो गये। श्री० कन्हैया-लालजी कलयंत्री अवैतनिक मैनेजर बन चुट गये। राज्य के मेहनती और लगन के आदमी थे।

अखबार के दो विभाग थे। एक में देशी राज्यों की समस्याओं और दूसरे में ब्रिटिश भारत के आन्दोलनों की चर्चा रहती थी। दो दो अग्रलेख और उसी हिसाब से टिप्पणियां दी जाती थी। पर्याकर्जी हिन्दी में राजनीतिक विषयों पर प्रायः उसी सामर्थ्य और सर्वमता के साथ लिखते थे जिसके साथ अप्रेजी पत्रकार लिखते हैं। यह उनकी लेखनी की विशेषता थी। हिन्दुस्तान के इतिहास में वह अभूतपूर्व जनजागृति का ज्ञाना था। उनके भूखे किसानों और काले कलूटे मज्जदूरों ने सदियों की नींद से करवट बदली थी। जगह जगह हड्डालं और असन्तोष के दूसरे प्रदर्शन हो रहे थे। 'राजस्थान केसरी' में अस्त्रहयोग और मज्जदूरों व किसानों के लिये दो पन्ने सुरक्षित थे। उनका सम्पादन मुझे सौंपा गया। क्रान्तिकारियों की उमत्त देशभक्ति और गांधीजी की खुली क्रान्ति से अनुप्राणित होकर मैं उन दो पन्नों में अपनी सारी आत्मा उड़ेलने लगा। उसमें मुझे एक असाधारण संतोष अनुभव होता था। समाचारों में पर्याकर्जी की विराम चिन्हों द्वारा टिप्पणी लोड देने की शैली एक ऐसी नवीनता थी जो मुझे भाती थी। थोड़े ही समय में 'राजस्थान केसरी' की राजपूतना व मध्य भारत में चारों तरफ धाक लग गई और वर्षा में भी 'राजस्थान केसरी' कार्यालय राजनीतिक जीवन का मुख्य केन्द्र बन गया। सेठ जमनालालजी की उदारता से वह आर्थिक दृष्टि से तो निश्चन्त ही था, उनको घरेपत्नी श्रीमती जानकी-देवी भी पर्याकर्जी को समय समय पर अलग सहायता देती थी।

सभाओं में सेठीजी के भाषण, पथिकजी की कवितायें और सलाह मन्त्रिरे में 'केसरी' परिवार का सहयोग अनिवार्य था। उन दिनों असहयोग आन्दोलन की मीमांसा पर पं० सुंदर लालजी के कुछ व्याख्यान हुये थे। इतने शिक्षाप्रद, विवेचनात्मक और ओजस्वी भाषण देने की शक्ति मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। महात्मा गगवानदीनजी के दर्शन भी इसी ज्ञान में हुए। अजीब फ़क़ड़ आदर्मा और देश के दीवाने दिखाई दिये।

दिसम्बर सन् १९२० में नागपुर की ऐतिहासिक कांग्रेस हुई। सेठ लमनालालजी राय बहादुरी की उपाधि छोड़ चुके थे। वे स्वागताध्यक्ष हुये। हम लोगों ने देशों राज्यों के अत्याचारों की एक छोटीसी प्रदर्शनी इस अवसर पर संगठित की थी। यह नई चीज़ थी। अंग्रेजी राज्य की छवियाँ का बल पाकर परम्परागत निरंकुशता कैसे रोमांचकारी जुल्म हाती है, इसका कुत्रिम किन्तु मुँह बोलता चित्र भारत की प्रतीय आत्मा ने—कांग्रेस के प्रतिनिधियों और दर्शकों ने—पहली बार देखा। उस अधिवेशन में देशी राज्यों की दृष्टि से कांग्रेस के विधान में मौलिक परिवर्तन हुए। वृटिश भारत की संकुचित परिधि को छोड़ कर कांग्रेस ने सारे हिन्दुस्तान की आज्ञादी प्राप्त करना अपना ध्येय घोषित किया और रियासती प्रजा को कांग्रेस के प्रतिनिधि बनने का हक़ दिया। उस दिन पथिकजी और उनके साथियों की खुशी का टिकाना नहीं था। उस समय तक देशी राज्य निवासियों को यह खतर दिखाई देता था कि ऐसा न हो, अंग्रेजी इलाके के लोग अधिकार पाकर सरकार और राजाओं से कोई ऐसा समझौता कहलें 'जैसे भारत माता के दो जाग हो जाएं और उमजोर जाग पराधीन और वेवस बना रहें।'

नागपुर अधिवेशन ने यह अन्देशा हमेशा के लिये मिटा दिया।

पथिकजी सेठीजी की मार्फत महात्माजी से बस्त्री में पहिले ही मिल चुके थे। महात्माजी ने महादेवभाई को विजौलिया भेज कर जाँच करवा ली थी। किसानों की शिकायतों को सज्जा मान कर वे महाराणा साहव को न्याय करने की प्रार्थना भी कर चुके थे और पथिकजी को वचन भी दे चुके थे कि सारी शिकायतें दूर नहीं हुईं तो वे खुद विजौलिया के सत्याग्रहियों के अगुआ बनेंगे। जब नागपुर अधिवेशन में पथिकजी महात्माजी से मिलने गये तो मैं भी साथ था। महात्माजी ने मिलते ही पूछा, “क्यों पथिकजी, असहकार तो छेड़ दिया, मगर वचन आपको पहले दिया था। कहिये, इसे चलाऊँ या उसे पूरा करूँ ?” पथिकजी ने गद्गद होकर उत्तर दिया, ‘नहीं’ महात्माजी, आप इस महान् कार्य को सम्भालिये। छोटे भोटे काम तो हम आपके अनुयायी निपट लेंगे।’ नेता और अनुयायी के दिग्दर्शन रूप यह संवाद मुझे अच्छा लगा और महात्माजी को इतने पास से देख कर खुशी हुई।

इसी अधिवेशन में कुँवर चाँदकरणजी शारदा और पं० गौरीशंकरजी भार्गव से लेट हुई। इस अवसर पर जो चर्चाएँ हुईं, उनसे मुझे कल्पना हो गई कि देशी राज्यों की समस्या एक अलग और बड़ा सवाल है और उसका रियासती प्रजा के लिये ही नहीं, देश भर के लिये खास महत्व है। एक राजस्थानी की हैसियत से मुझे पता चला कि मेरा धर्म क्या है।

## पांचवाँ अध्यय

### राजस्थान सेवा संघ

**प्रथिकजी के दिमाग में उन दिनों एक ऐसी संख्या बनाने के विचार चल रहे थे जिसमें युवक लोग राजस्थान की जन्म भर सेवा करने का ब्रत लेकर शरीक हों। यह सही है कि दिल में लगन हो तो मनुष्य किसी भी हालत में रह कर देश सेवा कर सकता है। इस तरह के वीसियों उदाहरण दिये जा सकते हैं कि लोगों ने सरकारी नौकरी करते हुये, धन और वैभव की गोद में खेलते हुए, सत्ता के आमन पर बँठे हुये और दूसरे घन्वे करते हुये भी समाज की भलाई के कांस किये हैं। लेकिन जब किसी देश की आजादी का सवाल हो, किसी ग्रना को दासता, दरिद्रता और अज्ञान के गहरे कुएं से निकालना हो और किसी बड़े काम को पूरा करना हो तो मन चाहा फल तभी निकल सकता है जब वम से कम कुछ लोग ऐसे निकलें जिनको एक ही लक्ष्य का ध्यान हो और उसी को पूरा करने में उनको सारी शक्तियाँ लगी हों। ये राजनैतिक संन्यासी या मिशनरी सिक्के आख मांग कर और दूसरा कोई बंधा न करके सिर्फ देश का ही काम करने का और वह भी सारा समय लगा कर करने का संकल्प करने वाले ही हो सकते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति**

बहुत सी बुगाइयों की जड़ है, लेकिन एक गरीब देश का उद्धार करने वाले सेवकों के लिए तो वह बड़ी भारी वाधा है। इस तरह धार्मिक मणिकों में भाग लेने वाले लोग भी न एक संयुक्त राष्ट्र की रचना कर सकते हैं और न अलग २ घरों को मानने वाली जनता का ही कुछ भला कर सकते हैं। परिकल्पना की सोची हुई संस्था में इन सब सिद्धान्तों के समावेश की कल्पना थी। मैं तो सहमत हो ही गया; लेकिन देशी राज्यों की समस्याओं में रस लेने वाले कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से जब चर्चा हुई तो खानगी जायदाद और धार्मिक खड़न संघर्षके प्रश्नों पर मतभेद रहा। अंत में परिकल्पना, हरिली और मैं, वस इन तीन सदस्यों से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। पर्यकल्पना अध्यक्ष और मैं मन्त्री चुना गया। यह तै हुआ कि हर सदस्य अपने और अपने आश्रितों के लिये १५) रुपया मासिक फी आदमी से अधिक खर्च न ले। मुझे याद है संघ के किसी विवाहित सदस्य ने भी ३०) रुपया माहवार से ज्यदा गुजारे के लिये नहीं लिया। इसमें भी जो बचत होती थी संघ को लौटा दी जाती थी।

इसी असे में विजौलिया से परिकल्पना के पास बराबर तकाजे आरहे थे कि कोई 'नेता' बहाँ पर जाय। मेवाड़ में जनता कार्यकर्ताओं को इसी नाम से पुकारती थी। परिकल्पना विजौलिया के बारे में महत्वपूर्ण क़दम मशत्माजी की सलाह से उठाते थे। वे उन दिनों दिल्ली में थे। हम दोनों बहीं पहुँचे और श्री-

सत्यदेवजी विद्यालंकार के मेहमान हुए। वे उस समय प्रोफेसर इन्ड्रजी के 'विजय' में काम करते थे। उनकी उत्कट राष्ट्रीयता का पता तो उसी समय लग गया। हाँ, उनकी सम्पादन कला के जौहर बाद में मालूम हुये। दिल्ली के परामर्श के फलस्वरूप में विजौलिया के लिये रवाना हुआ। मामला पेंचीदा और मेरे लिए चिलकुल नया था, सगर पथिकजी ने काफ़ी पहीं पढ़ा दी थी और मुझ में भी उत्साह, आत्मविश्वास और अनुभव से सीखने की वृत्ति थी।

मैं कोटा पहुंचा। वहाँ कविगजा दुर्गादानजी की कोटड़ी में विजौलिया के सत्याग्रही क्रिसानों का एक शिष्ट दल मेरा इन्तज़ार कर रहा था। कविगजा साहब एक बड़े जागीरदार होकर भी राष्ट्रीय विचार रखते थे, पथिकजी के मित्र थे और उन्हीं के घर बैठ कर एक असें तक पथिकजी ने विजौलिया का आन्दोलन चलाया था। उन दिनों विदेशी नौकरशाही और त्वदेशी चाकरशाही का गठबंधन इतना मजबूत नहीं हुआ था और न गिरासती कर्मचारी ग्रजा के विरुद्ध पड़यन्त्र करने में इतने सिद्धहस्त हुए थे कि एक गज्ज में रह कर दूसरे राज्य की ग्रजा की ललई का कोई काम न किया जा सके। इस लिये पथिकजी को न कोटा राज्य की तरफ से कोई वाधा हुई और न वहाँ के उमराव कविराजाजी को पथिकजी के सहायक बनने में कोई संकोच हुआ। सच तो यह है कि समंतशाही दुर्गादानजी की नम्रता, सज्जनता और सहजता को ज़ंग न लेगा सकी थी।

शोपकर्वर्गमें पैदा होकर वे अपनेको अभागा समझते थे और देश के लिये, गरीबों के लिये, सब कुछ उत्सर्ग करने के सपने देखा करते थे। जब मैंने पहली बार महात्माजी का यह विचार पढ़ा कि ज्ञानीदार, जग्नीरदार और पूँजोपति जनता के ट्रस्टी ( संरक्षक ) बन सकते हैं तो सब से पहले मेरा ध्यान कविराजाजी पर ही गया था। लेकिन शायद मेरा भी यह सपना ही था। खौग, उन्होंने किसानों से मेरा परिचय कराया और मैं दिन अर उन लागों से स्थिति समझता रहा।

दूसरे दिन तड़के ही हम लोगों ने प्रस्थान किया। बीहड़ जंगलों और पहाड़ों को पार करने का, जगत के अन्नदाता किसानों से सीधा सम्बन्ध होने का और किसी सार्वजनिक समस्या को सुलझाने में सहायता देने का मेरे बासे यह पहला मौका था। मेवाड़ी भाषा भी जरा अटपटी लगी, लेकिन वह मातृभाषा राजस्थानी की एक शाखा थी, थोड़े से सम्पर्क से समझने वोलने की कठिनाई दूर हो गई। शाम होते होते उमाजी की खेड़े पहुंचे। यह किसान पंचायत का केन्द्र था। श्री माणिक्यलालजी वर्मा गांव से बाहर ही मिल गये। उनके साथ नन्दाजी धाकड़ भी थे। नन्दाजी के पास एक तोड़ेदार बंदूक थी। दोनों कोट, धोती और साक्षा पहने थे।

माणिक्यलालजी का दुबला शरीर, धूप से तपा हुआ गोरा रंग, चपल और गोल आंखें, ऊँचा ललाट और पतले होंठ उनकी क्रियाशीलता, कष्ट-सहिष्णुता, तेज बुद्धि और हळ

संकल्प का प्रदर्शन कर रहे थे। योड़ी देर की बातचीत से यह भी पता लग गया कि स्थानीय परिस्थिति का उन्हें कितना अच्छा ज्ञान है। वाद के तजुर्वे से तो उनके द्यागी जीवन, कार्य कौशल और पीड़ितों के साथ एक रस हो जाने की शक्ति चर्चा कई दूसरी खूबियां भी जाहिर हुईं। लेकिन उनके व्यक्तित्व में मव से वर्दिया चीज़ तो यह पाई गई कि वे देहाती जनता में कितनी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और उसका प्रेम और विश्वास सम्पादन कर सकते हैं। प्रान्त भर में इस बारे में वे अपना सानी नहीं रखते। मैं उन्हीं के घर ठहरा और दो एक दिन में ही उनकी पत्नी सौ० नारायणीदेवी के आतिथ्यशील और परिश्रमी स्वभाव का परिचय मिल गया। स्व० महादेव लाई के बाद बाहर का मैं पहला कार्यकर्ता था जो 'उपर भाल' में खुले तौर पर गया था।

विजौलिया मेवाड़ का एक प्रथम श्रेणी का जागीरी इलाक्का है। वहाँ के उमराव रावजी कहलाते हैं जिन्हें महागणा के दून्हार में सोलह सरदारों में बैठक मिलती है और पहले दर्जे के मुजिस्ट्रेट के अखित्यार हासिल हैं। यह प्रदेश विवाचल की ऊँची पठार पर बसा हुआ, लगभग १०० वर्ग मील का छोटे छोटे २०-२५ गांवों का एक समूह है। मुख्य कस्बे की वस्ती ४ हजार और कुल इलाक्के की कोई १२००० होगी। अधिकांश किसान धाकड़ जाति के हैं। मौजूदा रावजी के पिता के देहान्त पर सन् १८१६ में ठिकाना रियासत-

की मुंसरमात में चला गया। ठाकुर हृंगसिंहजी भाटी नायब मुंसरिम जागीर का सारा इंतजाम करते थे। कार्यकर्ताओं के निमंत्रण पर पथिकर्जी सन् १९१७ में विनौलिया पहुंचे और विद्या प्रचारिणी सना क्रायम करके उसकी तरफ से एक पुस्तकालय एक पाठशाला और एक अखाड़ा चलाने लगे। ऊपरमाल के किसानों में असंतोष पुराना था। पीढ़ियों से वे सरलत वेगार, पचासों अजीव अजीव लागतों, भारी लगान और मनमाने राजनीतिक जुलमों की चक्की में पिसते आ रहे थे। एक दो बार सर उठाने की काशिश में कुचले जा चुके थे। आग जीतर चली गई थी लेकिन बुझी नहीं। उस साल लड़ाई के कँज़े के नाम पर ठिकाने ने कम ८ तोड़ वसूली की थी। किसानों को यह भार असह्य हो गया। पथिकर्जी की जन्मजात सशनुभूति उनके साथ थी, वे किसानों के नेता बन गये। उनकी कार्य प्रणाली में क्रांतिकारियों के साहस, लोकमान्य की नीति और गाँधी के सत्याग्रह का सामंजस्य था। किसानों को उन्होंने सब कष्ट सह कर नी मारपीट न करने और अपनी माँग पर ढट्टे रहने का पाठ पढ़ाया। वे खुद छिप कर रहने लगे और ठिकाने के खिलाफ दियासत में शिकायतों का और अब्दवारों में प्रकाशन का दुखांरा खांडा चलाने लगे। चायत का मजबूत संगठन कर लिया गया। उसकी एक केन्द्रीय कमेटी वृनाई गई और गांवों में शाखाएं स्वापित हो गईं। सभी ग्रामवासी शारीक हुये। आन्दोलन के लिये बाहर से भीख न माँग कर किसानों

से ही कोष इकट्ठा कर लिया गया। यह स्वावलम्बन आँखिर तक रहा और इसी में एक बड़ी हद तक विजौलिया की सफलता का रहस्य था।

किसानों ने सत्याग्रह छोड़ दिया। ठिकाने की आज्ञायें न मानना, उसे कोई कर न देना और उसकी अदालत व पुलिस से वास्ता न रखना मुख्य कार्यक्रम बना। ठिकाने ने भय, प्रलोभन और छल के सभी हथियार आजपाये। बूढ़े किसानों के साथ मारपीट की गई उन्हें जेलमें ठूंसा गया, जुर्माने व ज्ञावितयां हुईं और अंत में उनकी खड़ी फसलें नष्ट करदी गईं। पर्याकली की सूझ विलक्षण थी। उनकी सूचना पर पचायत ने तय किया कि सत्याग्रह जारी रहे, सत्याग्रही लोग क़स्ते में न लायें, शराब छोड़ दें, शादी और मौसर बन्द रखें और विजौलिया की सारी जमीन पड़त रख कर आस पास के ग्रालियर, इंदौर, कोटा और बूंदी के इलाकों में खाने भर को खेती करलें। किसानों में फूट ढालने वाले असर न पढ़ने देने, उनकी आर्थिक शक्ति भवृतज्जरखने और ठिकाने को मुकाने के लिये यह कार्यक्रम बड़ा ज्ञाहरी था। इस पर अमल भी इतनी कड़ाई से हुआ कि चार साल तक ठिकाने को न लगान मिला और न मुक़दमे मामले उसकी कचहरी में गये। शराब की दुकानों का बहिष्कार रहा और शादी-जमी के काम रुके रहे। ठिकाना बुरी तरह कर्जदार हो गया। महाराणा कत्तहसिंहजी की जागीरदारी विरोधी नीति भी रावना के खिलाफ और सत्याग्रहियों के अनुकूल सावित

हुई। किसानों को अपनी शक्ति का ज्ञान और कामयावी का यक्कीन हो गया।

परन्तु इस महान कार्य में पर्यिकल्पी ने खूब कष्ट उठाये। उन्हें गुप्त जीवन की सारी असुविधायें सहन करनी पड़ी, रुखी सूखी और समय असमय खाकर संतोष करना पड़ा और कई बार फ़ाक़ा सस्ती में गुज़ारनी पड़ी। मेंह वरसते खेतों में और भयंकर पशुओं से भरे जंगलों में उन्हें अंधेरी रातें गुज़ारनी पड़ी और हरदम एक क्रूर शत्रु के घेरे में दांतों के बीच जीभ की तरह घूमना पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं 'यदि किसानों ने उन्हें 'महात्मा' की पदवी दी और उनके शर्दू को आज्ञा के रूप में माना। पर्यिकल्पी ने इस भाँक से अपना कोई स्वार्थ साधन नहीं किया।

मैंने देखा उस समय 'बन्देमातरम्' की आवाज़ उपरमाल के कौने कौने में गूँजती थी। हर स्त्री पुरुष का यही अभिवादन था। एक छोटे से क्षेत्र में मातृभूमि की पूजा के भाव न त नारी, बाल वृद्ध सभी की हृत्तंत्री में बज रहे थे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस धर्म में ये सभी किसान 'आनन्द मठ' के क्रांतिकारी संन्यासी बन गये हैं। फ़र्क़ इतना ही था कि वे सशस्त्र विप्लववादी थे और ये निःशस्त्र सत्याग्रही। पंचायत के संगठन में डाकबाले का पद बड़े भरोसे और महत्व का था। मगर तुलसा भील के रूप में विजौलिया के किसानों को एक असाधारण संदेशवाहक मिला था। उसने सब तरह के भय और प्रलोभनों

के ऊपर उठ कर पंचायत की सेवा की थी। चलनेवाला इस ग्रज्जव का था कि कई बार सुबह उमाजी के खेड़े से रवाना होकर शाम को कोटा पहुँच जाता और दूसरे दिन सुबह ही लौट आता। इस प्रकार २४ घंटे में वह ७० भील का लगातार खंकर कर लेता था। विजौलिया ही में मैंने पहले पहल यह भी देखा कि हमारे देहाती संगठन को कुंजी बहाँ के बड़े बूढ़ों के हाथ में होती है। युवक घर का काम करते हैं और बुजुर्ग लोग पंचायत का। वे ही हमारे प्रामीण समाज के नेता होते हैं और उन्होंके पास अनुनव, समझदारी और अवकाश भी है।

जब मैं विजौलिया पहुँचा तब बहाँ को 'यही परिस्थित थी। किसानों के मुखियों से मिलने और सब हालात समझने के बाद मैंने ठिकाने के राबजो और अधिकारियों से मेंट की। उन पर निराशा छाई हुई थी और वे समझौते के लिए उत्सुक थे। कस्ते के महाजनों ने भी मुझसे 'राजांगना' में मेल कराने की अपील की। वे ज्यादातर बोहरे थे। किसानों ने उन्हें अपना शोपक और ठिकाने का पोषक समझ कर उनका भी बहिष्कार कर रखा था। उनका लेन देन बंद था। छोटे जागीरदारों की हालत सब से खराब थी। उनमें से कुछ के करुण सन्देश आये, लेकिन सबसे कड़ा रुख था कस्ते के युवकों का। इनमें से कुछ राजकर्मचारियों के सम्बन्धी और सब पश्चिमी के चेले थे अनुयायी थे और उनके गुप्तचरों का काम ढूँते थे। साधु सीतारामदासजी उम्रदल के अगुआ थे। उनका

परिचय नहीं हुआ। साधुजी अनुभवी आदमी थे। उनमें अपनी बात दूसरों के गले उतारने की अच्छी शक्ति थी। मेवाड़ी भाषा में संस्कृत की पुट लगा कर वे उसकी समृद्धि बढ़ाने में प्रवीण थे। वैद्यक के चुटकले और व्यावहारिक युक्तियाँ उन्हें खूब याद थीं। रवालियर की लीरण नामक जागीर का मामला साधुजी के हाथों से ही सुलझा था। यहाँ की अत्याचार पीड़ित जनता के कष्ट निघारण में श्री० चौथमलक्षी अग्रवाल की सेवाएँ भी उल्लेखनीय हैं।

मेवाड़ के रेज्ञ-डेण्ट विलिंसन साहब उन दिनों दौरे पर विजौलिया आये हुए थे। मैंने उन्हें पक्षियों का शिकार करते हुए जा पकड़ा। किसी अप्रेज से मिलने का इससे पहले मेरा काम न पड़ा था। उस बड़ी गोरी चमड़ी का बड़ा दबदवा था। रियासत में अजंट साहब के पास फटकने में बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन मुझे गांधीजी के आनंदोलन की हवा लग चुकी थी। असहयोग ने भारत की जनता में निर्यती और अप्रेज के आतंक और उसकी हकूमत की प्रतिष्ठा की जड़ें हिलादी थीं। विलिंसन साहब को मेरा दुःसाहस पसन्द तो नहीं आ रहा था। मगर वे मुझे टाल नहीं सके। मैंने उनसे सीधा ही कहा, “आप सर्वभौम सत्तां के प्रतिनिधि हैं। यहाँ की जागीर में जो ज़ुल्म हो रहे हैं उनसे राहत पाने में आपको प्रश्ना की मदद करनी चाहिये।” “लेकिन हम रियासत के अन्दरुनी मामलों में दखल नहीं देते”, साहब बोले। मैंने

पूछा, "लेकिन आपके निमित्त जो सुझत रखद और वेगार ली जाती है क्या उसे भी ज्ञाप नहीं देक सकते ?" उन्होंने मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया और मैं अंग्रेजी राज्य के खिलाफ अपना बुरा खयाल भजबूर करके लौट आया ।

मैं कोई समाइ भर विजौलिया ठहरा हूँगा । जब मैं वर्धा लौटा तो नेरे हृदय में अनेक प्रेरक सृष्टियों का भरडार भरा था । इस यात्रा के परिणामस्वरूप नेरे विचारों में भी एक बड़ी तब्दीली हुई । मैं अब गुप्त षड्यंत्र और सुट हिंसा और लूटमार की देशभक्ति के उन्माद से ऊक होकर जनता की खुली तेवा का क्रायल होगया । गांधीजी के सार्वकानिक सत्याग्रह की पहली नक्ल देश भर में पर्याकर्त्ता ने की थी । उसका स्वरूप और प्रभाव विजौलिया में देखकर उस पर सेरी श्रद्धा होगई । विष्णवचाद के संस्कार तो अब भी थे और मेरा खयाल है कि बात्यकाल और तरुण अवस्था के संस्कार किसी न किसी रूप में भदुष्य पर क्रायम रहते ही हैं, लेकिन देश सेवा वे, भारत की आजादी के, उस मार्ग को मैंने सदा के लिये प्रणाम कर लिया ।

फरवरी १९२१ का समय होगा । दीनबन्धु सी. एफ. एण्डूज की एक लेखमाला अखबारों में तिक्ली । उस में वेगार प्रथां पर प्रकाश ढाला गया । हम लोगों ने भी राजस्थान में प्रचलित वेगार की क्रूरताओं के समाचार भिजवोये । उस देवतास्वरूप अंग्रेज को सहसा भरोसा नहीं हुआ कि मानव स्वभाव

अंग्रेजी राज्य की छत्रछात्रिया में इतनी हृदय-हीनता से काम ले सकता है। लेकिन अधिक प्रमाण मिलने पर वे क्रायते हो गये। वेगार की उन्होंने 'आधुनिक-गुलामी' कह कर तीव्र निन्दा की और उसके उखाड़ फेंकने के लिये लड़ने से पहले प्रत्यक्ष जांच करने की इच्छा प्रकट की। राजस्थान सेवा संघ ने इस विचार का स्वागत किया और दीनबन्धु को सहयोग देने का वचन लिख भेजा। राजस्थान की पीड़ित जनता की सेवा का यह सुवर्ण अवसर था। हम लोगोंने अपने असली कार्यक्षेत्र में जाने का निश्चय किया। 'राजस्थान के सरी' का मोहर जारूर था, परन्तु कड़ा जी करके उसे भी सत्यदेवर्जी विद्यालंकार के सुपुर्द कर दिया। वे कुछ अर्से पहले वर्धा आ चुके थे और पथिक जी की परीक्षा में योग्य पत्रकार ठहर चुके थे। हम तो राजपूताना चले आये, मगर दीनबन्धु का दौरा किसी न किसी कारण टलता ही गया। बीकानेर के महाराजा गंगासिंहजी ने पहले तो उन्हें अपनी रियासत में जांच का निमंत्रण भेज दिया, मगर बाद में वृटिश पालियामेंट में सरकार का रुख देख कर मुकर गये। हाँ, इस विलंब से हमें तैयारी का अच्छा मौका मिला। राजपूताने के प्रायः सभी और मध्य भारत के बहुत से राज्यों में जगह जगह 'राजस्थान के सरी' और बिजौलिया-सत्याग्रह ने पथिकजी के प्रशंसक और संघ के सहायक पैदा कर दिये थे। पथिकजी के लेखों ने प्रांतीय युवकों में प्रांतीय एकता और स्थानीय देश अम जगाना शुरू कर दिया था। ये सब लोग वेगार के बारे में

सामग्री जुटाने में लग गये और हमारे मार्च सन् १९३८ में अजमेर पहुँचते पहुँचते स्थानस्थान से वेगार पीड़ितों की कहण कथा के पुलन्दे आने लगे।

हम कोटा होकर गये थे। वहाँ त्व० पं नयनूरामजी शर्मा से मेरी पहली मुलाकात हुई। ये पुलिस थानेदार की नौकरी छोड़ कर राजनीतिक मैदान में आये ही थे। पहला काम उन्होंने वेगार निवारण का हाथ में लिया। देश का वातावरण अनुकूल था और कोटा में महाराव उम्मेदसिंहजी जैसे दमनविरोधी शासक और चौबे रघुनाथदास जैसे समझदार दोबान थे। नयनूरामजी को अच्छी सफलता मिली और वेगार की सखियों में कमी करने का सुयश राजपूताने में सबसे पहले कोटा को आसानी और खूबसूरती से मिल गया। त्याग और श्रेय की इस भूमिका के साथ शर्माजी मिले। सांवला रंग, हृष्ट पुष्ट शरीर, नंगा सर, जोटे खदर का कुरता और ऊँची धोती, हाथ में एक लड्डु और मुक्क हाथ्य—ये सब देखते ही पता लग गया कि आदमी फ़क़ड़, निर्बय और देहाती जीवन का अभ्यस्त है। उनकी वातचीत में आत्मशय साफ़गोई होती थी। वे प्रान्त के पहले कार्यकर्ता थे, निन्होंने सिंह की दाढ़ी उसकी गुफा में पकड़ी थी। उन्होंने रियासत के भीतर बैठ कर उससे खुली लड़ाई ली और जब तक जिये अखबारों में अपने नाम से अधिकारियों की कड़ी टीका करने में न चूके। वे संघ के चौथे सदस्य और कोटा शास्त्र के अध्यक्ष बनाए गये। उनके साथ

‘हम लोग’ कोटा के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर श्री० दयाकृष्ण एम. प. से मिले। ‘राजस्थान के सरी’ मे कोई संबाद छपा था जिसे उन्होंने मान हानिकारक समझा। एक पत्रकार के सत्य पर हड़ रहने और जनता के उपचोरी बनने के लिये कितनी खोज के साथ सामग्री ग्राप्त करनी चाहिये और कैसी सांवधानी से उसे प्रकाशित करना चाहिये इसका पहला पाठ मुझे इस प्रसंग से मिला। अस्तु, दुर्भाग्यवश नयनूरामजी आब हमारे दी चमें नहीं हैं। उनकी मृत्यु बहुत ही दुःखद परिस्थितियों में हुई। उनके हत्यारों का रियासत अभी तक पता न चला सकी। लेकिन उनके जीवन का जिस प्रकार अंत हुआ वह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिये शिक्षाप्रद है। उनकी रचनात्मक प्रतिभा भी कम नहीं थी। उसका प्रमाण या हाङ्कोटी शिक्षा मंडल। इस संस्था के द्वारा उन्होंने राजा और प्रजा के सहयोग से कोटा राज्य में वरसों तक एक दर्जन से अधिक प्रामीण पाठशालाएं चलाईं। इनके द्वारा देहाती जनता में शिक्षा प्रचार और साथ साथ हरिजन सेवा और समान सुधार का कानून काम किया गया। अवश्य ही वे हाङ्कोटी के प्रथम और एक मात्र नेता थे।

पथिकजी वर्षा रा अजमेर पहुंच गये थे। मैं जब कुछ दिन बाद पहुंचा तो धासीरामजी की धर्मशाला में संघ का दफ्तर खुल गया था। लगह लगह से बेगार बिरोधी आन्दोलन की खबरें आने लगी थीं और हम लोग रोजे उनका सार प्रेस तारों और हाक द्वारा समाचार पत्रों में भिजवा रहे थे। मैंने आते

‘ही दो नई मूर्तियां देखीं’। एक तो वे खरबा के पुरोहित मोड़सिंह। वे खरबा राव साहब के आदमी और पथिकजी के पुराने साथी थे। वहुत कम पढ़े लिखे किन्तु वडे साइसी और होशियार थे। शुरू में बेगूँ का काम उन्होंने लमाया था। दूसरा व्यक्ति एक विलक्षण श्यामवर्ण, एक हाथ दूटा हुआ, अत्यन्त मितभाषी और संकोचशील निमृद्धिया जवान था। वे एक कोने में बैठे साइक्लोस्टाइल पर कुछ लिख रहे थे। पथिकजी से पूछने पर मालूम हुआ कि वे उनके चिजौलिया के शिष्य शोभालालजी गुप्त हैं जो अजमेर के ढाँ० ए० बी० स्कूल की नवे डॉर्ज की पढ़ाई छोड़ कर असहयोग की पुकार पर हाल ही में निकल आये थे। इनके जैसे मूरुक सेवक, विचारशील सार्थी, नपा तुला लिखने वाले योग्य पत्रकार विरले ही देखे गये हैं। इनमें अपने आप दूसरों के उदाहरण से सीखने की अद्भुत शक्ति है। वे संघ के पाँचवें सदस्य बने।

अजमेर में पहली राजनीतिक कान्फ्रैंस तो पहले ही हो चुकी थी। उसमें लोकमान्य तिलक पधारे थे और ढाँ० अंमारी अध्यक्ष छुये थे। इस समय अजमेर में परिषद् का दूसरा जल्सा हुआ। पं० मोतीलालजी नेहरू समाप्ति थे। मौलाना शौकतअली भी तशरीक लाये थे। परिषद् में बड़ा जोश था। यहीं खरबा के राव गोपालसिंहजी को देखा। बुढ़ापा आ चला था, मगर उनके बांकेपन में फ़क्क नहीं पहा था। साथ ही उनके राजपूत प्रधान निचारों में भी अंतर नहीं आया था। उन्होंने कान्फ्रैंस

में वेगार विरोधी प्रस्ताव की मुख्यालिकत की । संघ के वे उम्र भर विरोधी रहे । मगर जिन लोगों ने उनका अन्तकाल देखा है उनसे मालूम होता है कि उनकी आस्तिकता कितनी गङ्गव की थी । इसी परिषद में स्वर्गीय मणिलालजी कोठारी से परिचय हुआ । पहली पहचान में ही उनकी स्नेह और भावनाशील प्रकृति का पता चल गया । फिर तो वह परिचय बेढ़ता ही गया और एक समय वह आत्मीयता की हड़ तक पहुँच गया । जब तक राजस्थान सेवा संघ रहा वे सदा उसे अपना और हम लोगों को अपना परिवार समझते रहे । जब कभी अजमेर आते हमारे यहां नहरते, हमारे हर कष्ट में सहायक और शरीक होते, संघ के लिए सहायता लुटाते और अपने दिल और दिमाग के गुणों का दिल खोल कर लाभ देते । राजस्थान के दुर्दैव ने उन्हें असमय ही उठा लिया ।

वासीराम की धर्मशाला उन दिनों अजमेर की राष्ट्रीय हलचल का केन्द्र थी । पास ही पं० गौरीशंकरजी का मकान था । वे अजमेर के पहले रईस थे जिन्होंने विदेशी कपड़े के व्यापार को लात मार का गांधीजी की जोखिय भरी राजनीति में प्रवेश किया था । उनका परिवार भी इस काम में उनके साथ था । धर्मशाला के नीचे के माग में राष्ट्रीय स्कूल चलता था । और श्री० अकरमशाह और मास्टर कर्मवीर (रत्नलालजी) उसके संचालक थे । कांग्रेस दफ्तर स्वामी नृसिंहदेव सर-स्वती के हाथ में था । श्री० चांदकरणजी शारदा वकालत छोड़

चुके थे। सुखलमानों में इस्ताम के अद्वितीय विद्वान् मौलाना सुईलुहान, अर्लीगढ़ के प्रतिमाशाल ब्रेजुपट और युवक वर्काल मिर्जा अब्दुल कास्तरवेंग और मौलाना के छोटे भाई प्यारे मिर्जा काम कर रहे थे। इनके साथ मिर्जा यूसुफ वेंग, सच्चद अच्चास अर्ली और डाँ अब्दुल अर्जीब वर्दीरा माहवान भी थे। काव्य-कर्ताओं का अक्सर मैं उन्हें प्रभाव था। जब भार्गवर्जी क्रौमी जुलूसों के आगे घोड़े पर सवार होकर निकलते, शारदार्जी अपने निर्मांक यापण देते, स्वार्माजी जोशीली नज़र में गाते और मौलाना सीधी तीर सी दक्कराएँ करते थे तो एक अर्जीब समां बंध जाता था। मिर्जाजी के अंग्रेजों मस्तिष्ठों को राष्ट्रीय हल्कों में हर क्षण रहती थी। बाबू मधुराश्रसादर्जी शिवहरे कांग्रेस के अर्थमन्त्री और कर्तार बुनाई विभाग के संचालक थे। श्री० ललिताप्रसाद 'शाद' की नज़र में भी क्रौमी जलसों की गैनक थी।

बीच छोटा होता है, मगर उसका फैलाव एक बड़े पेंडु के ढाय में होता है। हमी तरह विजौलिया के सत्याग्रह का असर आस पास फैलने लगा। पढ़ोमी जानीर वेंग के किसानों को भी क्षणभग बैसे ही बष्ट थे जैसे विजौलिया वालों को थे। जनता के सामाजिक सम्बन्ध भी नज़दीकी थे। बाकड़ों की बहां भी प्रधानता थी। उन्होंने विजौलिया में टिकाने के दमन की निपटलता और सत्याग्रहियों की विजय के आसार देन्ह लिये थे। अब तक वे सभमते थे कि 'राज का मारा राम को ही पकार सकता है', लेकिन अब वहें बीच की एक तीसरी शक्ति

भी मैदान में नज़र आ रही थी। उन्हें पता लगा कि जिन बुद्धि-शाली और पढ़े लिखे लोगों को अब तक देहाती जनता ने शोषक और पीड़क के रूप में ही देखा था, उनमें उपकारी और सेवक भी होते हैं। सार यह कि उन्हें सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का भी परिचय हो गया था। पैरों तले रौंदे हुये चींदे की तरह उन्होंने करघट बदली। उनके प्रतिनिधि सेवा संघ के दफ्तर में पहुँचे। उनके साथ मुझे मेवाड़ के प्रधान मंत्री दीवान वहादुर दामोदर लालजी भार्गव के पास भेजा गया। दीवान साहब भले किन्तु कमज़ोर आदमी लगे। अंग्रेज रियासतों में ऐसे बहुत से कर्मचारी भेजते हैं जिनकी कार्यशक्ति क्षीण हो चुकी हो, आखिरी उम्र में अधिक से अधिक रूपया कमा लेने के सिवाय जिनमें काम या देश सेवा करने का कोई उत्साह बाकी न रहा हो, और जिनकी नस नस में विदेशी हुक्मत की वकादारी भरी हो। दामोदरलालजी ने रस्म के अनुसार लाँध करने का वचन दे कर हमें विदा किया। अजमेर लौटने पर मुझे बेगूँ भेज दिया गया। जैसे विजौलिया इलाके को उधर के लोग 'ऊपर भाल' कहते हैं, वैसे ही बेगूँ ज़ेत्र को 'आंतरी' के नाम से पुकारते हैं। आंतरी पहुँच कर मैंने किसान पंचों से परिचय किया। उनका मामला स्वरूप और पंचायत में भागण दिया। दूसरे दिन सार्वजनिक सभा हुई। तीसरे पहर तक गांव से किमान स्त्री मुरुपों के कुँड के कुँड आते रहे। बेगूँ के सत्यागह में रायता गांव का वही स्थान है जो विजौलिया में उमाजी के खेड़े का।

रायता के पास एक स्वेत में सभा हुई। जागीर के कुछ चर्चारी हुड्डधारों के साथ मौजूद थे। अन्देशा था कि वे बल प्रयोग करेंगे और कोई हुर्वटना होगी। मगर दोनों पक्षों ने संघर्ष से बाहर लिया। सरकारी हुक्मी के अन्धेर बनेड़ा के एक प्रश्नित युवक श्री लक्ष्मीनारायण ओमा थे: मेरे चले जाने के बाद उनकी जाबदती में किसानों पर गोली चली, वे थोड़े समय बाद बैगुं से अलग कर दिये गये और फिर उन्हें लकड़ा हो गया।

संघ के आन्दोलन की पद्धति संक्षेप में यह थी कि जब किसी इलाके के लोग अपने कट्टों के निवारण में सहायता लेने आते तो किसी विश्वस्त कार्यकर्ता को उस ज़ेत्र में भेजा जाता। वहाँ पहुंच कर वह जनता के कट्टों की जाँच करता और उनकी पंचायत का प्रतिनिधि होंग पर सुगठन कर देता। पंचायत संघ में अपना विश्वास प्रगट करते हुए उसके नेतृत्व में काम करने की मंजूरी लिख कर दे देती। संघ की सलाह के अनुसार पंचायत अपनी माँगें ठिकाने और रिपाउत के सामने दखलातों के हप में पेश कर देती। काफ़ी समय तक इंध-जार करने के बाद मुनार्ह न होती तो किसान ठिकाने के प्रति सत्याघट का एक या एक से अधिक क़दम डाते। संघ की ओर से कम से कम एक कार्यकर्ता किसानों को रात्ता दिखाने के लिये उन्हीं में रहने के लिये कर दिया जाता। उसकी सलाह से पंचायत लोगों से निश्चित कार्यक्रम पर अमल करवायी। इवर संघ जनता की शिकायतों का अख्तारों में प्रकाशन

करता। पंचायत के सामाहिक अधिवेशन जहर होते थे। उनमें गाँव गाँव के प्रतिनिधि आते थे और सप्ताह भर की खास खास घटनाओं पर विचार करते थे। कांग्रेस में खादी प्रचार, नशा-नियेव, शिक्षा-प्रसार, कुरीति-निवारण, एकता—स्थापन और राज्य व ठिकाने के हानिकारक प्रभावों को रोकना मुख्य अंग होते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तज्ञेप से हमेशा परहेज़ किया जाता था, समझते की हमेशा जैसी ही तैयारी रखी जाती थी जैसी कष्ट महकर लड़ने की और जनता की तरफ से हिस्सा न होने देने की सावधानी रखी जाती थी। बड़ों, खियों और युवकों में उपयुक्त गीतों द्वारा उत्साह क्रायम रखने की दबावर कोशिश की जाती थीं।

जब मैं बेगूँ से लौट कर अजमेर पहुँचा तो सेवा संघ का कार्यालय धारीरामजी की धर्मशाला से उठ कर लाखन कोठरी में मुम्बद्धयों के नोहरे में चला गया था। परिकल्पी को संग्रहणी हो गयी थी, किर भा वे दिन रात काम में लगे रहते। न खुद आराम लेते, न औरों को चैन से बैठने देते। औसतन सोलह घंटे तो काम रहता ही था। मैंने एक बार चार साल का का हिसाब लगा कर देखा तो परिकल्पी का औसत खर्च दर्ज रूपया भास्त्रिक से ज्यादा नहीं निकला। यों तो सेवा संघ के सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत कम खर्च होता था परन्तु प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ताओं में मेरो लानकारी में मेहनती और कम खर्च करने वाले परिकल्पी जैसे बहुत कम होंगे।

डाक्टर अम्बालालजी और पं० रामचन्द्रजी वैद्य अजमेर में संघ के खास सहायक थे। डाक्टर साहब का तो परिकल्पी से पहले का परिचय था। वे उदयपुर में परिकल्पी और 'प्रताप' के संवाददाता रह चुके थे।

सेवा संघ की नीति थी अन्याय का विरोध करने की। जागीरदार प्रजा को सताता तो संघ प्रजा का पक्ष लेता। राजा जागीरदार पर ज्यादती करता तो संघ की सहानुभूति जागीरदार के साथ होती और राजा पर त्रिटिश सरकार अनुचित दबाव ढालती तो संघ राजा की मदद करता। इन दिनों धौलपुर के जाट शासक ने फिरी के ठाकुरों को कुचलने की ठान ली थी। रियासत ने फिरी के क़िले पर हमला कर दिया था और दोनों तरफ से तलबार बजने लगी थी। सेवा-संघ की ख्याति प्रांत भर में फैल चुकी थी। उहाँ किसी के साथ राज सत्ता की तरफ से बेहङ्गाकी होती वह दौड़ कर सेवा संघ में आता। फिरी के ठाकुर भी आये। उन्हें सलाह और सहायता दी गई, उनके मामले के असली हालात अखबारों में छपाये गये और अधिकारियों के सामने रखवाये गये।

बैगू का मोमला बढ़ता जा रहा था और विजौलिया का स्त्याग्रह शांत गति से चल रहा था। इधर अजमेर-मेरवाड़ा में कांग्रेस की शाक बढ़ रही थी। व्यावर में सेठ घीसूलालजी जाजोदिया और स्वामी कुमारानन्दजी काम कर रहे थे। पं० गौरीशंकरली भारी वर्षा तिलक स्वातन्त्र्य फंड के लिये इन्दौर

मालवे का सफल दौरा करके और लगभग तीस हजार रुपया इकट्ठा करके लौटे थे।

उधर एन्हूंयूज साहब का वेगार-विरोधी दौरा बराबर मुल्तवी हो रहा था। जनता में जगह-जगह इस राक्षसी प्रथा के खिलाफ़ आनंदोलन उठ खड़े हुये थे। उन्हें संभाल सकेना सेवा संघ के लिये मुश्किल हो रहा था। हम लोगों का यह हाल था कि आज एक पैर कहीं है तो दूसरा और कहीं। राष्ट्र सत्ताएँ इस असाधारण और एक साथ प्रगट होने वाले असंतोष से घबड़ा उठी थीं। अनेक रियासतों ने ऐसे नियम तो घोषित कर दिये जिनसे मुफ्त सवारी, मजदूरी या सामान लेना मना कर दिया गया और मावजों की दरें बढ़ा दी गईं, लेकिन रोग इतना गहरा था कि इन ऊपरी उपचारों से कोई स्थायी या मौलिक लाभ सम्भव नहीं था। वेगार मूल में एक अच्छी भावना से शुरू हुई प्रथा जान पड़ती है। पूर्वकाल में जब राजा प्रजा के सम्बन्ध विशुद्ध थे, राजा सचमुच प्रजा को पुत्र समझता था और प्रजा उसे पिता मानती थी; तब प्रजा ने भक्तिभाव से तय किया होगा कि राजा आवे तो उसका सब काम मुफ्त किया जाय, उसे सब सामान विना मूल्य दिया जाय और सवारी का प्रबन्ध भी लोगों की तरफ से भैट-स्वरूप ही हो। मध्यकाल में जब हमारे राजा लोग लड़ाई में लगे रहते थे तो देश की रक्षा के लिये प्रजा से उन्हें मजदूरी, सामान और सवारी के रूप में स्वेच्छापूर्वक और विना मूल्य के मद्द मिलना स्वाभाविक था।

आगे चलकर अंग्रेजी राज्य ने लब हमारे राजाओं का अपनी छत्रछाया में ले लिया और भीतरी व बाहरी शत्रुओं से उन्हें अभयदान दे दिया तो वे सहज ही निरंकुश हो गये और प्रजा के बजाय विदेशी शासकों को संतुष्ट रखने की उन्हें अधिक चिंता होने लगी। राजाओं ने बेगार को हर समय की और ज्वरदस्ती की चीज़ बना डाली। जैसे जैसे अंधाधुंधी बढ़ती गई, उनके नौकर चाकर भी अपने को बेगार लेने के हक्कदार समझने लगे। वात यहाँ तक बढ़ी कि जिस समय राजस्थान सेवा संघ ने बेगार विरोधी आन्दोलन हाथ में लिया प्रांत के अधिकांश भागों में यह हाल था कि प्रायः सभी देहात में, अक्सर कस्तों में और बहुत से शहरों तक में फरज़ी से 'लेकर प्यादे तक ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के सिवाय हर समुदाय से बहुत से काम मजबूरन और मुफ्त करवाते और सामान व सवारी लेते थे। प्रजावर्ग को इन्कार करने का कोई हक्क न था, या यों कहिये कि कोई साहस न होता था। शादी, गमी, रोग, मौसम, फसल या कामकाज की मजबूरियों का भी, शायद ही लिहाज रखा जाता था। गाली गलौज, मारपीट और दूसरे जुर्म के तरीकों से काम केना मामूली बात थी। कहीं कहीं योड़ी सी कीमत दे दी जाती थी। कई जगह कारकुन लोग भूठी रसीदों पर बेगारियों से अँगूठे की निशानी करा लेते और सारा या अधिकांश पैसा खुद हज़म कर जाते थे। बेचारे हरिजनों को तो बेगार के मारे दूसरे कामों

के लिये फुरस्त मिलना ही मुश्किल था। उनका दूसरा नाम ही वेगारी पड़ गया। वेगार में जाने वाली खियों की इज्जत पर भी कभी कभी हमले हो जाते थे।

रसद का यह तरीका था कि छोटे से छोटा कर्मचारी भी किसी गांव में जाता तो व्यापारी व दुकानदानों को उसके डेरे पर जाकर सामान तोलना पड़ता था। वहां उन्हें अक्सर बाली गलौज्ज और कई बार मारपीट का सामना करना पड़ता था। पूरे दाम भी हमेशा नहीं मिलते थे और चीज़ भी सबाई ढ्यौढ़ी देनी पड़ती थी। इसी तरह किसानों से हल छुड़ा कर उनके ऊंट, बैल और गाड़ियां पकड़ ली जाती थीं।

वेगार की जांच के सिलसिले में राजस्थान की चार बुराइयाँ और सामने आयीं। एक तो लागतों की। ये वे कर हैं जो लगान के अलावा किसानों और प्रजाजनों को राज्य या खास कर जागीर में देने पड़ते हैं। कही २ इन्हें लाग वाग के नाम से भी पुकारा जाता है। इनकी जड़ भी प्रजा की बड़ी भावुकता या राजमकि है जिसके अधीन वेगार प्रथा जारी हुई। प्रजा ने राजा को उसकी आवश्यकता की चीज़ें सौगात क तौर पर दैना शुरू किया और राजा ने उसे नियमित रूप दे दिया। फिर राजा की देखादेख उसके नौकर भी वे ही चीज़ें भेट स्वरूप लेने लगे। आगे चल कर चीज़ के बजाय उसका मूल्य बसूल होने लगा और इनकारी या मजबूरी की सूत में बल प्रयोग किया जाने लगा। इन लाग-

वागों में से कुछ तो बड़ी अजीब थीं। विजौलिया में चुड़पड़ी नाम की एक लागत थी। उसका क्रिस्ता बताया जाता है कि एक बार रावली शिकार के लिये गये तो उनकी घोड़ी किसी गांव के पास थक कर गिर पड़ी और मर गई। आमवासियों को यह गवारा न हुआ और उन्होंने एक अच्छी घोड़ी रावली को भेट कर दी। वस फिर तो वह हर साल और हर गांव से ली जाने वाली लागत बन गई। इसी तरह वेगूं के रावली की हीजड़ों पर कृपा हुई तो उनके लिये ठिकाने से एक सालाना रकम बंध गई। हीजड़े हीशियार थे। उन्होंने 'अननदाता' से अर्ज करके उसे हर गाँव से वसूल होने वाली वार्षिक लागत के रूप में तब्दील करवा लिया। विजौलिया में क्रीव ६४ लागतें ली जाती थीं। कहीं कहीं इनकी संख्या ८० तक पहुँचती थी। हिसाब लगाने पर पता चला था कि विजौलिया के किसान को लगान और लागतें चुकाने के बाद जमीन की पैदावार में से सिंक १३ की सदी के क्रीव बचता था। यदि वह पशुओं का दी बेच कर घोड़ी आमदनी न कर लेता तो उस का गोज का गुजर भी होना कठिन था। इससे अन्दाज किया जा सकता है कि राजस्थान में निरंकुश शासन प्रदा का किस बेदर्दी के साथ शोपण करता था। इसलिये वेगार के साथ साथ लागवाग का भी जतवा ने सख्त विरोध किया और अनेक रियासतों में लागतों की संख्या और सख्ती दोनों में कमी हुई।

‘तीसरी’ बड़ी बुराई दासप्रथा की थी। यह सभी राजपूत

राष्ट्रों व जागीरों में पाई जाती थी और पाई जाती है। इसका स्वरूप यह है कि हर राजा और जागीरदार के यहां हैसियत के अनुपार एक संख्या ऐसे स्त्री-पुरुषों की होती है, जिन्हें रावणा, दरोगा, चेले, चाकर या माणस कहते हैं। ये लोग सचमुच गुलाम होते हैं। ये मालिक के पुश्तैनी नौकर होते हैं। उन्हें नौकरी छोड़ कर जाने का हक्क नहीं होता और जो भाग जाते हैं उन्हें रियासत में राजा या जागीरदार के असर से और बाहर चोरी बर्तैरा इलजाम लगा कर पकड़वा लिया जाता है। फिर मालिक उसे हर तरह सताकर कसा निकालता है। खाने को बेचारों को घटिया अनाज और मालिक की जूठन दी जाती है और पहनने को उतरे हुवे कपड़े। स्वामी के घर कोई शादी व्याह होता है तो दास शासियाँ देंगे जिनमें दी और ली जाती हैं। नाम को इनकी शादियाँ आपस में करदी जाती हैं मगर उनके शरीर का स्वामी जागीरदार या राजा ही होता है। सामंतशाही के पड़यंत्र, हत्या और दूसरे दुरे से दुरे काम इन लोगों से कराये जाते हैं। इन लोगों को रक्खा ही इस ढंग से जाता है और शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि उनमें मनुष्योचित गतानियाँ बहुत कम बाकी रहती हैं। वृटिश सरकार से यह सब किया नहीं था। फिर भी उसका यह दावा रहा कि उसके साम्राज्य ने संसार से गुलामी की प्रथा मिटा देने के लिये कुर्बानियाँ की हैं। परन्तु भागत में इसी वृटिश साम्राज्य के अंतर्गत और अंग्रेज अधिकारियों की नाक के नीचे यह प्रथा जीती

‘बागती मौजूद रही। इसी तरह राष्ट्र संघ में वृष्टिश प्रतिर्निधयोंको मानना तो पड़ा कि हिन्दुस्तान में दासत्व और उससे मिलती जुलती बेगार आदि प्रथायें विद्यमान हैं, लेकिन उन्होंने यह भी चहाना किया कि इन्हें मिटाने के लिये द्रवाव ढाला जा रहा है। किन्तु इस वचन के बाद भी राजस्थान में कई लाख ग्री-पुरुष दास प्रथा का अविशाप भुगत रहे हैं। जोगे भी क्यों नहीं, जब राजपूताना के १० ली० ली० स० टॉमस हालैंड जैसे जानकार और बड़े अफसर तक हिन्दुस्तान छोड़ने से पहले बेगार प्रथा की तारीक कर रखे हों।

बेगार की तरह राजपूतों के अलावा दूसरे राजवर्गी लोगों में दास दासियाँ रखने के प्रथा किसी हद तक मौजूद है। ऐद है कि दास प्रथा के उन्मूलन या उमकी भीषणता में बहुत बड़ी कमी करवाने में तो राजस्थान सेवा संघ का आनंदोलन सफल नहीं हुआ क्योंकि इसके शिकार बहुत ही निःसत्त्व हो चुके थे। लेकिन अवकार में फलने फूलने वाली यह गंदगी प्रकाश में काङी आई। इससे पीड़ित समुदाय के कई व्यक्तियों में मानवनौ व की भावना जागृत हुई और उसकी रक्षा के लिये कुछ भीतरी प्रयत्न भी हुये।

चौथी बुराई साहूकारी प्रथा को देखी गई। असल में तो इसका नाम ‘वैईमाना’ प्रथा होनी चाहिये या क्योंकि जिस समय का जिक्र है उस समय सहयोग की मूल भावना लेने देन के व्यवहार में तो प्रायः नष्ट हो चुकी थी और केवल हृदय-

हीन शोपण वाकी रह गया था। मैंने इस प्रथा का परिणाम आंखों देखा है और मुझे कई बार लज्जा अनुभव हुई है कि मैंने एक ऐसे समुदाय और परिवार में जन्म लिया जो इस शोपण का गुनहगार है। इसमें साहूकार या बोहरा घुरियों या असामियों की दण्डिता, अज्ञान और विवशता का लाभ ढांकर बैरेमानी और जालसाजी से उनका खून चूस लेने में भी नहीं हिचकिचाता। मुझे इस बात का संतोष है कि राजस्थान सेवा संघ ने अपने आन्दोलन में इस शोपण का कल कर विरोध विया और मुझे उसमें भाग लेकर थोड़ा प्रायश्चित्त करने का मौका मिला। संघ के आन्दोलन के फलस्वरूप साहूकारों की भर्यकर सूदखोरी, भूठे हिसाब वनाना, गलत रसीदे देना, सस्ता लेना और महंगा देना आदि अनेक खरावियां सामने आई और शोपितवर्ग में अपने अधिकार और कर्तव्य की भावना जागृत हुई। कई जगह बेमियाद कर्जे छोड़ दिये गये या बहुत कम कर दिये गये, द्याज की दरें घटा दी गई और ऐसी पावंडी लगा दी गई जिससे साहूकार अनुचित लाभ न ढांके।

एक और बुराई छोटे राजपूतों या भोजियों कन्या-वध की थी। यह प्रथा सब जगह तो नहीं थी, पर थी वड़ी अमानुपिक। इसका जोर जयपुर के शेखावाटी इलाके में और मेवाड़ में अधिक था। दहेज की कुरीति और जाति के भूंठे वर्षंड ने मनुष्यों को इतना हृदयहीन बना दिया कि वे जन्मते ही अपनी

सुकुमार वालिकाओं का गला घोट देते। इस बारे में प्रकाशन के सिवा कोई खास नतीजा निकला नहीं मालूम होता।

जिस समय सेवा संघ के ये तरह तरह के आन्दोलन चल रहे थे, सेठीजी मध्यप्रांत और भारतके दूसरे प्रांतों में यश प्राप्त करके अजमेर लौट आये थे। उस वक्त वे ही प्रान्त के प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे। उनका प्रभाव इतना था कि एक समय उनकी खाड़ी की टोपी ११००) रुपये में नीलाम हुई और जब उन्हें मध्यप्रांत की सरकार के बारंट पर गिरफ्तार करके सिवनी में ले जाया जा रहा था तो जनता रेल पर उलट पढ़ी और बड़ी दूर तक गाड़ी को न चलने दिया। आखिर सेठीजी और नार्गवजी के समझाने पर भीड़ हटी।

एक घटना और हुई। पर्याकर्जी के हाथों में उस पत्र की नकल आ गई जो राजपूताना के ए० जी० जी० हालैण्ड साहब ने महाराणा कत्सिंजी को लिखा था। उसमें उस स्वाभिमानी शासक से गदी छोड़ने की साफ़ तौर पर माँग की गई थी और मेवाड़ के जन आन्दोलन की व्यापकता और उग्रता पर ध्यय प्रकट करते हुए और उससे पढ़ोस के ब्रिटिश भारतीय व रियासती इलाकों पर पड़ने वाले खतरनाक असर का जिक्र करते हुए यह सुझाया गया था कि महाराणा काफी दमन नहीं कर सके। अंग्रेजों की इस कुचेष्टा को विफल करने की गण्ड-से संघ ने इस विषय में मेवाड़ के लोकमत को जागृत करने का निश्चय किया। मुझे मेवाड़ में दौरे के लिये भेजा गया। मैंने भीलबाड़ा,

हमीरगढ़, छोटी साढ़ड़ी, बड़ी साढ़ड़ी और चित्तौड़ में सार्व-जनिक समाचारों में मापण दिये और महागणा व ब्रिटिश सरकार ने अखबारों को तार दिलवाये। इन संदेशों और प्रस्तावों में कह गया था कि जनता को कष्ट जरूर हैं, वह उनका निवारण भी चाहती है और जरूरत के माफिक वह अपने गजा से घर में लड़ नी लेगी, लेकिन वह विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहती और उसके द्वारा महागणा का अपमान होना सहन न करेगा। थोड़े ही दिन बाद समाचार पत्रों में शिमले की एक चार लकीर की प्रेरित खबर निकली कि बुढ़ापे के कारण महागणा ने युवराज को शासन के विस्तृत अधिकार सौंप दिये हैं! मैं दौरा करते हुए उदयपुर भी न पहुंच पाया था कि पथिकजी का तार पाकर अजमेर लौट आया। संवं को संतोप हुआ कि उसके विनीत प्रयत्न एक हद तक सफल हुए। फिर तो हालैण्ड साहब का वह पत्र पथिकजी के मुक़द्दमे की कार्यवाही में पूरा प्रकाशित हुआ और समाचार जगत् में एक सनसनी का कारण बना। अगस्त सन् १९२६ में जब मैं अजमेर लौटा तो सेठीजी सिवनी जेल से रिहा होकर आये ही थे। स्व० विद्वलभाड़ पटेल काँग्रेस-जनों के कुछ आपसी झगड़ों की जाँच के लिये आये हुए थे। आखिर में वे काँग्रेस का सब काम सेठीजी के सुरुद्द कर चले गये।

सितम्बर में वर्धों से मेरी गिरफ्तारी का वारंट आया। बात यह थी कि उस वक्त तक मैं ही 'राजस्थान के सरी' का प्रकाशक था। उसमें पुलिस की ज्यादतियों के बारे में एक संवाद छपा

था। उसी के आधार पर एक थानेदार ने मुंक पर और संपादक सत्यदेवजी पर मानहानि का दावा कर दिया।

इसी अवसर पर श्री० शंकरलालजी वर्मा और मुकुट विहारी जी से प्रथम परिचय हुआ। दोनों हाँ खरे और काम चाहने वाले आदमी प्रतीत हुए। मुकुटमे में हम दोनों को तान तीन महीने की साढ़ी सज्जा हुई। जेलर की मित्रता और सुपर्फिटेंडेंट की अद्वा के संयोग से हमें आराम और आज्ञादो तो गैर मामूली मिली, लेकिन जेल की इस पहली यात्रा में ही अप्रेजी राज्य की अमानुपी व्यवस्था की मुहर लग गई। जेल के निर्देश व्यवहार, अनाचार और विश्वत, आदि बुराइया आंखों देखीं और कानों सुनीं। लेकिन अधिकारियों की कृपा से हम तीन दिन पहले छोड़ दिये गये और मैं ठीक बृक्ष पर अहमदावाद की ऐतिहासिक कांग्रेस में शरीक हो सका।

वहाँ अजीव जोश था। कांग्रेस नगर की रचना भी अनोखी थी। वांस की टट्टा के कमरे और साढ़ी का मंडप था। कुसियों के बजाय गहीं तकियों और कर्ण की बैठक थी। हिन्दुस्तानी भाषा की पूछ हो गई थी। प्रतिनिधियों के ठहरने का प्रबन्ध भी उतना ही सीधा सादा था। पाखाना, पेशाव के लिए खाइयाँ खुदी थीं। साढ़ी की प्रदर्शनी लगी हुई थी। यह सब बातें नई थीं और गांधा युग के आगमन की सूचना दे रही थीं। मनोनीत राष्ट्रपति देशबन्धु दास गिरफ्तार हो चुके थे और हिन्दू मुस्लिम एकता के पुलारी व शरारूत के पुनले हकीम अजमलखाँ साहब सदारत कर रहे थे। मौलाना हसरत मोहानी

ने मुकम्मल आज्ञादी की तज्ज्वीज पेश की थी और हमारे स्वामी कुमारानन्दजी ने उनकी तर्डिंद की थी। देश में शराब और विदेशी कपड़े के खिलाफ धरने का कार्यक्रम जारी था। ऐसा मालूम होता था कि अंग्रेजी गव्य मिटा चाहता है।

इन स्फूर्तिदायक अनुभवों के साथ कुछत्तास व्यक्तियों का सुखद परिचय भी हुआ। पुगने मित्र घोटेलालजी जैन से खादी प्रदर्शनी में मुलाङ्कात हुई। उन्हीं के द्वारा सावरमतीआश्रम देखा और स्वर्गीय मगनलालजी गांधी के दर्शन किये। सब श्री० सुन्दरसम्पत्तिरायजी रंडारी, नित्यानन्दजी नागर, हरिमाऊजी उपाध्याय, त्रिस्वक दामोदर पुस्तके और गुलावरायजी नेमाणी से परिचय हुआ। नेमाणीजी कुछ ही समय पहले खेतड़ी ठिकाने में गिरफ्तार होकर छूटे थे। नई लम्ब और देश प्रेम के भाव तो पहले से ही थे, इस आग में तप कर बढ़ और भी निखर गये थे। पर्याकर्जी उन्हें राजस्थान के भन चाहे नेता नजर आये। वे एक अच्छी थैली भेट कर गये। मुझे तो बाद में भी उनकी सालता, उदारता और सेवा भाव का परिचय मिलता रहा। इस अवसर पर इन्दौर की छही लागीर के घोड़े से किंसान भी आए थे। उनके अनुरोध से वहाँ के भीलों के कष्टनिवारण में सहायता देने का संब ने वधन दिया और महाराजा तुसीजीराव से लिखा पढ़ी करके उन्हें कुछ राहत दिलवाई।

'राजस्थान के मरी' वर्दी में था। उसकी नीति जी देशी राष्ट्रों की अपेक्षा कांग्रेस प्रवान हो चली थी। इधर राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में प्राण आ रहे थे और संघ के नेतृत्व में

रियासती लनता का आंदोलन ज्ञोर, पकड़ता जारहा था। इसलिए संघ को एक मुख्य पत्र की ज़रूरत महसूस हुई। अहमदादांचाड़ कांप्रेस से लौटते ही 'नवीन राजस्थान' नाम का साप्ताहिक निकाल दिया गया। उस वक्त संघ माली मोहल्ले में बखरीजी की कोटी में आ चुका था। पत्र का पहला ही अंक निकला था कि मेवाड़ की वसी, पारसोली, धांगणमौ, बोराव और लीम्बड़ी आदि जागीरों में प्रजा के असंतोष और जागीरदारों के दमत की आग भड़क उठने के समाचार आने लगे और कार्यकर्त्ताओं की मांग बढ़ने लगी। श्री० माणिक्यलालजी तो स्थिति सम्हाल ही रहे थे, पथिकजी ने मुझे भी भेजना ज़रूरी समझा। मेरे खाना होने से पहले मेवाड़ राज्य में पथिकजी के प्रवेशनियेध का हुक्म जारी हो गया था और ब्रह्मचारी हरिजी को श्री० नंदलाल वैद्य नामक युवक और सौ किसानों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। हरिजी को अदालत में हाजिर किये विना ही दो साल की कड़ी कैद की सज़ा दे दी गई।

— न्हीं दिनों सिरोही के सम्बन्ध में एक घटना हुई। वहाँ के महारावल स्वरूप रामपिंडी का एक फ़कीर की सोहवत से इस्लाम की तरफ़ झुकाव हो गया। फ़कीर चालाक आदमी था। उसने राजा पर इतरा प्रभाव लगा लिया कि शासन में दखल देने लगा और काफी सम्पत्ति बना ली। बाद में कोई विस्फोट हुआ और फ़कीर का माल हथियाने के सिलसिले में अजमेरके एक पुलिस इन्सपैक्टर को लम्बी सज़ा काटनी पड़ी।

जब मैं मेवाड़ पहुंचा और आन्दोलन के लेत्रों में गया तो जनता जोश में और शोषक वर्ग उसे दवा देने में अच्छे हो रहे थे। खुद मुझे अपने में भी असाधारण शक्ति महसूस हुई। कमज़ोर शनीर हाने पर भी २० मील रोक लंगलों और पहाड़ों में पैदल चलने में अकान न होती। हज़ारों नर नारियों का सदियों की पीड़ा और निद्रा से उठना बड़ा मोहक हृश्य था। जिस सौन्दर्यमयी द्यामयी प्रकृति की गोद में ये भोले जाले प्राणी बसते थे उसमें विचरण करना अच्छा लगता था। उनके विशाल समूहों में बोलते हुए ऐसा जान पड़ता था कि समुद्र की लहरों पर तैर रहा हूं। निराशा से मुर्झाये हुए असंख्य चेहरों पर आशा की मलक देख कर संतोष होता था कि अपने हाथ से सचमुच कुछ सेवा हो रही है। इस आन्दोलन का असह-योग के राष्ट्रीय संप्राम से सीधा सम्बन्ध न होने पर भी उसका व्यापक और प्रबल अधर तो था ही। स्त्रियों की जाग्रति, कुरीति निवारण, मध्य निषेध, विलायती कपड़ों की होली और खादी व शिक्षा का प्रचार आदि राष्ट्रीय कार्यक्रम के सभी अंग अपना लिये गये थे। हसीं राज्यकार्यालय की प्रेरणा भी थोड़ी बहुत काम कर रही थी। जब किसानों को यह कहा जाता कि एक महान देश में गरीबों के ही हाथों में राजसत्ता की सारी वागड़ोर आर्गई है तो उनकी आँखों में अद्भुत उत्सुकता दिखाई देती और वे सहसा पूछ बैठते, “क्या अपने यहां ऐसा नहीं हो सकता?” इस आन्दोलन ने हुआळूत के रोग को भी काफ़ी

घका पहुँचाया। ऐसे सुखद प्रसंग भी देखने में आये कि जिन हरिजनों को पास नहीं बिठाया जाता था वे पंचायतों के अध्यक्ष और समाजों के सदर बने। मन्दिरों और कुओं सम्बन्धी वंदिशों भी ढीली पड़ीं।

जनता को न दबती देख कर जागीरदारों के क्रोध की आग हृद से बाहर लाने लगी और खियों पर भी अत्याचार होने लगे। किसानों ने कँदू, जुर्माने, मारपीट और वहीं २ गोलियां तक सह ली थीं। फ़सलों का नष्ट किया जाना, जंगल से घास लकड़ी न लाने दियां जाना और पशुओं को घर से बाहर न निकलने देना आदि जुल्म उन्होंने वर्दाश्त कर लिये थे। मगर औरतों पर हाथ उठने लगा तो वे तिलामिला उठे। इस बारे में बेगूँ के हुटमझा रावड़दे के ठाकुर का व्यवहार बहुत निन्दजीय था। उसने एक मालिन को सरे बाजार अपने आदर्मियों से बस्ती बाया और एक भीलनी को ओंधी लटकवा कर पिटवाया। सेमलिया के ठाकुर ने भी बहुत उबस मचाया था। उसे तो किसानों ने पीट भी दिया। रावड़दा से भी बदला लेने पर उत्तारू हो गये। अंत में समझाने बुझाने पर यह तय हुआ कि सैकड़ों की संख्या में लोग ठाकुर के 'राबले' पर सत्याग्रह करें। जब पहुँचे तो ठाकुर बंदूक ताज कर खड़ा हो गया। उस दिन रामनिवास शर्मा नामक एक साधारण कार्यकर्ता की बहादुरी ने बाजी किसानों के हाथ रखी। वह अपहूँ सा देहाती छाती खोल कर सामने खड़ा हो गया। ठाकुर की तलवार म्यान में

ही रही और सत्याग्रही दोनों पीड़ित वहनों को छुड़ा कर विजय पताका फहराते हुए धर ले आये।

इस घटना ने किसानों के दिलों में एक गंभीर खतरे की आशंका भर दी। उन्होंने स्त्रियों के मान की रक्षा के प्रश्न पर गंभीर हो कर सोचा। आखिर सन् १६२२ की वसंत पंचमी के दिन विजौलिया में तिलसवां मुक्काम पर एक 'कॉग्रेस' हुई। कई इलाकों की पंचायतों के इकट्ठे बड़े सम्मेलन को इसी नाम से पुकारा जाता था। उसमें आन्दोलन के सभी ज़ेत्रों से, पूर्व मेवाड़ के हर हिस्से से सैकड़ों स्त्री पुरुष ग्रतिनिधि आये। आस पास के बूँदी, कोटा, जालावाड़, ग्वालियर और इन्दौर के इलाकों से भी दर्शक उपस्थित हुए। यह पहला सम्मेलन था जिसमें अलग अलग प्रदेशों के लोगों ने मिलकर विचार किया, शरीक रह कर लड़ना तय किया और जागीरदारों और राज्य को एक साक प्रस्ताव के जरिये चेतावनी दी कि स्त्रियों का अपमान किया गया तो अच्छा नहीं जहाँ निकलेगा और मजबूर होकर आत्म रक्षा का अधिकार काम में लिया जायगा। उसके बाद स्त्रियों पर सीधी ज्यादती होना चंड हो गया !

इधर ब्रिटिश सरकार मेवाड़ के इस व्यापक, तीव्र और प्रबल आंदोलन से परेशान थी। इस का असर भीतों में भी महँग गया था। जिन दिनों पूर्वी मेवाड़ में सत्याग्रह की वाह आ रही थीं उन्हीं दिनों परिचमी मेवाड़, सिरोही, पालनपुर, दांता, सूंथरामगढ़ और मारवाड़ के भोल प्रदेशों में भी असंतोष

की आग भड़क उठी। वहाँ मोतीलालजी तेजावत नामक एक साधारण पढ़े लिखे वैश्य ने राजस्थान सेवा संघ से प्रेरणा पाकर समाजसुधार, आर्थिक उद्धार और राजनैतिक जागृति का काम शुरू कर दिया था। इस सारे असंतोष का न्योत विजौलिया से शुरू हुआ था। इसलिए अंग्रेजी हुक्मत ने उदयपुर पर दबाव डालकर पहले इसी को बंद करने का कैसला किया। एक बड़ा सा क्रमचारी मंडल वहाँ पहुँच गया। सरकार की तरफ से ए० जी० जी० हालैंड साहव, उनके सेक्रेटरी ओगलवी साहव और मेवाड़ के रेजीटेंट विल्किन्सन साहव, रियासत की ओर से वावू प्रभाश चंद्र चटर्जी दीवान और प० विजौलाल जी कौशिक डाग (सावर) हाकिम, और ठिकाने के प्रतिनिधि के तौर पर कामदार हीरालालजी, कौजदार तेजसिंह जी और मास्टर जालिमसिंहबी इस मंडली में थे। किसानों को बुलाया गया तो उन्होंने राजस्थान सेवा संघ के नुमाइंदों को बुलाने पर जोर दिया। मैं उन दिनों बहीं था। संघ के मंत्री की हैसियत से मेरे नाम ए० जी० जी० के कैम्प से इस आशय का खत आया कि साहव रावजी व किसानों में समझौता कराने आए हैं। आप सहायता देने तो मैं खुश होऊँगा। सात्याग्रहियों की तरफ से मैं, माणिकयलालजी, पंचायत के सरपंच मोतीचंद्रनी और मंत्री-वे चार आदमी गए थे। विजौलिया के बाहर एक बगीचे में साहव का घेरा था। वहीं खुले मैदान में संघि परिषद की बैठक शुरू हुई।

वह हश्य विजौलिया के, शायद राजस्थान के इतिहास में अमृतपूर्व था। सारे इलाके की जनता मानों वहाँ उमड़ आई थी। सत्याग्रही विजयगर्व अनुभव कर रहे थे। परंतु उनमें मर्यादा का अनाव न था। यह आधुनिक राजस्थान की तारीख में पहला मौका था कि किसान जैसी दबी हुई जाति को सिर ऊँचा करना नसीब हुआ। लो लोग पैरों में बिठाये जाते थे उन्हीं के प्रतिनिधियों को सम्राट, महाराणा और रावजी के प्रतिनिधियों के बदावर कुर्मियाँ मिलीं, जिन 'बड़े साहबों' के दर्शन दुर्लभ होते हैं उन्हें एक दिन के बजाय आठ दिन ठहरना पड़ा और जिन आन्दोलनकारियों को भयंकर प्राणी समझ कर दूर रखने के लिए सौ जतन किये जाते हैं उनकी सहायता माँगी गई। इतना ही नहीं, उस दिन तो ऐसा दिखाई पड़ा मानों नेतृत्व राज्य सत्ता के हाथ से निकल कर जनता जनार्दन के हाथ आ गया हो। भीड़ को व्यवस्थित करने का काम ठिकाने को पुलिस के बजाय पंचायत के बूढ़े कोतवाल डेवाजी ने किया।

इस वायुमंडल में समझौते को बात चीत शुरू हुई। किसानों का शिकायत नामा पेश हुआ। हालैंड साहब एक एक मुद्दा पढ़ कर सुनते और दोनों पक्ष को ढ़लीले सुनते। छोटी मोटी लागतों बगैरा पर कोई बहस न हुई और वे मार्क करदी गईं। इस एक शब्द में वे जस सही और आत्म विश्वास के साथ फैसला देते थे उससे मालूम होता था कि उस आदमी को

अपने अधिकार का कितना भान, अपने कर्तव्य-पालन का कैसा हड्डि निश्चय और समय और स्पष्टता का कितना ख्याल था। ठिकाने के प्रतिनिधियों के द्वज अक्षम लम्बे लैकचर और बाद-बिवाद से भरे होते थे। इस पर हालैडं साहब को एक से अधिक बार कहना पड़ा—‘मुझे लंकचर नहीं चाहिये।’ उवर किसानों के पंच छोटा-सा और न ब्यत ज्ञात देते। साहब ने उनकी तारीक की और विपक्षयों को उनसे संवक्त करने का संकेत किया। मैंने पहली बार अप्रेज़ों का अनुशासन देखा और दृग रह गया। साहब ने सत्याग्रहयों के संग्रह-बल के प्रथम दर्शन किये और प्रश्नपत्र के बन गये। उधर हाँलैडं साहब बोलते और उनके दूनरे सार्वी मूर्ति की तरह बैठे देखते या उनका लिखाया लिखते। इवर मोत-चंद्रजी जवाब देते और बाकी लोग चुपचाप सुनते रहते। साहब ने अपना पाइप ललाया तो सर्पंच महोदय ने चिन्मुलगा ली। किसानों ने समर्ता का भाव प्रकट किया और साहबां ने मुस्करा कर उनकी क़द्र की। सबाल नवाब बहुत थोड़े विषयों पर हुए। किसान पक्ष के उचित होने की अधिकारियों पर छाप-पड़ चुकी थी। उन्हें व्यापक दृष्टि से राजस्थान के असंतोष की इस जड़ को मिटाना ही था। हाँ, अपनी परम्परा की नीति अनुसार ये अंग्रेज भी कौन साथ लाये थे। अलवत्ता उसे दस माल दूर माँडलगढ़ में रखा था। किसानों को आश्र्य तो हुआ और उन्होंने फ़तहसिंह को आदर सहित याद किया कि उस वूँडे

भारतीय ने निरंकुश शासक होकर भी पेट के लिए लड़ने वालों पर कभी सैनिक चढ़ाई नहीं की। फिर भी वे भयमीत न हुए और समझौते की बातचीत खूब आत्म सम्मान के साथ हुई। अंत में वेगार का प्रश्न आया। मैं और हॉलैण्ड साहब पास ही आमने सामने बैठे थे। साहब बोले, 'There is the rub, Mr. Choudhri' बड़ी बाटी तो यह है। मैंने यह कह कर उनको तखल्ली दी कि न्याय और सद्भावना के सहारे इसे भी पार किया जा सकता है। उन्होंने एक मसौदा बनाया और पंचों को दिया। वह नामजूर होकर लौट आया। साहब ने मेरी राय मांगी। उनका प्रस्ताव इस आशय का था, 'किसान अपना यह फर्ज स्वीकार करते हैं कि जब कोई राजकर्मचारी उनके गाँव में आयेगा तो वे उचित कीमत पर उसे सवारी, मजदूरी और सामान जुटा देंगे।' मैंने 'कर्ज' की जगह 'सामाजिक धर्म' रखा, 'राजकर्मचारी' शब्द उड़ा दिया, 'जुटा देंगे' के स्थान पर 'जुटाने की भरसक कोशिश करेंगे' और वाक्य के आखीर में यह अंश जोड़ दिया कि 'कीमत का निणेय सर पंच करेगा और जबरदस्ती किसी हालत में न की जायगी।' किसानों ने अपनी सद्भावना के प्रमाणस्वरूप इसना और बढ़ा दिया कि 'महाराणा साहब व रावर्जी की सेवा का कोई मूल्य नहीं लिया जायगा।' साहब बोले—'जाहिरा ढांचे को बहुत न छेड़ कर भी आपने तो भीतर से मेरी तजवीज की काया ही पलट दी।' किसानों को संबोधन करके उन्होंने कहा, 'मेरे लिए तो

आपने जगह ही नहीं रखी'। इसमें विनोद भी था और गांभीर्ये भी, परन्तु किसानों का अभिप्राय स्पष्ट था। सब कुछ होने पर भी अपने राजा के लिए उनके दिल में जो कोमल भाव था वह स्थान एक विदेशी नौकरशाह को वे कैसे दे सकते थे? हॉलैंड साहब की आलोचना ठीक थी। मेरे संशोधन ने प्रस्ताव को व्यापक बनाते हुए भी उसे विलक्षण स्वेच्छामूलक कर डाला था, सरकार द्वारा मनोनीति पटेज की हस्ती मिटाकर चुनी हुई पंचायत को आसन पर वित्त दिया था और एक तरह से पंचायत की सत्ता पर सरकारी स्वीकृति की मुद्रा लगादी थी। इतना होने पर भी वेगार के खिलाफ सार्वजनिक असंतोष की तीव्रता को देखते हुए साहब को शक था कि किसानों को वह शायद मंजूर न होगा। उन्होंने मुझे अपनी आशंका बताई भी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरी तजबीज को उयों की त्यों मान लिया गया तो किसान रज्जामन्द हो जायेंगे। साहब ने अपनी मंजूरी की घोषणा की। किसानों ने स्वीकृति दी और लन्ता ने 'चंदेमातरम्' के गगनभेदी नारे के साथ उसका समर्थन किया। मुझे यह जान कर संतोष हुआ कि सरकार, रियासत, ठिकाना और लन्ता सबके प्रतिनिधियों को समझौते की शर्त पसंद आई।

विजौलिया का सत्याग्रह इस तरह शानदार जीत के साथ खत्म हुआ। जिन २ क्षेत्रों में आन्दोलन चल रहे थे सभी की पीड़ित प्रजा को काफी प्रोत्साहित और प्रत्यक्ष लाभ मिला।

जागीरदारों ने हर जगह किसानों की मांगे योड़ी या बहुत संचर कर लीं। इन अन्नदात्रों के साथी जीवन में सुख की सांस लेने की आशा वंधी और सत्ताधारियों में दृप्ति की व्यर्थता का खयाल पैदा हुआ। मगर ब्रिटिश सरकार तो दूसरे ही मसाले की बनी हुई थी। उसने दूसरी जगहों पर जोर आज्ञाने का निश्चय किया। इसके लिए बेगूँ को चुना गया। मगर इसका चिक्क तो आगे कहा गया। यहाँ इतना ही कहना है कि अब संघ ने विजौलिया की जागृति का उपयोग जनता की शक्ति को स्थाई और दृढ़ बनाने में करने का निश्चय किया। रचनात्मक कार्यक्रम बनाया गया। उसके अनुसार शिक्षा प्रचार, अचूतपन मिटाना, नशा नियेव और ग्रामरक्षा बगैरह कई तरह की प्रवृत्तियाँ जारी की गईं। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए मुझे मुक्करर किया गया। अब यह ही माणिक्यलाल जी तो हर काम में हर जगह रहते ही थे। सच तो यह है कि जयपुर हो या सिरोही, तूंदी हो या मेवाड़, जहाँ भी दैहाती जनता के सीधे संगठन का काम होता वही पर्याकर्ता नेता और माणिक्यलाल जी कार्यकर्ता होते थे। दूसरे शब्दों में, रियासती जाग्रति के प्रारंभिक यज्ञ में इन दो आदामयों ने जो कारगुजारी दिखाई वह सोने के हरकों में लिखे जाने योग्य है। विजौलिया के इस रचनात्मक काल में मेरे निकेट के सहायक साधु सीताराम दास जी थे। हमने मेवाड़ी भाषा में एक हाथ का लिखा सापाहिक पत्र भी निकाला, जिसका नाम 'ऊपर भाल को ढंको' रखा

गया। उम्र की हर चोट की गूँज सभी सत्यप्रही ज्ञेत्रों में होने लगी।

अंजनादेवी भी इस काम में मेरे साथ थी। इस वेपड़ी लिखीं मशिला ने शुरू से ही मेरे देह के दुर्गम मंग को मुगम बनाने में सबी सहवर्मिणी का कर्तव्य निराया। मुझे याद है जब १६१७ में उसे युवा अवस्था में बम्बई जैसे दूरस्थान पर तालीम के लिये अकेली को भेजा गया तो उसने खुशी से मंजूर किया। जब १६१८ में श्रीमती जानकी बड़ुन ने पर्दा छोड़ने में जल्दी न करने की सलाह दी तो भी उसने साइस के साथ कहा—पंथी समाज का विरोध सहन किया। इसी तरह राजस्थान सेवा संघ में शारीक होने पर जब दरिद्रता का ब्रत लिया गया तो उसने निःसंकोच होकर अपने जेवर पिताजी को भेट कर दिये और फिर कभी वस्त्राभूषणों की लालसा प्रगट नहीं की। लेकिन कमज़ोर स्वास्थ्य होते हुए भी उसने जिस सहनशीलता, वशदुर्धी और त्याग के साथ मेरे सेवावृ के सेवा कार्य में हाथ बंटाया उस पर किसी भी देश—प्रेसी पति को नार्व हो सकता है। मेवाड़ और वूंदी दोनों राज्यों में अंजना देवी ने स्त्रियों में प्रचार का काम किया। पुरेस्त्वार स्वरूप जहाजपुर ज़िले में वे गिरफ्तार हुईं और वूंदी राज्य से कई चर्प तक निर्वासित रहीं।

इस बीच में ब्रह्मचारी हरिजी उदयपुर की सेंट्रल जेल में रख दिये गये थे। वहाँ से उन्होंने जो समाचार प्रकाशित कर-

बाये उनसे रियासती कँदूजानों की रोमाँचकारी व्यादातियों स प्रान्तीय बायुमण्डल गूँज उठा । खास कर 'गंगारामा' को करामात पर बड़ी उत्तेजना फैली । यह एक हाथ का जूता या लो चीं चपड़ करने वाले कँदियों को टीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ।

इधर विजौलिया के सम्बन्ध में बुछु मोटी बत्तें तथ होना रह गई 'धी' और इस काम को पूरा करने के लिए दीवान प्रभाशचन्द्रजी अजमेर आये हुए थे । पर्याकर्जी के बुलावे पर मार्च १९२२ में मैं भी आ पहुंचा ।

इसी बीच में भीलों का मामला बहुत गम्भीर हो चुका था । पं० रमाकांत मालवीय सिरोही के दीवान थे । तेजावत जी के बुलावे और मालवीयजी के सदृभाव के साथ पर्याकर्जी भील ज़ेत्र में हो आये थे । वहाँ उनका फौजी और शाही ढंग से स्वागत हुआ । लेकिन उनके लौट आने के बाद स्थिति विगड़ गई । रियासतें बुछु असली चीज़ देन नहीं चाहती थीं । राजपूताना एजेंसी का रुख कहा था । भील भूखे और बङ्के हुए थे । कार्यकर्त्ता थोड़े थे । नेताओं का निकट सम्पर्क नहीं था । हालत न संभलने पायी । सिरोही में दो तीन जगह गोतियाँ चल गईं । माणिकयलाल जी तो भीलों के आश्वासन और मार्ग दर्शन के लिए पहले ही भेज दिये गये थे । अब मुझे और सत्यमक्त जी को जांच और राहत कार्य के लिए नियुक्त किया गया । इस अवसर पर राजपूताना की अंग्रेज एजेंसी ने बड़ी

चेरहमी और भूठ से काम लिया । एक तरफ उसके अक्सरों की मात्रहतों में सेना ने चृशंस अत्याचार किये तो दूसरी तरफ कष्ट निवारण के काम की भी मनाई करदी गई । दलील यह दी गई कि यह काम रियासत की तरफ से हो रहा है और कष्ट पीड़ित जनता वाहर वालों की मदद नहीं चाहती । इसके बिल्द, हमारे पास तारों, पत्रों और सन्देशवाहकों के द्वारा सहायता की मांग आरही थी । इसलिए हम दोनों पिंडवाड़ा स्टेशन पर उतर कर वहाँ के सहित स्टेशन मास्टर की मदद से रातों रात मार्गाक्यलाल जी के पास पहुंच गये । सलाह मशिवरे के बाद सुबह होते ही दो मार्ग दर्शकों को साथ ले उन स्थानों पर पहुंचे जहाँ कौज़ी काईवाई की गई थी । इस हत्याकांड का कोप भूला और वालोंलिया नामक दो गाँवों पर खास तौर पर हुआ था । पचासों सौल मरीनगत के शिकार हुए थे, सैकड़ों घर जला कर खाक कर दिये गये थे और दरिद्रता के साक्षात् अवतारों का जुद अन्न भंडार या तो लूट लिया गया था या आग के हवाले कर दिया गया था । हम लोग हत्याकांड के चौथे पाँचवें दिन मौके पर पहुंचे थे, मगर अनाज की कोठियाँ अभी तक लल रही थीं ।

भील ग्रासियों क़क्सूर भी यही था कि उन्होंने शराब छोड़ दी थी और राज्य व साहूकारों के अत्याचारों से राहत पाने की कोशिश की थी । उनकी मुख्य मांग इतनों सी थी कि बड़ा हुआ लगान घटाकर पहले की तरह हल्का कर दिया जाय,

देंतोर और लाग थान बल्क कही लायं और बोहगों के कुर्जे से राहत ही लाय। हम दोनों शास तक कोई बीस, मील घृण में मुख प्यासे तपते हुए पदार्थों में भटके होंगे, परन्तु हमें यह कष्ट कुछ भी नहीं अखरा, क्योंकि हमें यह सन्तोष या कि हम अपने पीड़ित और निःसहाय माइयों को कुछ आश्वासन हे सकेंगे और हन पर गुजरे हुए लुलों को हुनर्यां पर प्रकट करके भविष्य के लिए उनकी कुछ रोक कर सकेंगे। आतंक तो काफी द्याया हुआ था। फिर भी क्यों पुनर्प हमसे मिले और हम काफी सामर्पी छब्बी करने में सफल हुए। आधी यह तक हमने पीड़ितों के बयान लिये और फिर बादियां व बकरी का दूध लाकर रोहड़ा रेस्तन पर आ सेये। दूसरे दिन अबमेह पहुंचे। लब हमारा बधान अखबारों में निकला तो नौकरशाही और चाकशाही के कान खड़े होनये। उन्हें गुस्सा भी आया और ताढ़नुब भी हुआ कि उनके कड़े धेरों को भेद कर हम चटनास्तन पर कैसे पहुंच गये और उस आवंकर्ण बातावरण में भी उनकी दृष्टि से खटरनाक सामर्पी लुटा लाये। लब हमारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो सरकार और स्थानीय भी निजाई।

सेवा संघ ने एक अन्न का अन्नदात्ययोग किया। भारतीय बिधान के अनुसार नियापत्ति जामलों की चर्चा वहां की धारा समाजों में तो ही नहीं लकड़ी थी, इस कारण हमारे आन्दोलन के लाभ की दृष्टि से ये संस्थाएं बेकार थीं। मगर बृहिंश पालिं खानेद के हिए क्रोई ऐसी मध्यादा नहीं थी। हमने वहां की एक

महिला सेविका वहन एनी हड्डियन की मार्फत कुछ मज़दूर सदस्यों से सम्बंध लोड़ लिया था। हमारा प्रचार विभाग तो तगड़ा था ही। हमारा हर महत्व पूर्ण पर्चा या वयान उनके पास जाता था। विशेष घटनाओं और विषयों पर हम विशेष विवरण भी भेजते थे। उनके आधार पर समय समय पर पालिंयामेट में प्रश्न पूछे जाते थे। इस काम में पिछले भारत मंत्री मिठो प्रेथिक लारेंस हमारे खास सहायक थे। उन प्रश्नों पर भारतीय सरकार और सम्बन्धित रियासतों से ज़िबाद तलब होता और उसका नैतिक लाभ प्रजा को मिल जाता था। हमारे प्रचार विभाग की सूची में भारत के अंग्रेजी व देशी भाषाओं के सभी पत्रों के सिवाय कई ब्रिटिश, अमरीकन और दूसरे विदेशी अखबार भी थे। उनमें भी कई बार सम्बाद और टिप्पणियां निकलती थीं।

भीलों का किसान खत्म हुआ ही था कि वूंदी के बरड़ इलाके से समाचार आए कि वहाँ की सेना ने किसानों और उनकी स्त्रियों तक पर हमला कर दिया है। नानक नामक एक भील मारा गया। कुछ गोलियों के घायल अजमेर भी पहुँचे। अजमेर की सरकारी संस्थाओं का बातावरण कितना दूषित है, इसका पता हमें उस अवसर पर मिला जब वूंदी के घायलों को विकटोरिया अस्पताल से डाकटरी सर्टीफिकेट भी आसानी से नहीं मिला। इस बार मैं और सत्यमङ्गली मौके पर भेजे गए बरड़ की जनता से हमारा परिचय तो था ही। बिजौलिया से

लगे हुये बूँदी के इस बीड़ि इलाके में हम कई बार जा चुके थे, हरिली बड़ी कठोर तपत्या की स्थिति में काम कर चुके थे और पूँछ नयनगमनी बड़ी से गिरफ्तार होकर बूँदी जेल में पहुंच चुके थे। हम जांच के लिए पहुंचे तो वातावरण बड़ा कुछ था। राज्य की उड़सवार सेना ने सत्याग्रहिणी स्त्रियों पर घोड़े दौड़ा कर और भाले चला कर पाश्विक हमले किये थे। किसी की अँख पर चोट आई थीं, किसी का हाथ तोड़ दिया गया था तो किसी का सर फोड़ दिया गया था। इन बड़ादुर बहनों ने अपने मर्दों का साथ देकर बेगार, लाग बाग और लगान की ज्यादती का विशेष किया था। रिश्वत बूँदी का सबसे बड़ा अनिश्चाप था। ऊपर से नीचे तक प्रावः सरी राज—कर्मचारी जनता को खुले हाथों लूटते थे। वरद की प्रजा ने इसकी भी खुर्लं मुख्तालफत की थी। अस्तु, हमारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रजा की कुछ शिकायतें दूर हुईं। हमारा गियासत में प्रवेश बन्द कर दिया गया।

विजौलिया सत्याग्रह की जीत ने आस पास के इलाकों पर काफी असर डाला। काम करने की अनुकूलता सरी लगड़ बड़ी। चोर डाढ़ ओं तक पर प्रभाव हुआ। उद्धाहरणार्थ, एक दिन एक सुनार ने आप बीती सुनाई। वह सिंगोलो (व्वालिय) से विजौलिया आ रहा था। रस्ते में पड़ा चढ़ते समय डाकुओं ने आ घेग। सुनार होशियार और सत्याग्रही दल का आइमी था। देखते ही उसने डाकुओं से 'बन्देसात द' के साथ अनिवार्य किया। डाकू उसे छोड़ कर भाग गये।

इसी घाटी को उत्तर पूर्व में पार करके धांगणमऊ बोराव का इलाक्का है। यह मेवाड़ के भू० पू० दीवान मेहता बलबन्तमिंहजी की जागीर में था। मेहता खानदान का उद्यपुर के राजनीतिक हृल्कों में बहुत प्रभाव रहा है। इस कारण धांगणमऊ बोराव के किसानों की और भी निःसदाय अवस्था थी। १८२२ की वर्षा क्षति में मुझे वहाँ काम देलने लाना पड़ा। मेरे साथ साथ सीतारा भद्राव भी और त्व० प्रेमचन्द्रजी भील भी थे। प्रेमचन्द्रजी देवें बागीर के सांगा की बड़ी नामक गांवड़े में पैदा हुए थे। सन्वत् १८४३ के अकाल में वे अनाथ होकर अजमेर के द्यानन्द अनाथालय में पहुँचे। वहाँ से लाला लाजपतरायजी उन्हें लाहौर ले गये। वहाँ उनका पालन और शिशुण हुआ। वे हिन्दी, उर्दू, संगीत और बड़ैगिरी जानते थे। ज्ञिता भी कर लेते थे। मेवाड़ी भाषा में उनके गीतों ने भ्राम लागृति का खूब काम किया। उनकी रचनाओं में माणिक्यलालजी का मा कवित्व या। ‘पंद्रीड़ा’ वैसा ओज तो नहीं था, मगर वे ज्यादा सरल और चलते हुए होते थे। मेरा उनका परिचय सन् १८२१ में हुआ। तब से वे बराबर देश सेवा का काम करते रहे और इसी को करते करते वे सन् १८३६ में मरे। वे बड़े सरल, नम्र और हँस-सुख थे। वे जिस दण्ड और पीड़ित बर्ग में जन्मे उसी की सेवा में उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी।

हाँ, तो हम तीनों कार्यकर्ता एक दिन किसान पंचों से सलाह कर रहे थे कि करीब दो दर्जन बुड़सवारों ने हमें आ

धेगा। उनके पास कोई वारणट नहीं था। उन्होंने हमारी मुश्कें बांध लीं और वरसंते पानी में हमें पैडल ले गये। तीन मील पर कुछ खेड़ा की नियावत थी। वहाँ हमारे दोनों पाँवों में छेडेदार बंदियां पहना दी गईं और सिपांहयों के पहरे में एक गंदी सी लगह सोने बैठने को बता दी गई। इस दिन शाम को खाने को भी नहीं दिया गया। दूसरे दिन सुबह आध छटाँक दाल, योड़ा नक्कम रस्ब और आधा सेर आटा हिया गया। लकड़ियाँ और कंडे आस पास से बीन लाने की आज्ञा हुई। हमने इस दुर्व्यवहार और अपमान के विरोध में भूख छड़ताल कर दी। तीसरे दिन हमें नायव हाँकम के लुबह पेश किया गया। उन्होंने असभ्य भाषा में जली कटी सुना कर बापस किया। साथ ही हमारी एक एक बेड़ी निकलवा दी गई, खाने के सामान में सुधार किया गया और साधारण व्यवहार भी अपमानजनक नहीं रहा। यह इलाक्का जहाजपुर जिले के आधीन था। बढँ उस बक्क चिन्दुलाल जी भट्टाचार्य नामक शिरक्षित हाँकिम थे। मेरा इनसे पहले का परिचय था। चौथे दिन उनका हुँकम आया, हमारा जहाजपुर के लिये चालान हुआ। हमें बेड़ी सहित ऊँटों पर बिना दिया गया और साथ में घुड़सवारों का एक दस्ता चला। किसानों का एक बड़ा दल हमारी गिरफ्तारी के समय से ही हमारी हवालात के बाहर धूनी रमाये पड़ा था। उसने तुरन्त चिनौलिया खबर भेज दी थी। जब हम उधर से निकले तो माणिक्यलालजी, अंकनादेवी और सैकड़ों

किसान हमसे मिलने की आशा में मौजूद थे। मगर मेवाड़ी अंचेरगढ़ी जो ठहरी, जेर तजदीज की दियों को अपने नज़दीकी सम्बन्धियों और इष्ट मित्रों से भेट नहीं करने दी गई। तीसरे दिन हम जहाज पुर पहुँचे तो रास्ते में हमारी बैड़ियां निकलवा दी गईं थीं। लब हमने नगर में प्रवेश किया तो एक बरात का सा शानदार जुलूस बन गया था। एक रोज़ तो हम हाकिम साहब के मेहमान रहे और दूसरे दिन पहाड़ पर किले में भेज दिये गये। वहां हम तीनों और हमारे पहरे दारों के सिवाय और कोई नहीं रहता था। ग्राने पीने का सब सामान नीचे से आता था। व्यवहार और इंतज़ाम संतोष लनक था। भोजन बनाने, पानी भरने और सफाई आदि करने के लिए अलग अलग आदमी रख दिये गये थे। जब हमें मालूम हुआ कि उनसे बेगार में काम लिया जाता है तो हमने विरोध किया। विन्दूलालजी ने मुज़दूदी देने का आश्वासन दिया। कोई तीन सप्ताह हम किले पर रहे। वहां का प्राकृतिक दृश्य मनोहर था और दूर दूर तक का प्रदेश साक दिखाई देता था। हमारे पहरे दारों के हवलदार एक सभ्य मुसलमान थे। उनके पास दूरबीन थी और शायरी व सितार का शौक था। हमें उनकी संगति से बड़ा आनन्द मिला।

विन्दूलालजी अखबार भी रोज़ भेज देते थे। एक दिन उन्होंने हमें नीचे बुलाया और महकमा खास का एक तार दिखाया। उसका आशय, यह था कि अंजना देवी पर गोली

चलने और उन्हें गिरफ्तार करने के समाचार प्रकाशित हुए हैं। जांच करके गिपोट्ट भेजो।

बात यह हुई थी कि खैराइ प्रदेश में अमरगढ़ एक जागीर है। ये भीजों का इलाका है। भेवाड़ सरकार इन्हें ज़रायम पेशा जाति मानती थी, रोजाना दो बार इनकी पुलिस में हाजिरी होती थी और वे बिना इजाजत लिये चाहर कहों जा नहीं सकते थे। उनपर और भी बहुत सी ज्यादतियां होती थीं। तांग आकर उन्होंने राजस्थान सेवासंघ के शाखा ली। इसलिये अंजनादेवी कुछ स्थानीय वैदिनों को साथ लेकर विजौलिया से अमरगढ़ पहुंच गई। वहाँ पर बिना बारंट गिरफ्तार कर लो गई। आनेदार ने उनको अलग अलग हवालात में बन्द करना चाहा और इनकार करने पर गोली चलाने के लिये बन्दूक तान ली। मगर इस धमकी का किसी भी देवी पर कोई असर न हुआ। आखिर वे सब एक साथ बन्द कर दी गई। देशी राज्यों की आजादी की लड़ाई में किसी स्त्रीकी यह पइली गिरफ्तारी थी।

कोई २१ दिन हम जदाजुरु के किले में रखे गए। इस बीच में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। न हम बाक़ायदा किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये, न कोई रिमांड लिया गया। चैथे सप्ताह हमें ऊंटों पर सबार करवा कर घुड़सवारों की निगरानी में उदयपुर भेज दिया गया। इसकी खबर पाकर अंजनादेवी वर्षा मांडल स्टेशन पर और हरिमाई जो उसी दिन अपील में बटी होकर उदयपुर से लौटे थे गाड़ी में इससे

मिल लिये । उदयपुर पहुंच कर हमें दीवान प्रभाशचन्द्रजी के बंगले पर ले जाया गया । वहां हमारी बेड़ियां निकलवा दो गईं और हमें शहर से तीन मील दक्षिण में गोरखन विलास नामक गांव में भेज दिया गया । यहां महाराणा की निजी गौशाला थी । स्व० कलहसिंहजी को घोड़ा और गायों के सुधार का शौक था और यह गौशाला उसी का केन्द्र थी । यहां महाराणा कई बार आया करते थे । पहले तो हमें मझे में ही रखा गया, मगर बाद में एक कच्चे मकान में बदल दिया गया । हम पर पहरा उन्हीं सिपाहियों का रहा जो जहाजपुर से हमारे साथ आये थे । वेचारे निरक्षर देहाती मुख्लमान और मीले बड़े सरल और सहदय थे । अपनी छोटी तनखाहों के मारे परेशान थे । उनके हृदय पर हमारी गरीबों की सेवा को सदा आशीर्वाद देते थे । हम पर कोई खास सख्ती न थी । खाने पीने का संतोषजनक प्रबन्ध था । सुबह शाम सिपाही लंगल में हमको घुमा लाते मिलने जुलने और लिखने पढ़ने पर कोई रोक न थी । हर मित्र कई बार दिन दिन भर रह जाते और वहीं खाते पीते बक्कील हमारे थे पं० लक्ष्मीनारायण त्रिवेदी । उन्होंने आम तौर पर सेवा संबंध की और हमारे और परिवर्ती के मामलों में खास तौर पर बड़ी सेवा की । हमारा सुक्रिया मुन्शी भूरेजालजी हिरण्य एम. ए. एल. एल. बी. सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ । ये शिष्ट और सुलमें हुए आदमी थे । हमारे साथ उनका अंत तक आदरपूर्ण व्यवहार रहा । मेवाड़

वकील हमारे थे पं० लक्ष्मीनारायण त्रिवेदी । उन्होंने आम तौर पर सेवा संबंध की और हमारे और परिवर्ती के मामलों में खास तौर पर बड़ी सेवा की । हमारा सुक्रिया मुन्शी भूरेजालजी हिरण्य एम. ए. एल. एल. बी. सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ । ये शिष्ट और सुलमें हुए आदमी थे । हमारे साथ उनका अंत तक आदरपूर्ण व्यवहार रहा । मेवाड़

में वह पहला बाक्सायदा राजनीतिक मुक़दमा था। हम पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। अदालत महलोंकी चहार दीवारी के भीतर थी। वहाँ कोई नंगे सिर या टोपी पहन कर नहीं जा सकता था। हमने इस पांचदो को नहीं माना। इस्तगासे के ज्यादातर गवाह सिपाही या दूसरे सरकारी मुलजिम थे। हम नैसे मुल्जिमों के खिलाफ गवाही देने का उन्हें पहले काम नहीं पड़ा था। अधिकांश सरकारी बकील के सबालों पर ही बहक गये। एक सवार ने मजेदार क्रिस्पा घड़े लिया। उसने व्यान दिया कि जब हम चौधरीजी को पकड़ने गये तो इन्होंने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और कुछ 'मंतर' पढ़ कर फूँक मारी और कहा, 'महाराणा का नाश हो'। इस पर अदालत में खूब हँसी हुई और मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस्तगासे की ऐसी ही गवाहियाँ हुईं तो उसके करम फूट गये। किसानों में से हमारे खिलाफ एक दो के सिवाय कोई न मिले। उन्हें पुलिस मार पीट कर लाई थी। हमारे सामने आते ही वे हमारे हो गये और सधी सधी कह गये। क्रीब ७ मर्हीने मुक़दमा चला। हमने लम्बे २ लिखित व्यान दिये। उनमें रियासत की निरंकुश शादन प्रणाली, प्रजा की पामाली और सेवा संघ की नीति का लम्बा चर्णन था। श्री० द्विरण को भय हुआ कि इन व्यानों के प्रकाशित होने से राज्य की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचेगी। वे महाराजकुमार साहब के पास पहुँचे। दूसरे दिन मुकें चोक मिन्न स्टर पं० धर्मनारायणजी के बंगले पर ले जाया गया। वहाँ

चंटलीं वावू भी मौजूद थे। गजत्वान सेवा संघ और मेवाड़ सरकार के बीच किसी त्याची समझौते की चर्चा शुरू हुई। तीन दिन की बहस के बाद सहयोग की योजना का ढाँचा तैयार हुआ। परन्तु चौथे दिन अचानक बातचीत बंद कर दी गई। बाद में मालूम हुआ कि राजपूताना एजेन्सी को इस प्रकार का सहयोग यस्ता न था।

उन दिनों मेवाड़ में पहले दर्जे के मजिस्ट्रेटों को सी राजद्रोह के मामले के फैसले करने का अखितयार न था। उन्हें अपनी राय के साथ काश्चात् महाद्राव्य सभा में भेजने पड़ते थे। वह रियासत की हाई कोर्ट थी। श्री० हिरण्य ने हम तीनों को निर्देष ठहराया। सभा ने हमें सुक कर दिया। उस दिन एक दिलचस्प घटना हुई। जो सिपाही हमारी निगरानी के लिये रखे गये थे उन्होंने महकमा खास को इस आशय की दरखतात् दी कि “हमें नेताओं की अद्ली में रक्खा गया था, अब सरकार ने उन्हें छुट्टी देदी है तो हमें भी घर लाने की इजाजत दी लाय।”

ब्रिटिश सरकार को विजौलिया, सिरोही और वूँदी बगैरह के आंदोलन से पता लग गया था कि सेवा संघ का द्वेषाती ज्ञानका पर किचना असर है। रियासतें और जारीरें भी उससे ढरी हुई थीं। इसलिये संघ के सारे संगठन की भीतरी रचना ज्ञानकर उसे तहसं नहस करने का मिलजुल कर विचार होना स्वाभाविक था। जिस असें में हम पर उद्यपुर में सुकदमा तल

रहा था उसी में अजमेर में संघ के मुख्य दफ्तर की तलाशी हुई। करीब दो सौ कान्सटेवल लेकर दख्खु सुपरिन्टेंडेंट पुलिस आये थे। सुबह से तीसरे पहर तक छानबीन होती रही। कोई तीन गाड़ी कागजात पुलिस डठा कर ले गई। उनकी कोई सूची नहीं बनाई गई। अजमेर के राजनैतिक इतिहास में यह सबसे बड़ा छापा था। लगभग २२ महीने की जांच पढ़ताल के बाद कागजात लौटाये गये। भगवन्न जाने कितने कागज गायब हुए। इस छानबीन में राजपूताने की सभी और मध्य भारत की कई रियासतों के पुलिस अफसरों ने भाग लिया था। उस समय न अखबार व्यवसायी बने थे, न संवाददाताओं को पुरुस्कार की चाट लगी थी। 'तवीन राजस्थान' जिस सेवा भाव से निकलता था उस के संवाददाताओं में भी वही भावना थी। वे चुन चुन कर जनता के कष्टों के समाचार भेजते थे और ऐसा करने में काफ़ी जोखम डाते थे। वे एक तरह से संघ के स्वेच्छा—सेवक थे। पुलिस वालों ने इन सब लोगों की सूचियाँ बनालीं। लेकिन वे संघ के किसी सदस्य या कार्यकर्ता पर मुद्रकमा न चला सके।

शेखावटी में शिक्षा प्रचार आदि रचनात्मक कार्य तो पहले से ही हो रहा था। सामूहिक सेवाकार्यों की शुरुआत भी सेवा-समितियों ने कर दी थी। इनकी स्थापना का श्रेय मंडावा के सू० सेठ देवीबख्श जी सराफ को था। सन् १९३१ में शेखावटी की सेवा-समितियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ।

जसके समाप्ति मेरे शुरू मास्टर कालीधरगा जी शर्षा हुए। इस सम्मेलन को राज्य ने खातरनाक शुरूआत तागा और श्री० शुलावराव नेमाणी और मास्टर प्रयांत्रिलाल जी शर्षा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें खेतड़ी तक पैदल ले लागा गया। इस पर शेखावाटी और कलकत्ता, बर्बरी में एक त्रृप्ति मास्टर और दोनों देश भक्त छोट दिये गये।

शेखावाटी में राजनीतिक जीवन का शून्यात थहरी हो दूखा। इस घटना के बाद ही सेठ जगदालाली तकाल ने पर्याप्त कार्य के लिए शेखावाटी का दौरा किया। मान में धार्जीर के दो तीन प्रमुख कार्यकर्ता थी थे। इस थार्डा में धार्जीर जागृति हुई। शायद इसी अवसर पर सेठ जगदालाल पर्याप्त ने 'तिलक स्वराज्य काट' की कमी को पूरा करने के लिए पृष्ठ

में जो आम हड्डताल हुई अजमेर ने उसकी पूर्णता का नमूना येश किया। मनाल क्या कि एक भी हुकान खुल जाय और एक भी तांगा या सबारी मिल जाय। पुलिस परै राष्ट्रीय संगठन का इतना दबदबा या कि गिरफ्तारियाँ भी नेताओं की मदद से होती थीं, वरना वारंट लौट जाते। ऐसे मौके पर कमिशनर साहब मौलाना मुझहीन को खत लिखते तब कहीं राजनीतिक मुल्जिम गिरफ्तार होते। कहते हैं कि एक बार रमजान के महीने भग वारंटों की तामील मुलतबी रही और रोजे पूरे रोने पर नेता लोग जेल गये। सुन्दे याद है, उस समय मँहगाई के कारण लूट पाट का अंदेशा बहुत बढ़ गया था और लोगों को पुलिस की ताक़त पर भरोसा नहीं रहा था। आखिर काँपेस, खिलाफ़त और सेवासंघ के स्वर्यसेवकों का पहरा लगाया गया। तब जनता को इतमीनान हुआ। इस बढ़ते हुए असर को देख कर कहुर राजभक्त सेठ उम्मेदमलजी लोढ़ा ने भी चुपचाप काँपेस को २०००) भेट कर दिये।

वारदोली में काँपेस की वर्किंग कमेटी ने चौरीचौरा में जनता द्वारा पुलिस याना जला दिये जाने और कुछ कान्टेबूलों के मार दिये जाने के कारण असहयोग आन्दोलन स्थागित कर दिया था। महात्मा गाँधी पर गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका था। उस समय वे अजमेर में ही मौजूद थे। मगर यहाँ की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी लेने का चाहस नहीं किया। वे गुजरात की सीमा में पहुँच कर पकड़े-

गये। असहयोग के स्थगित होने पर कॉम्प्रेस में दो दल हो गये। पं० मोतोलालजी नेहरू और देंशवंधु चितरंजन दास कौसिल्ल प्रवेश के पश्च में थे और सर्व श्री० राजगोपालाचार्य, राजेन्द्र बाबू व लमनालालजी और अलीबंधु आदि रचनात्मक कार्यक्रम के हिमायती थे। राजपूताना अपरिवर्तनवादी रहा।

वेगूँ के किसानों को भी लगभग वे ही तकनीकें थीं जो विजौलिया बालों को थीं। राज्य ने किसानों की माँग को ध्यान में रख कर कुछ रियायतें दीं और लगान का बन्दीवस्त कराने के लिए पैमायश का महकमा खोला। कोई बजह नहीं थी कि वेगूँ बालों को वे हो रियायतें न मिलतीं जो विजौलिया बालों को दी गई थीं। मगर रियासत ने ऐसा न करके मिठ ट्रैन्च नामक एक आई. सी. एस. अक्सर को लो पैमाय रा हाकिम थे लक्ष्य के साथ वेगूँ भेज दिया। उन्होंने समझने वुमाने के बलाय असंतोषजनक शर्तें जबरदस्ती किसानों के सिर मंडना चाहा। सत्याग्रही राजी न हुए। आखिर साढ़व वहाड़ुर के हुक्म से निहत्ये ग्रामीणों पर गोलियाँ चलाई गईं। पथिकजी ने अपने मुङ्गदमे के बयान में यह आरोप किया था कि उस समय खियों को गोलियों के सामने अचल देख कर उनके नाड़े तक कटवाये गये थे। दूसरे जुल्म को ऐसे अवसरों पर हुआ करते हैं वे तो सब किये ही गये। श्री घनश्याम शर्मा नामक वेगूँ के नौजवान कार्यकर्त्ता को इतनी बुरी तरह पोटा गया था कि जब वे महीने

भर बाद मेरे पास अजमेर आए तो उनके शरीर पर मार के निशान साक नज़र आते थे। वेगूँ के आन्दोलन में श्री मगन-लाल चोराडिया भी शुरू से किसानों के साथ थे। इस अवसर पर उन्हें भी त्वूर तंग किया गया। इस क्रूर दमनकांड के फलस्वरूप किसान सम्प्रति दब गये। उधर के कार्यकर्त्ता भी उदासीन होकर घर बैठ गये। इसलिये परिकल्पी को सन् १९२३ के वसंत में खुद वहाँ जाना पढ़ा। साथ में ब्रह्मचारी हरजी गये। दोनों छिप कर रहने लगे। पर्यक्ति एक घाकड़ के घर में बैठ कर गुप्त रूप से विसानों का मारे दर्शन करते रहे। अंत में भीषण मारपीट, के मारे घाकड़ ने भेद लोल दिया और परिकल्पी पकड़े गये। अधिकारियों ने वचन भंग करके उनके साथ दुर्ध्ववहार किया और उन्हें चित्तौड़ भेज दिया। उस समय लाला अमृतलाल नामक एक पुराने ढंग के कायत्थ वेगूँ के मुन्दरिम थे। उन्होंने अपनी सारी चालवाज्जी और अमानुषिकता खर्च करके परिकल्पी और उनकी शाक्त को कुचलने और किसानों के नवजीवन को दफनाने के लिये एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया। वे जितने बेदस्तु आदमी थे उन्हें ही गज्जव के प्रचारक थे। दुर्भाग्यवश अजमेर के सार्वजनिक लीवन की प्रतिस्पर्धाओं से भी उन्हें सहायता मिली। उन्होंने कई पर्चे छपवाये और संघ और उसके कार्यकर्त्ताओं को बद्नाम करने की कोशिश की। मगर उन्होंने कुरी तरह मुंह की चाई। संघ ने जिस बनता की सेवा की थी वह तो उसके प्रति वकादार रही ही,

अखवारों ने भी लालाजी को खूब आड़े हाथों लिया। पथिकजी को जेल की दीवारों में बन्द करके उन पर बीठ पीछे बार करने की गर्हित चेष्टा की लोक मत ने तीव्र निन्दा की। मगर एक अभियुक्त पर यह सब मामले होते देख कर भी विशेष अदालत ने उन्हें अपने लिए अपमानजनक नड़ी समझा और न अभियुक्त की रक्षा में एक शब्द कहा।

लालाजी ने पथिकजी को सज्जा दिलवाने के लिये असाधारण तैयारियाँ की। चित्तौड़ में विशेष अदालत बैठी। उसमें पं० विमुवननाथ शिवपुरी, श्री रतोलाल अंताणी और बाबू ढालचन्द्रजी अप्रवाल जज थे। तीनों ही अनुग्रही, सरकारे ने अपने यहाँ के सबसे अच्छे न्यायाधीश मुक्करे किये। इसका बहुत कुछ श्रेय स्व० मणिलाल झाई कोठारी को था। उन्होंने उदयपुर जाकर दोनों दीवानों को काकी समझा बुझा कर पथिकजी को सुविधावें दिलवाई। मगर बाहर का बकील करने की इजाजत वे भी न दिलवा सके। चित्तौड़ में नगर के बाहर पथिकजी, उनके बकील और न्यायाधीशों का डेंग लगा। वहीं कार्रवाई शुरू हुई। अभियुक्त के साथ सम्पर्क रखने में उनके मित्रों को कोई खास रुकावट नहीं थी। उनके मुकाबिले में मेवाड़ के सरकारी पैरों कार बेचारे बौद्धिक बौने थे। लग ता साढ़े तीन वर्ष तक मुकदमा चला। बौच में विशेष अदालत उदयपुर चली गई और पथिकजी भी 'दास ओदी' नामक मद्रासों के शिकारी स्थान

में रख दिये गये । पथिकजी के खिलाफ सच्चे गवाह और सदृश इस्तगासे को नहीं मिले । कई छलकों की भक्ति के कारण सरकारी कागजात में ही ऐसे प्रमाण मिल गये जिनसे पथिकजी की निर्दोषता सावित होगई । किसान तो उन्हें देवता की तरह पूजते थे । कोई उनके खिलाफ शहादत देने को राजी न हुआ । लाला अमृतलाल जी बुरी तरह मार कर दो एक को लाये, मगर अदालत में आते ही वे अभियुक्त के पक्ष में गवाही दे गये । पथिकजी के मुक़दमे की गूँज देश के हर कौने में पहुंचती थी क्योंकि उसकी कार्रवाई भारत के प्रायः सभी पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होती थी । अन्त में विशेष अदालत ने मुल्ज्जम को बरी किया । लेकिन मेवाड़ सरकार के महजमा खास ने उन्हें अपने विशेषाधिकार से धांघली करके लम्बी कँड़ै की सजा देदी । निरंकुश शासन प्रणाली में न्याय विभाग प्रबन्ध विभाग के सामने कितना पंगु होता है, इसका प्रमाण इससे अच्छा और क्या मिल सकता है? आखिर सन् १९२८ में ५ साल के कारावास के बाद पथिकजी छोड़े गये ।

इस वीच अजमेर में कुछ घटनायें घट चुकी थीं । सबसे गम्भीर तो यह थी कि सन् १९२८ में भीषण हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ । सहारनपुर के बाद शायद यह देश में दूसरा साम्प्रदायिक दंगा था । इसमें पुलिस के हिन्दू कर्मचारियों ने हिन्दुओं को और मुसलमान नौकरों ने मुसलमानों को खूब भड़काया । दोनों दल से सामाजिक विहिकार और घृणा व द्वेष का दिल खोल-

कर प्रचार किया गया। कई हिन्दू मारे गये और वहुत से घायल हुए। अंग्रेजी सेना ने ख्वाजा चाहव की दरगाह पर गोली चलाई। श्री० चांदकरणजी शारदा को घरवालों के दबाव से अचमेर छोड़ कर बाहर चले जाना पड़ा। पं० अर्जुनलालजी सेठी ने अपनी राष्ट्रीयता की महंगी कीमत चुकाई। मेल और एकता का प्रचार करते हुए वे मुसलमान दंगाइयों के हाथों घायल हुए। दुर्देवश हिन्दू जनता उसी समय से उनसे नाराज़ हो गई। मुसलमानों के राष्ट्रीय नेता मौलाना मुईनुदीन और मिर्जा अब्दुल कादिरबेंग आदि सरकार और हिन्दुओं की जज्जर में फसाद के बाजी मुवानी समझे गये। उन पर मुकद्दमे भी चलाये गये। इस अवसर पर खतरे और कट्ट में पड़े हुए हिन्दुओं की पं० जियालालजी और उनके साथियों ने अपनी जानजोखम में डालकर भी जो सहायता की उसे अब भी लोग कृतद्वतापूर्वक समरण करते हैं।

दूसरी घटना थी मेवाड़ राज्य द्वारा 'नवीन राजस्थान' का प्रवेशनियेव। उसका नाम पलट कर 'तरुण राजस्थान' रख दिया गया। उसकी भी रियासत में मनाई हो गई। जयपुर और वूँदी राज्यों ने भी अपने यहाँ उसका दाखिला बंद कर दिया।

तीसरी घटना हुई 'तरुण राजस्थान' पर राजा महेन्द्रप्रताप की एक चिट्ठी और अग्रलेख छापने के आवार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना। मैं और शोभालालजी 'अभियुक्त ठहराये

गये। इससे पहले सेठ जमनालालजी के भेजे हुए सर्व श्री ज्ञेमा-नन्द राहत और नृसिंहदासजी अग्रवाल राजपूताने में राष्ट्रीय कार्य करने के लिए आ चुके थे। उन्होंने सब में ही डेरा लगाया। राहतजी की लम्बी दाढ़ी, पैनी बुद्धि, सरस वातचीत, भावुक तवियत और सफेद दूधिया पोशाक थी। वे अच्छे लेखक, कवि और वक्ता थे। बावाजी (नृसिंहदासजी का बाद में यहीं नाम पड़ गया था) बहुत कम पढ़े लिखे थे। राजस्थानी थे और कुशल व्यापारी रह चुके थे। उन्होंने त्याग भी काफी किया था और भेष भी बैसा ही रखते थे। लेकिन ये दोनों आते ही कांग्रेस के चुनाव के झगड़ों में उलझ गये और असफल रहे। बाद में खादी मंडल का प्रान्तीय दृष्टिर लेकर वे व्यावर-चले गये और साल छः महीने वहीं रहे। मैं और शोभालालजी जेल भेज दिये गये। हमारा मुकदमा हापकिन्सन नामक अंग्रेज असिस्टेन्ट कमिश्नर की अदालत में पेश हुआ। लेकिन इन हजरत ने न हमारी जमानत मंजूर की और न हमें सफाई का मौका ही दिया। हमें सीधा सेशन सुपुर्द कर दिया। इनकी धांधली इतनी स्पष्ट थी कि सेशन जन ने हमारा मुकदमा दूसरे मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया और सारी कार्यवाही दुबारा करवाई। जेल में हमारी मुलाकात अजमेर-मेरवाड़ा के मशहूर डाकू ठाकुर मोहिसिंह से हुई। इनमें हिन्दुत्व का गौरव और अंग्रेजों के प्रति घृणा, असर-धारण थी। ये भी किसी समय खरबा के राव-साहव और पथिकजी के साथ रह चुके थे। मुकदमे में मैं बरी हो गया

और शोभालालजी को एक साल की सखत सज्जा हुई। स्व० बाबू श्रीलालजी अग्रवाल का इसी प्रसंग पर परिचय हुआ। अपरिचित होकर भी वे खुशी से हमारे बड़ील बने और उत्साह पूर्वक मुफ्त पैरवी की। वे जब तक जिये मेरे साथ उनके कौदुस्विक सम्बन्ध रहे। वास्तव में उनकी वृत्ति सभी के साथ लपकार करने की थी।

पीछे से संघ में केवल अंजना देवी और रामसिंह नामक चालक रह गया। यह मेवाड़ के एक गरीब राजपूत घर का लड़का था। शुरू से होनशार था। लिखने पढ़ने की चाट थी। अजमेर चला आया और संघ में हमारे पास रहने लगा। थोड़े ही असें में उसने अच्छी प्रगति करली। वाद में तो मैंने उसे काशी विद्यापीठ पढ़ने भेज दिया था और वह एक उपयोगी कार्यकर्ता बन गया। उसमें सर्वांगीण शक्तियों का काफ़ी जमाव था।

हमारे इसी मुकद्दमे के दोरान में एक दिन हवालात में दो अनजान व्यक्ति हमारे लिए खाना लेकर आये। ये थे पं० लादूराम जी जोशी और उनकी पत्नी श्रीमती रमादेवी। जोशी जी नवा नवा विवाह विवाह करके आये थे। शेखावाटी के पुरातन प्रेमी ग्रन्थ में इस क्रिस्त की यह पहली शादी थी। इससे वहाँ के बातावरण में बड़ा क्षोभ पैदा हुआ। पंडित जी का सेवा संघ से सम्बन्ध था। वे उसके कार्यकर्ता और आजी बन सदस्य थे। उनकी भी एक कहानी है। जबपुर राज्य के

विसाऊ ठिकाने के ठाकुर के पाले हुए शिकार के सुअरों, वेगार और लगान की ज्यादती और लागवाग का किसानों को बड़ा कष्ट था। वहाँ के एक धनिक श्री लगराजली भूंभुनूबाला सार्वजनिक भावना रखते थे। किसानों के साथ उनकी सहानुभूति थी। ठाकुर ने उन्हें भी अपमनित किया था। उनकी सहायता से संघ ने विसाऊ में आन्दोलन लेड़ा। उसमें लादूरामजी भी काम कर चुके थे। अजमेर आने पर वे संघ परिवार में रम गये। संघ के लिए यह परीक्षा काल था। उधर पर्यटकजी गिरफ्तारी में थे, इधर हम कौद में थे। 'तरुण राजस्थान' और संघ के कार्य संचालन का दायित्व था। सौमान्य से राहतजी व बाबाजी की खलाह और मणिलाल भाई की मदद मौजूद थी। किर भी आर्थिक संकट गम्भीर था। आखिर पं० लादूराम जी को कानपुर भेजा गया। स्व० गणेशशंकरजी विद्यार्थी पर्यटक जी के मित्र, देशी रात्यों की प्रजा के हिमायती व संघ के मददगार थे। उन्होंने एक अच्छी सी रकम इकट्ठो करवाकर जोशी जी को लौटाया। अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन में मैंने जोशीजी के जैसे शुद्ध हृदय, सेवा परायण, साहसी, कर्मठ और नम्र सेवक वहुत कम देखे हैं।

पर्यटकजी की गैरमौजूदगी में कुछ व्यक्तियों से परिचय का और मौका मिला। एक तो उज्जैन के स्वामी रामानन्द थे जो मालवे में हरिजन उत्थान का काम करते थे। वे कई मास तक संघ में रहे। दूसरे थे बूंदी के भूतपूर्वे सेनापति श्री नित्यानन्दजी

नागर। रियासती कुचकों में फँस कर वे निर्बासित कर दिये गये थे। संघ से उनका पहिले से ही परिचय था। उनके साथ उनके पुत्र और ऋषिदत्त मेहता और पुत्र वयू श्रीमती सत्यभासा देवी भी थीं। नागरकी संबंध की सलाह से पोलीटिकल विभाग के बाय अपने मामले में पत्र व्यवहार करते और अखबारों में प्रकाशन कर—बाति थे। ऋषिदत्तजी सपाइन कला का अभ्यास करने लगे। आगे चल कर इस परिवार ने प्रांत के राष्ट्रीय संग्राम और सार्वजनिक जीवन में काफ़ी भाग लिया।

किन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय व्यक्ति थे स्वाठ कुमारी-जन्दजी। ये एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में जन्म लेकर कांनिकारी प्रथ के पर्याक वन गये थे और सन् १९२१ में व्यावर को कार्यक्षेत्र बनाने से पहिले कई जेलों की यातनाएं भुगत कर देश—भक्ति की क़ीमत अदा कर चुके थे। असहयोग आन्दोलन के सित्तमिले में कई वर्ष कारावास पूरा कर के वे अज्ञाने लौटे तो सेवासंघ में हम लोगों के अक्षिय रहे। इस योद्धे समय में ही इन्होंने संबंध परिवार के बाल बृद्ध सभी को अपने सरल, स्नेही और बिनोदी स्वभाव से प्रभावित कर लिया। राजस्थान में भी इस त्यागी सेवक ने हर राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी कुर्बानी की परम्परा बराबर क्रायम रखी। जब यह भाषुक सन्यासी भूमभूम कर देश—प्रेम के बंगला गीत सुनाता है तो ओता भी वही स्मृति का अनुभव करते हैं।

श्री० शंकरलालनौ बर्मा भी 'तरण राजस्थान' में हमारे साथ

काम करने आ गये थे और सन् १९२८ तक वरावर साथ रहे। कौदुम्बिक भावना, स्पष्टवादिता और व्यक्तिगत सेवा की वृत्ति इनके खास गुण हैं। घटनाओं को इतना सिलसिलेवार याद रखते हैं कि हम लोग उन्हें विनोद में 'क्रान्तिकल' ( इतिहास ) कहा करते हैं। ये राष्ट्रीय हल्कों में 'बुलुर्ग' या 'भगवन' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

सन् १९२५ में सीकर के जाटों में असन्तोष पैदा हुआ। यह राजस्थान की प्रमुख कृपक जाति है और धाकड़ों की तरह साहसी और चतुर भी है। असन्तोष का कारण तो वही लाग वाग, वेगार और खास तौर पर लगान की ज्यादती थी। मेरे एक जाट मित्र श्री मुकुन्दराम चौधरी की प्रेरणा से किसानों ने मुझे जयपुर बुलाया। सीकर ठिकाने की तरफ से मेरे पिताजी श्री० मुरलीधरनी तंवरावाटी निजामत में बकील थे। लेकिन इस नाजुक सम्बन्ध की न मैंने परवाह की और न पिताजी ने कभी इसे मेरे सेवा कार्य में बाधक होने दिया। उन दिनों सीकर ठिकाने का प्रबन्ध करने के लिए खां साहब अज्जी० बुर्हमान नामक एक पेंशनर मुसलमान भेजे गए थे। वे अखबारों से ढरते थे। मेरी दिलचस्पी सुन कर उन्होंने मुझ से मिलने की इच्छा प्रगट की। उनके प्रस्ताव पर मैं किसानों को लेकर सीकर पहुँचा। लेकिन वहाँ उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर वचन भंग कर दिया और किसानों को संतुष्ट करने के बजाय उनमें फूट फैलाने और उन पर अनुचित दबाव डालने लगे। समझौते

की बात चीत दृट गई। इनके खिलाफ आन्दोलन हुआ। किसान सम्प्रति दवा दिये गये और खां साहब आवू पर्वत पर दिल की धड़कन बंद होने से चल वसे। मुझे जयपुर से और हरिजी को सीकर से निर्वासित कर दिया गया और पं० लालूरामजी की मौरुधी जमीन जब्त करली गई जो तीन चार वर्ष की अदालती लड़ाई के बाद लौटाई गई। उसी समय जयपुर राज्य से सेठ जमनालालजी के निर्वासन की आज्ञा भी निकाल दी गई। यह आज्ञा इतनी निराधार और स्वेच्छाचारभूर्ण थी कि राज्य को उसे जल्दी ही रद करना पड़ा। मेरे खिलाफ जो हुक्म दिया गया उसका आधार सिर्फ मेरा सीकर के किसानों से सम्बन्ध होता था।

सीकर के सीनियर अफसर भी ओछे हथियारों पर उत्तर आये। उन्होंने मेरे पिताजी को बकालात के पद से अलहदा कर दिया। यह पुश्टैनी ओहदा था जिसे बकादारी और योग्यता के साथ निभाया गया था। पिताजी का मेरे राजनैतिक कार्यों से कोई सम्बन्ध न था। अल्पता वे उन कामों में दखल भी नहीं देते थे। अपनी इस उटस्थिति के कारण वे पहले भी कष्ट उठा चुके थे। बात यह हुई थी कि नीमका याना जयपुर राज्य की तंबरावाटी निष्पामत का केन्द्र है। वहां एक नायच नाजिम और एक धानेदार ने एक पंजाबी ठेकेदार से रिश्वत-लेकर उसके कङ्ढादार एक हरिजन को हवालात में इतना प्रिट-वाया था कि उसके प्राण परेह छढ़ गये। हस पर मैंने नवीन-

'राजस्थान' में प्रकाश ढाला और रियासत ने दोनों कर्मचारियों से जवाब तलब किया था। उन्होंने पिताजी पर दबाव ढाला कि मुझसे उन समाचारों का खंडन करवायें। पिताजी ने साफ़ इन्कार कर दिया। तब उन्हें धमकियाँ दी गईं। फिर भी पिताजी ने मुझसे कुछ न कहा। आखिर चोरों से मिलकर पिताजी के यहाँ चोरी कराई गई और लगभग दस हजार रुपये का नकद और जोवर उड़वा दिया गया। पिताजी के लिए यह ऐसी भारी आर्थिक चोट थी जिसका घाव जिन्दगी भर नहीं भरा, लेकिन वे मुझसे शिकायत का एक शब्द भी ज्वान पर नहीं लाये। इसी तरह वकालत छूट जाने पर भी उन्होंने मुझे कोई दोप नहीं दिया। वे ईश्वर पर अटल श्रद्धा रखते थे। अंत में अखबारों में सीकर के इस कृत्य की इतनी तीव्र निन्दा हुई कि पिताजी शीघ्र वहाल कर दिये गये।

लेकिन मेरे खिलाफ़ जयपुर की निर्बासित आज्ञा तो मौजूद ही थी। उस वक्त, कौंसिल के प्रेसीडेण्ट और सर्वेसर्वा रेनाल्ड स साहब एक निरंकुश तवियत के आदमी थे। मैंने उन्हें पत्र लिख कर बताया कि मैंने जयपुर राज्य भर में तो कुछ किया नहीं जिससे शांति भंग हुई या होने का खतरा हो, सीकर में भी कोई गैर कानूनी या भड़काने वाली कार्रवाई नहीं की। फिर भी राज्य की दृष्टि से मैंने कोई आपत्तिजनक काम किया है तो वह मुझ पर मुकदमा चलाये। मैं अभियुक्त बन कर हाजिर हो जाऊँगा। इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दूसरा

पत्र लिखा कि मुकदमा न चलाना हो तो मुझे मुलाकात का सौकड़ा दिया जाय ताकि मैं अपनी सफाई दे सकूँ। इस खत का भी उत्तर नहीं आया। तब मैंने इस मनमाने व्यवहार के विरोध में आज्ञा भंग करना अपना वर्ष समझा और एक निश्चित तारीख को जयपुर पहुंचने की रेतालड साहब को सूचना भेज दी। वहाँ पहुंचने पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। यह काम करने आये पं० शिव विहारी तिवाड़ी शहर को तबाल जो मेरा बड़े भाई की तरह आदर करते थे। वे चारे शरमिदा तो काफी थे, मगर मनवूर थे। मुझे एक दिन तो उन्होंने अपने बमरे में रखा। दूसरे दिन सुवह पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मिं० केवेन्ट्री आये। उनके खिलाफ़ और कुछ भी कहा जाता हो, पर शिष्ठा की उनमें कभी नहीं थी। उनके सहायक मेरे पूर्व यरिचित व्यास मगनराजनी थे। पुलिस में और भी कुछ अफसर मेरे सूल, कालेज या खेल के साथी थे। सभी को मुझे मुल्ज्जम देख कर अपने पर लज्जा हुई। कहने लगे “भाई साहब, आप लोग जन्म उफल कर रहे हैं। हमतो पापी पेटके फंदेमें फसे हैं।” याहॅ वजे मुझे सिटी मनिस्ट्रोट के सामने पेश कर दिया गया। सत्याग्रही होकर मैंने जमानत देना पसन्द नहीं किया। अधिकांश वकीलों में कोई दम नहीं था। मनिस्ट्रोट ने भी बराने की कोशिश की थी। मैंने मित्रों तक को वहाँ पहुंचने की सूचना नहीं दी थी। फिर भी कई लोग मुकदमे के समय अदालत में आते और मेरे लिये फलाहार आदि लाते। पं० चिरंजीवलाल

मिश्र बकील और शंभूनाथजी मुख्यार ने मुझे कानूनी सहायता-देने के लिये अपनी सेवाएँ पेश कीं। मैंने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लीं।

उन दिनों हवालाती कैदी घाट दर्वाजे की पुरानी जेल पर रख्खे जाते थे। यह जगह नीची, तंग और गंदी थी। गर्भी के मारे वड़ी परेशानी रही। अजमेर के हमारे पूर्व परिचित जेलर श्री० राजनारायण सुपरडेंट थे। वे मीठा बोल कर चले गये। दूसरे दिन मुझे डाक्टर के सामने पेश किया गया। वह एक मुसलमान युवक थे जिन्होंने मेरा रेनाल्ड के नाम का पत्र अखबारों में पढ़ लिया था। व्योहारी वातों वातों में उन्हें पता चला कि उस पत्र का लेखक ही उनके सामने कैदी के रूप में खड़ा है तो उनका व्यवहार एक दम बदल गया। उन्होंने मुझे आदरपूर्वक विठाया और कौरन सेंट्रल जेल मिजवा दिया। वहाँ मेरा सारा जेल जीवन अस्पतालमें ही बीता। श्री० कल्याण चखरा पुरोहित मुख्य डाक्टर थे। ये मेरे वचपन के सहपाठी और मित्र थे। इन दोनों युवकों के साथ दिन भर आनन्द में व्यतीत होता था। व्यों ही मैं पहुंचा जेल के दूसरे कैदी बीमारी का घा दवा लेने का बहाना करके मुझे देखने अस्पताल में आते रहे। उन के लिए किसी का अंग्रेजों को चुनौती देकर और दूसरों की सेवा के भाव से जेल में आना नई बात थी। उन का आदर और प्रेम अंत तक कायम रहा। एक दिन क्वेन्ट्री साहब आये। वे ही जेल के इन्सपेक्टर जनरल भी थे। सुपरि-

म्टेन्डेन्ट की इच्छा न होते हुए भी वे इच्छानुसार मुझे 'क्रॉनिकल' कहींरा 'खिलाकर्ती' अखबार भंगाने की अनुमति दे गये। साय ही मेरे खाने पीने, रहने सहने के बारे में राय देने के लिये रियासत के चीफ मेडिकल अफसर डॉ० दलजंगसिंहजी को लिखवा गये। डाक्टर आये और मेरी परीक्षा लेकर राय दे गये कि मुझे बाहर सोने दिया जाय और मेरे साथ प्रथम श्रेणी के राजनैतिक कँड़ी के घोर व्यवहार किया जाय। जेल के क्लक्कों का भी प्रेम हो गया था। मेरे बारे में जो लिखा पढ़ी होती वे मुझसे कह जाते। इस कारावास की मधुर स्मृतियों में श्री० कपूरचंद्रजी पाटणी के व्यवहार और श्री० मणिलालकी कोठारी की मुलाकात का विशेष स्थान है।

सिटी मजिस्ट्रेट श्री० लक्ष्मीनारायण एक कायस्थ ग्रेजुएट थे। पुराने ढंग के सत्तापूजक आदमी थे। उनके पास ऊपर से जो हिंदायतें आतीं, उन्हीं को ध्यान में रख कर मेरे मुक़दमे में कार्रवाई करते। सरकारी पैरोकार थे श्री अच्छुलवाकी। वे अजून मेरे में खिलाकर्ता और कांग्रेस में काम कर चुके थे। और मेरे जेल के साथी और मित्र थे। मुझे मिश्रली की सलाह और सहायता प्राप्त थी, लेकिन अपनी कानूनी तौयारी और पैरवी प्राप्त में खुद ही करता था। आज्ञा भंग तो मैंने ज़रूर किया था। और डंके की चोट किया था। मगर कानून की दृष्टि से खुर्म श्री० बनता था। बात यह है कि ताज्जीरात हिन्द की दृक्षा १८८८ में दूल हुकमी करने से ही अपराध नहीं होता। इस आज्ञा-

भंग से या तो शांति भंग या प्राणहानि होनी चाहिए या सरकारी कर्मचारियों के कर्त्तव्यपालन में वाधा पढ़नी चाहिए या इन दोनों बातों का खतरा पैदा होना चाहिए। मैंने जयपुर पहुँच कर कोई भाषण नहीं दिया था। न कोई भी भड़का हुआ था और न किसी सरकारी काम में खलल पड़ा था। इस्तगासे के गवाहों ने यह सब स्वीकार किया। फिर भी मुझे मजिस्ट्रेट ने ५ मास की कड़ी सज्जा दे ही डाली। मेरी इच्छा तो न थी लेकिन मित्रों के आग्रह पर रियासत की ऊँची अदालतों का नमूना देख लेने के लिए सेशन जज के यहां अपील की।

‘मैंने मिश्राजी से क्रानून की कितावें मांग लीं और अपील व वहस तैयार करली।’ सेशन जज लखनऊ के कोई रिटायर्ड सुसलमान थे। उन्होंने वहस सुनी और कह दिया कि इस्तगासे को कोई केस नहीं बनता। मगर कैसला नव जेल में मेरे पास पहुँचा तो उसमें मुझे बरी नहीं किया गया। वेचारे जज राजनीतिक प्रसाद में आ गये थे। अलंबन्ता उन्होंने सज्जा को कड़ी से सादी में बदल दिया और पांच महीने से घटाकर तीन मास कर दी। लेकिन मैं योड़े दिन बाद महाराजा की सालगिरह पर मियाद से पहले ही छोड़ दिया गया।

सन् १९२५ की ग्रीष्मऋतु में नीमूचाणा कांड हुआ। देशी राज्यों के इतिहास में इस घटना का वही महत्व है जो भारत में जलियांवाला बाग का है। नीमूचाणा अलंबर रियासत का एक छोटा सा गांव है। यहां के राजपूत किसानों को लगान

त्रन्वन्वी और दूसरी कई चकलीफ़ों थीं। अलवर के महाराजा बर्बरिह वित्तनी हुशाप्र बुद्धि रखते थे उत्तनी ही निरुद्धरा तरीयत वाले थे। प्रजा के शोषण और दमन में सिद्ध हर्त्ता थे। महत्वा-कांशाओं में बीकानेर के महाराजा सर गंगारिह के प्रतिस्यर्वी और कृष्णिल नीति में उनके समकक्ष थे। उन्होंने अपने आतंक से प्रजा को भेड़ से भी अविक दब्बू बना रखा था। नीमूचाणा वालों में हुद्द जीवन था। उसको कुचलने के लिए मशीनगन सहित उनकी बड़ी चीं हुक्कड़ी भेज दी गई। उसने सैकड़ों आदमियों को भूत दिया, प्रजा की सम्पत्ति आग लगा कर लंगा दी और वे सब अमानुषिक लीलाएँ कीं लो ऐसे अबसरों पर मानव विटार त्वच्छंड होकर किया करता है। इस मुहिम के नायक श्री० गोपालदास नामक एक पंजाबी थे और वृद्धिश सरकार की सम्पत्ति इस सुकृत्य में महाराजा को मिल ही गई थी। इस घटना को देखे के लिए सभी उपाय किये गये मर्गर सत्य कैसे छिप सकता है? इवर पीड़ितों में से कुछ सेवा संघ में आये, उवर 'हिन्दुत्पान टाइन्स' के एक मनचते पत्रकार ने लास्ती ढंग से महाराजा की कमज़ोरियों में धुस कर अधिकार पूर्ण सामग्री इकट्ठी करली और बंडाजोड़ कर दिया। राजा दुर्जनरिह जावली अलवर के प्रमुख लादीरदार थे। प्रजा की हष्टि से शासक तो बहुत अच्छे न थे, मगर भजनान्दी, राजपूतों के हिमायती और महाराज से अद्भुत थे। उन्होंने मी नीमूचाणा हत्याकाश्चंड-

के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा की। रियासती प्रजा के अनन्य मत्र और सहायक मणिलाल भाई कोठारी ने कई चक्कर काटे और बहुत सी ज्ञातों का पता लगाया। संघ के भेजे हुए सर्व श्री० कन्हैयालाल जी कलयंत्री, लादूरामजी जोशी और ब्रह्मचारी हरिजी भेष बदल कर नीमूचाणा पहुँचे और बहुमूल्य तकसील जुटा कर लाये। अंत में एक जांच कमेटी बनी जिसके प्रमुख कोठारी जी और मैं मंत्री था। कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार हुई परन्तु दुर्भाग्यवश मणिलाल भाई के पास ऐसी गम हुई कि फिर प्रकाशित ही नहीं हुई। फिर भी नीमूचाणा की घटना ने निरंकुश राज्य व्यवस्था के खिलाफ देश भर में तीव्र रोष और स्थायी धृणा पैदा करदी। शहीदों का खून बेकार नहीं गया। महात्मा गांधी जी ने अपनी रियासतों सम्बन्धी तटस्थ वृत्ति के होते हुए भी इस दोहरे स्वेच्छाचार की कड़ी निन्दा की। कानपुर कांग्रेस के समय देशी राज्य प्रजा परिषद् का जो जल्सा हुआ उसमें स्वीकृत नीमूचाणा सम्बन्धी प्रताव महात्माजी का ही बनाया हुआ था।

सेठ जमनालालजी की इच्छा थी कि स्वावलम्बन पद्धति पर राजस्थान में वही खोदी का काम हो। इसके लिए ऐसा चेत्र चाहिए जहां राष्ट्रीय जागृति, कपास की पैदावार, कताई के संस्कार, दुनाई की सुविधा और किसी ग्रकार का संगठन मैजूद हो। विजौखिया में ये सब अनुकूलताएं थीं। उन्होंने जेठालाल भाई नामक कार्यकर्ता को वहां भेजके की इच्छा प्रकट की।

मैंने सेवासंघ की तरफ से पंचायत के नाम उन्हें सहयोग देने की सिफारिश लिख दी। ये सेवक लगन के पक्के थे। जनता बैचार थी ही। खादी का काम शोब्र बढ़ा और नम गया।

सेठजी की प्रेरणा से खादी का व्यावसायिक कार्य बढ़ाने के लिये भी प्रान्त में व्यवस्थित और व्यापक उद्योग शुरू हुआ। कांप्रेस कमेटियों के आधीन खादी मण्डल टोड़ कर अ० भा० चर्खा संब नामक स्वतंत्र संस्था की स्थपना हुई ही थी कि श्री० वलबन्त मांवलाराम देशपांडे राजस्थान शास्त्र के मन्त्री नियुक्त होकर आ गए। ये सांग्रंस के ग्रेनुएट थे। असहयोग काल में कालेज की हिमांस्ट्रोटरी छोड़ कर गुजरात में खादी का काम कर रहे थे। महात्माजी के आशीर्वाद और सेठजी के संरक्षण में इनकी कार्यकुशलता ने काम को फैलाया। एक समय चर्खा संब प्रान्त की बड़ी से बड़ी सेवा—संस्थाओं में गिनी जाने लगा।

योड़े ही अर्से बाद सेठजी ने श्री इरिमाऊ उपाध्याय को अजमेर भेज दिया। ये देशपांडे जी के साथ चर्खा संब के प्रचार मन्त्री का काम करने लगे। ये सुलझी हुई दवियत के, सुसंस्कृत और शिष्ट आदमी थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण—जो बाद में मालूम हुआ—तो या इनकी बाणी की साधना। इनमें लेखक और विचारक दोनों की खूबियां थीं। इनके आगमन के साथ इस प्रान्त में गांधी युग का आरंभ हुआ।

हरीभाऊ जी के आने से थोड़े समय पहले सस्ता साहित्य मण्डल क्रायम हो चुका था। सेठ जमनालाल जी और घनश्याम दास जी बिड़ला की मदद थी। श्री० जीतमल लूणिया जैसे व्यवहारिक, सज्जन और परिश्रमी व्यक्ति मण्डल को मंत्री मिल गये। कुछ दिनों बाद श्री वैजनाथ जी महोदय भी शारीक हो गये। ये सात्त्विक, साक्षर और स्नेही प्राणी थे। सस्ता साहित्य मण्डल ने देश में पहले पहल हिन्दी में गांधी साहित्य सिलंसिले-वार प्रकाशित किया। मण्डल की दूसरी पुस्तकें भी राष्ट्रीय, सुरुचिपूर्ण और उपयोगी निकलीं। दो वर्ष बाद मण्डल ने 'त्यागभूमि' नामक एक सम्पन्न और उच्चकोटि का मासिक निकाला। उसकी खूब ख्याति हुई। कुछ समय तक वह साम्प्राहिक के रूप में जारी रहा। लेकिन कहते हैं कोई ३००००) रु० घाटा दैकर और पत्रकार जगत में एक मधुर सृष्टि छोड़कर अन्त में वह चल वसा।

सन् १९२६ में जोधपुर में असंतोष की लहर उठी। खास शिकायतें वहाँ के प्रधान मंत्री सर सुखदेवप्रसाद के स्वेच्छाचार और खानगी आचरण के खिलाफ थीं। इस राज्य में महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के कारण दलवंदी और पढ़यंत्रवाजी का पीड़ियों से दौर दौरा चला आरहा था। इस बार के आन्दोलन में सार्वजनिक भावना की प्रधानता थी। इसके ज्ञेता भी नये थे और मांगे भी नागरिक स्वतंत्रता से सम्बन्ध रखती थी। राजस्थान सेवा संघ और उभके मुख पत्र से इसे बल मिला। एक

दिन जब मैं लम्बी रामाती से उठा ही था एक लम्बे कङ्कड़ के चुवक, चौकड़ीदार कंबल का ओवरकोट और क्रेल्ट की टोपी पहने हुये आये। उन्होंने अपना परिचय खुद हो दिया। ये मारधाड़ की नवीन जागृति के नवीन नायकं व्यास नयनाशयण थे। उस समय तो बड़े संकोची लीब जान पड़े, मर्गर जैसे-जैसे परिचय वहाँ उनकी विनोदशीलता, स्वतंत्र प्रकृति, उत्कट देशभक्ति, राजनैतिक दुष्टि और स्वाभिमान आदि अनेक गुणों का अनुभव हुआ। इनमें लिखने, बोलने और प्रचार करने की शक्तियों का अच्छा संचय हुआ है। इनके साथी भवरलाल जी चताक की सरलता और निर्भकिता का परिचय भी इन्हीं दिनों मिला।

मेवाड़ और बून्दी के आंदोलनों में पथिकली से जिन लोगों को विशेष प्रेरणा मिली उनमें स्व० लंबरलालजी स्वर्णकार का नाम उल्लेखनीय है। नेत्रहीन होकर भी इनमें कवित्व शक्ति थी। वे मेवाड़ी गाने बनाते और उन्हें गाकर देहाती जनता में जागृति का सन्देश पहुंचाते थे। इस सेवा के पुरस्कार स्वरूप उन्हें दोनों राज्यों में जेल की हवा खानी पड़ी। इस समय वे बून्दी की तरफ से अजमेर जेल में लम्बी सजा भुगत कर छूटे थे।

इसी साल मुझे रचनात्मक कार्य के सचालन के लिए विजौलिया जाना पड़ा। रास्ते में नीमच में सेठ नयसलजी चोराड़ी से जान पहचान हुई। उन्होंने स्थानीय हरिजनों का साथ बारे कहरपंथी समाज के मुकाबले में अकेले दस दिया था। समाज-

सुधार के काम में भी वे जाति के चिरोघ की परवाह न करके अप्रगामी रहे थे। उनकी जिदादिली और बहादुरी के लिए सभी के दिल में प्रेम और मान पैदा होता था। वे १९३० के सत्याग्रह में प्रान्तीय कांग्रेस के प्रधान की हँसियत से जेल भी गये थे और जीवन के अन्तिम समय में स्त्रीशिक्षा के लिए एक बड़ी रक्खा दान कर गये थे।

इस वर्ष जब मैं विजौलिया में काम कर रहा था तो अंजना-देवी और रामसिंह मेरे साथ थे। इनके अलावा जयसिंह और चृद्धसिंह नामक हमारे दो युवक जेठालालजी के साथ खादी कार्य करते थे। वे दोनों बेगूं के किसान थे। इन्हें संघ के आनंदोलन ने प्रभावित किया था। सामन्तशाही के अत्याचारों से हुब्ब होकर उनका अंत करने की वे प्रतिज्ञा ले चुके थे। जयसिंह उनमें अधिक आदर्शवादी था। प्रामीणों को कुदुम्ब और जमीन का मोह प्राणों से भी अधिक होता है। जयसिंह ने दैश सेवा की खातिर दोनों का त्याग कर दिया था। रावड़दा ठाकुर के अमानुषिक जुलमों का ढंड देने के लिए इन सबके दिलों में आगसी जल रही थी। तीनों नौजवानों ने ठाकुर के खिलाफ संशब्द कार्रवाई करने की योजना बनाई। यह उस समय की बात है जब मैं बीच में किंसी काम से अजमेर चला आया था। पीछे ये तीनों गिरफ्तार करके जयपुर भेज दिये गये। इस अवसर पर इन्हें लगभग १०० मील पैदल चलाया गया और कई तरह से जलील और पीड़ित किया गया। योड़े दिन उदयपुर जेल में रख कर विना मुकद्दमा चलाये ही रामसिंह को राजनगर

और मोही में तथा क्यासिह और वृद्धिसिह को बेगुं इलाके में नज़रबन्द कर दिया गया। कुछ असे बाद रानसिह और लयसिह इन बन्वन्तों को ढोड़कर अन्नमेर चले आये।

सन् १९२७ में गांधी आंश्रम की स्थापना हुई और हृष्टंदी में पकड़े मकानात बने। यहीं गांधी सेवा संघ की राजस्थान शास्त्रा कायम हुई। उपाध्यायजी इसके संचालक नियुक्त हुए और महोदयजी, बावाजी और लूणियाजी सदस्य हुए। इस प्रधार प्रान्त में सत्याग्रह तत्व के प्रचार और रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति के लिए विधिवत और संगठित प्रयत्न शुरू हुए।

इस असे में प० अरुनलालजी सेठी के नेतृत्व में कांग्रेस का काम होता रहा। उनके मुख्य मायी मिर्जा अब्दुल कादिरबेग, प० चंद्रलालजी भारव और ओसिरेमल दूगड़ रहे। परन्तु सन् १९३० तक जनसाधारण का समर्थन बहुत कम रह गया था। कोई खास राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था और रचनात्मक प्रवृत्तियां अधिकतर गांधी सेवा संघ और चर्चा संघ ने अपना ली थीं।

सन् १९२८ में पर्यटकनी उदयपुर जेल से छूट कर आये। उनकी रिहाई के माय ही मेवाड़ सरकार ने भविष्य के लिये स्थानान्तर में उनका प्रवेश निपिछ कर दिया। मैं इस समय भरतपुर में राजस्थान हिन्दी माहित्य सम्मेलन में होता हुआ कलकत्ते गया था। सरतपुर का यह आयोजन श्री० चेमानन्दजी राहत और अधिकारी जगन्नाथदासजी के परिश्रम का फल

या। महाराजा किशनसिंहजी की पूरी मदद थी। उन पर भारत सरकार के कोप के बाइल मंडराने शुरू हो गये थे। कारुण जाव्हे में तो यह या कि पिछली बाढ़ के समय प्रजा पर बढ़ी ज्यादतियां हुई थीं। शासन में बहुत सी खराबियां थीं और महाराजा के कृपा पाव्र राजा किशन के स्थिताफ़ गम्भीर व्यक्तिगत शिकायतें थीं। साय ही यह भी सच था कि महाराजा कुछ दबंग आदमी थे। मरकार की तरफ से आपत आतो देख कर उन्होंने सार्वजनिक ज़ेत्र में क़दम उठाया और नेताओं का आशीर्वाद लेकर लोकप्रियता का सहारा हूँढ़ा। परन्तु जैसे विदेशी नौकरशाही की प्रजा के प्रति चिंताशीलता बनावटी होती है वैसे ही हमारे अधिकाँश राजाओं को देशभक्ति भी कमज़ोर सी होती है। इसमें औंध की तरह प्रजा सेवा की सच्ची जावना और व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता हो तो साम्राज्यवादी सरकार इनका कुछ नहीं दिगाड़ सकती। अस्तु, भरतपुर सम्मेलन के समाप्ति प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता पं० गौरीशंकर हीराचन्द्र ओमा हुये थे और कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा महामना मालवीय जी ने स्वयं पधार कर सम्मेलन का गौरव बढ़ाया था। सेठ जमनालालजी भी उपस्थित हुए थे। जलसा शानदार रहा।

कलकत्ते में अप्रवाल महासभा का अधिवेशन था। श्री० केशवदेवजी नेवटिया सभापति थे। यह पहली जातीय संस्था थी जिसने शुरू से अपनी नीति और गति विधि प्रगतिशील

राष्ट्रीयता और रियासती जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुकूल रखें। इस समय पुराने विचार के लोगों और सुधारकों में ज्ञान का द्वन्द्व छिड़ा हुआ था। मैं भी शरीक हुआ, मगर मेरा असली उद्देश्य तो देशी राज्यों की जनता के पक्ष को गति देना और संघ के लिए धन-संप्रह करना था। इस अवसर पर चार मारवाड़ी मित्रों से विशेष परिचय हुआ। इन्हीं के प्रयत्न से मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति में अच्छी सफलता मिली। इनमें से पहले थे श्री० कन्हैयालाल चितलांगिया। इनसे मुलांकात तो सीकर के जाट आन्दोलन के सिलसिले में फतहपुर में ही हो चुकी थी, मगर घनिष्ठता कलकत्ते में हुई। ये और श्री० मदनमोहनजी सारडा एक साथ रहते थे। मैं इन्हीं के यहां ठहरा। दोनों अत्यन्त सभ्य, सुसंस्कृत और स्वाभिमानी थे। उनका रहन-सहन देखकर एक आदर्श राजस्थानी गृहस्थ की कल्पना होती थी। घनिकों में सुभ पर श्री० रामकृष्णजी मोहवा और श्री० सोहनलालजी दृगढ़ की बहुत अच्छी छाप पड़ी। दानी तो कई देखे थे, परन्तु इनकी उदारता में अमाधारण नम्रता थी। वे दिल खोल कर देते थे और अद्वा के साथ देते दे। बदले में कुछ नहीं चाहते थे।

कलकत्ते में मुझे परिकल्पी के छूटने की खबर मिली। मैं सेठ जमनालालजी के साथ उड़ीसा का प्रवास करके और वहां की दृद्धिता का हृदय विद्वारक दृश्य देखकर लौटा ही था कि यह समाचार पाकर अवूरा काम छोड़कर अलमेर चला आया। यहां

पं० नित्यानन्द नी नागर ने पथिकजी के सम्मान में एक शानदार भोज दिया जिसमें नगर के सभी राष्ट्रीय कार्यकर्ता और कई भद्र पुरुष शारीक हुए।

लेकिन इसी बज्जत यह दुःखद समाचार आया कि करौली के कुंवर मदनसिंहजी संसार में नहीं रहे। वे राजस्थान के उन विरले आधुनिक वीरों में से थे जिन्होंने राज्य के लीतर रह कर शासन से लोहा लिया। उनके पिता करौली के दीवान रह चुके थे, और वे चाहते तो उन्हें भी किसी उच्च पद की मात्री सुविधाएं मिल सकती थी। लेकिन परमात्मा ने उन्हें एक शेर का हृदय दिया या जिसमें एक अहिंसक की सेवा भावना कूट कूटकर भरी थी। उन्होंने करौली राज्य में हिन्दी को राष्य भाषा बनाने, शिकार, वेगार और लगान की ज्यादतियों से किसानों को राहत दिलाने और शासन सुधार कराने के लिये वरसों तक रियासत से टक्कर ली, अखवारों में खूब आनंदोलन किया और अन्त में आमरण उपचास तक का सहारा लिया। भगवान् ने उन्हें खासी सफलता भी दी, परन्तु 'दीर्घजीवन नहीं' दिया। वे राजस्थान सेवा संघ के सदस्य और मेरे धनिष्ठ मित्रों में से थे। करौली राज्य में जो कुछ जाप्रति और सेवा कार्य दिखाई देरहा है वास्तव में वह मदनसिंहजी के ही पुण्य बोज का फल है।

इस समय भेवाड़ के प्रधान मन्त्री के आसन पर सर सुखदेवग्रसाद आसीन थे। ये राजस्थान के आधुनिक चारिंक्य माने जाते थे। इनके लिये हॉलैंड साहब का यह भत था कि

मध्यकालीन भारत में हुये, होते तो कहीं के राजा वन वैठते। इनके और बीकानेर 'महाराजा गंगासिंहजी' के बीच प्रतिस्पर्धा थी। व्यासजी वगैरः के आन्दोलन के परिणाम स्वरूप ये जोधपुर से निर्वासित होकर कई वर्ष अजमेर रह चुके थे। मेवाड़ पहुंच कर उन्होंने पथिकजी को छोड़ने के साथ ही किसानों को दबाना शुरू किया। विजौलिया के समझौते की कुछ शर्तें ठिकाना तोड़ रहा था और राज्य समझौते में रही हुई खासियाँ सुधार नहीं रहा था। इस पर असंतोष बढ़ा और कोई सुनवाई न होती देख कर किसानों ने माल ( वारानी ) जमीन से इस्तीका दे दिया। इस जमीन पर लगान का बोझा बहुत भारी था। किसानों को शिकायतें दूर करने के बजाय ये जमीनें महाजनों, हरिजनों और जागीरदारों वगैरः को बेच दी गईं। इस वक्त तक पथिकजी छूट आये थे।

विजौलिया के किसान अपने आग्रहपूर्ण निमंत्रण पर पथिकजी और साथ में मैं और हरिजी भी रखाना हुये। हम तीनों का ही मेवाड़ में जाना मना था। इसलिये हम लोग खालियर के सिंगोली इलाके में फूसरियाँ, गांव पहुंचे। यह विजौलिया की सीमा पर है। यहाँ के किसान सत्याग्रहियों के सागे सम्बन्धी और उनकी प्रवृत्तियों से बाक़िक थे। हमारे साथ शोभालालनी व केसंरपुरा खालियर के पटेल रामवर्षशक्ती आर्य भी हो लिये थे। वे हमारे पुराने मित्र व संघ के भक्त थे। पथिकजी के दर्शनों के लिये इला के भर के लोग आये। दिन भर

स्त्री-पुरुषों का तांता लगा रहा। हरेक ने अपनी श्रद्धा प्रगट की, सत्याग्रह की प्रतिज्ञा को दोहराया और पथिकजी ने उन्हें प्रोत्साहन देने वाला भाषण दिया। मेवाड़ सरकार और विजौलिया ठिकाने को हम लोगों का इस तरह उच्चर जाना और लोगों का सम्मान प्रदर्शित करना खटका। उनकी बुड़ी सबार सेना की एक ढुकड़ी रस्ते में बात लगा कर बैठ गई जहाँ सड़क का कुछ भाग मेवाड़ की हड़ में से गुच्छरता था। हम लोगों का कार्यक्रम दूसरे रोज़ सुवह प्रस्थान करने का घोषित हो चुका था। इसकी ख्वर पाकर मेवाड़ी अधिकारियों ने हमें भार्ग में से ही पकड़ ले जाने की योजना बनाई थी। रात को न्यारह बजे जब हम दिन भर के थके माँझे आराम करने की तैयारी कर रहे थे तो रामबखशजी सिंगोली के सरकारी हल्कों से इस चोलना की ख्वर लेकर आये। हमारा कार्यक्रम तुरन्त बदल गया। हमारे तांगे सिंगोली में ही रहे और हम रात के एक बजे 'जब सारी दुनियां सोती थीं' पैदल चल दिये। चांदनी रात थी। हम कोई एक दर्जन साथी थे। आगे-आगे बानकार पथ-प्रदर्शक थे। सड़क छोड़कर चले और सुवह होते होते खररे से बहुत दूर निकल गये। उच्चर रामबखशजी तड़के ही तांगे लेकर चले। रस्ते में मेवाड़ी वीरों की फौज मिली। यह लानकर कि शिकार हाथ से निकल गया बेचारे हाथ मल कर घर लौट गये। योड़े दिनों बाद पथिक जी को और मुझे न्यालियर से यह आङ्गों मिली कि हम दोनों मेवाड़ से लंगे हुये दस मील के सीधिया इलाके में नहीं जा सकेंगे।

इस समय राजस्थान में काम करने वाले मुख्य तीन दल थे। देशी-राज्यों की राजनीति सेवा संघ के हाथों संचालित होती थी। पथिक ली उसके मुखिया थे। कांग्रेस के नेता सेठीजी थे। उसकी अलमेर और व्यावर शाखायें सजीव, केकड़ी और पुष्कर में नाम भाव की और कोटा, करौली, जोधपुर और इन्दौर की विद्यमान थीं। तीसरा दल गांधीवादियों का था। इसके असली नायक सेठ जमनालालजी थे, मगर उसके स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में हरिभाऊ ली काम करते थे। तीनों में सहयोग का अभाव था। भीतर भीतर विरोध की भावना भी काम कर रही थी। सेवा संघ की इच्छा थी कि कम से कम गांधी दल के साथ सहयोग रहे। पिछले लम्बे कारावास में गांधी जी के प्रति पथिक ली की अद्वा व्यक्ति से आगे बढ़कर विचारों के ज्ञेत्र तक पहुँचती नज़र आरही थी। वे सावरमती गये, वापू से मिले और सेठजी से चर्चा की। परन्तु सहयोग का रास्ता मुगम्ब न हुआ। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।

बड़े दिन की छुट्टियों में बम्बई में अग्रिम भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की बैठक हुई। यूं तो सन् १९२३ में दिल्ली में और १९२५ में कानपुर में भी परिषद के जल्से हो चुके थे, परन्तु वे शुरुआत मात्र थे। उन्हें आठ करोड़ प्रजा जनों के प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता था। यह स्वरूप एक हद तक बम्बई के अधिकारण को मिला। राजा और अंग्रेज दोनों की इस पर नज़र पढ़ी। इस संस्था पर वीकानेर महाराजा की शुरू-

से ही गहरी और देढ़ी आंखें रहीं। इस अविवेशन पर देश के कौने कौने से ख्यासती प्रला के प्रतिनिधि आये। उस बज्जतः भारतीय रजवाड़ों में दो इल कियाशील थे, राजस्थान में सेवा संघ और काठियावाड़ में सौराष्ट्र मंडली उसके नेता श्री अमृतलाल जी सेठ थे। इनका गुजराती साताहिक 'सौगढ़' एक खोदार और प्रमावशाली पत्र था। सौराष्ट्र सेवा समिति उनकी एक अच्छी और संपन्न सेवा संस्था थी।

सर्व श्री० बलबन्धराय मेहता, कक्ष माई कोठारी, मणिशंकर त्रिवेदी और मन्नेरचन्द्र मेवाणी वैसे योन्य कार्यकर्त्ता अमृतलाल माई के सहायक थे। इनमें और सेवा संघ में खास भेद यह था कि 'सौगढ़' इल शहरी आन्दोलन करता था और ख्यासतों में वृटिश हस्तक्षेप का विरोधी नहीं था, जब कि सेवा संघ गांवों में काम करता था और अंग्रेजों का दखल नहीं चाहता था। परिषद के संयोजन और सचालन में सौराष्ट्र मंडली की प्रवानता थी। सेवा संघ का सहयोग था। श्री० मणिलालजी कोठारी सेवासंघ के साथ थे। वृटिश हस्तक्षेप सम्बन्धी नीति के चारण कांप्रेस के नेताओं और महात्माजी का आशीर्वाद परिषद को प्राप्त नहीं हुआ था और समाप्तित्व के लिये उसे नज़्दीक के महारथियों पर निर्भर रहना पड़ता था। बदनुसार इस अविवेशन के लिये सद्राच के दीवान बहादुर रामचन्द्रराव अव्यक्त चुने गये, परन्तु लोगों की आंखें परिकल्पी की और लगी हुई थीं। उनका बैद्य त्वागत हुआ

वैसा अध्यक्ष का नहीं हुआ। वे उपाध्यक्ष चुने गये और मैं राजपूताना भव्यभारत और पंजाब के लिये मन्त्री। इस परिषद में दिवासी प्रजा की तरफ से अंग्रेज लन्ता को अपनी स्थिति समझाने के लिये एक डेपुटेशन लंदन भेजना तय हुआ। बटलर कमेटी के सामने प्रका पक्ष रखने का भी सबाल था। लेकिन उसने हमारे प्रतिनिधियों की बात तक नहीं पूछी। इस अविवेशन में सर्व श्री० राजा गोविन्दलाल पित्ती, निरंजन शर्मा अंजित और मदनलाल जालान से विशेष सम्पर्क हुआ। पित्ती जी मारवाड़ी समाज के बड़े धनियों में एक होने के अलावा उच्चशिक्षित और रियासती राजनीति में अच्छा रस लेने वाले थे। अंजितजी मंजे हुए पत्रकार तो थे ही। इनके स्पष्ट वक्ता, तबीयत के साक और वकादार मित्र होने का भी अच्छा अनुभव हुआ। देशी राज्यों की प्रजा के प्रति इनकी निष्ठ, भक्ति में कभी कँकँ नहीं आया। जालानजी वस्त्रई के मारवाड़ी कार्यकर्त्ताओं में प्रमुख थे। वे और उनके साथी सर्व श्री० श्रीनिवास विगड़ा, प्रेमचन्द्रजी केंद्रिया और कुछ दूसरे लोग राजस्यान की सेवा सत्याओं और प्रवृत्तियों को बाबर बल और सहायता पहुंचाते रहते थे।

बब दूसरे परिषद से लौट कर आये तो खबर मिली कि भरतपुर के महाराजा किशनसिंहजी और अंग्रेज सरकार के सम्बन्ध दिन २ विगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ उनकी मनमानी कार्बियों और उड़ाऊ खाऊ नीति से प्रजा

कुछ और व्रत हो चुकी थी। दूसरी तरफ उनके स्वाभिमानी रखैये को अंग्रेज प्रभु नापसन्द कर रहे थे। इसी तनातनी में महाराजा ने अपने विचारों और कार्यों में योद्धी राष्ट्रीयता और योद्धे लोकतन्त्र की भलक दिखाना शुरू कर दिया। वस उनकी और भारत सरकारके पोलीटीकल डिपार्टमेंट की ठने गई। जब वात बहुत बढ़ती दिखाई दी तो उन्होंने सेवा संघ को याद किया। पथिकजी और मैं भरतपुर पहुंचे। हम लोगों ने प्रजा पक्ष को अच्छी तरह जानने और उसे पूरी तरह सन्तुष्ट करने पर जोर दिया। इसमें महाराज के अहंकार और कमज़ोरियों ने बाधा दी। फल यह हुआ कि उनसे हमारी मुलाकातें तो हुईं और खुल कर वात चीत भी हुईं, मगर सहयोग न हो सका। योद्धे समय वाद महाराजा और उनके सहायक अधिकारी जगन्नाथ-दास वर्णरा निर्वासित कर दिये गये और भरतपुर में अंग्रेजों के आधीन नावालगी शासन कायम हो गया। कुछ समय वाद महाराजा किशनसिंह चल वसे।

भरतपुर के संवन्ध में कुछ भी लिखते समय श्री० गोकुलजी वर्मा का उल्लेख करना अनिवार्य है। सेवा सब के प्रारम्भ से ही वे हम लोगों के साथी और सहायक रहे। कुशासन के खिलाफ आन्दोलन हुआ तो वे प्रबा के अगुवाए, हरिजन सेवा संघ का भार उठाने का मौका आया तो उन्होंने अपने कंधे आगे कर दिये थे और प्रबा मंडल का युग आया तो वे बीच खेत मौजूद थे। सार यह कि इस सैनिक संस्कार वाले

इशेर ने भरतपुर के आधुनिक इतिहास में अचल होकर शुरू से आखिर तक प्रजा पक्ष का नेतृत्व किया। इस कठिन कार्य में उन्हें जेल की यातनायें सुगतनी पड़ीं, आर्यिक कष्ट उठाने पड़े और अनेक बार अकेले दम लड़ना पड़ा। इनका हृदय स्फटिक की भाँति स्वच्छ है। वे जितने उत्कृष्ट देशभक्त हैं उतने ही सुधारक भी हैं।

यह समय वह था जब अंग्रेज राजनीतिज्ञ भारतीय नेताओं को ताने मारा करते थे कि कोरो टीका से क्या हो, कोई योजना पेश की जाय तो उस पर विचार भी हो। भारत मंत्री, लार्ड चर्कन्हैड इन आलोचकों में मुख्य थे। जबाब में कांग्रेस की ओर से एक सर्व दल सम्मेलन खुलाया गया। सम्मेलन ने पं० शोभालाल नेहरू की अध्यक्षता में विधान बनाने के लिए एक कमेटी सुक्रिटर की। कमेटी ने वही मेहनत करके एक योजना तैयार की जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से विख्यात हुई। लखनऊ में सर्व दल सम्मेलन का खुला अधिवेशन हुआ। उसमें कोठारीजी, पथिक जी, शोभालाल जी और मैं रियासती जनता के प्रतिनिधि बन कर गये। कमेटी ने राजाओं के इस दावे को रखारिज किया कि उनका सोधा संवंध सम्राट से रहे और यह राय दी कि वे वर्तमान की तरह सविष्य में भी भारत की राष्ट्रीय सरकार के साथ सम्बन्ध रखें। मुझे याद है इस विषय पर घोलते हुए कोठारीजी के मुँह से कुछ राजाओं के लिये 'नामद' शब्द निकल गया था। इस पर बीकानेर भहाराजा बड़े बिगड़े और एक भाषण

में अपनी और अपने पुरुओं की तलबार की याद दिलाने पर  
चंतर आये। राष्ट्रीय पत्रों ने इस दर्प का उत्तर देते हुए ठीक  
ही कहा था कि जो लोग विदेशियों के सामने भेड़ बने रहे और  
अपनों को शमशेर दिखावें वे मर्द तो नहीं कहे जा सकते।  
राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में इसी साल एक बड़ी दुखद  
घटना हुई। सेवा संघ में आपसी-मतभेद हो गया और पथिकजी  
से हम लोग अप्रिय तृप्ति में अलग पड़ गये। संघ और उसका  
सुख पत्र श्री मणिलालजी कोठारी के सुपुर्द कर दिया गया।  
चंनकी देवरेख में श्री० जयनारायणजी व्यास और ऋषिदत्त जी  
मेहरा 'तदण राजस्थान' को व्यावर ले जाकर चलाने लगे।  
लेकिन इसके बाद न वह संस्था रही और न उसकी आवाज में  
वह ज्ओर रहा। सचमुच कई बातों में वह संस्था अद्वितीय थी।  
उसके लगभग दस साल के जीवन में उसके सदस्य व कार्यकर्त्ता  
सभी कौटुम्बिक भावना के साथ रहे। संघ के सिवाय उनके  
दूसरे पारिवारिक संबंध गौण हो गये थे। वे सब एक साथ खाते  
पीते व सब एक साथ रहते थे। संघ के साथ उनका इतना  
ममत्व था कि निकट सम्बन्धियों के आतिथ्य का भार भी वे  
संस्था पर न पड़ने देते थे। खुदा सूखा खाकर और मोटा मोटा  
पहन कर काम में लगे रहने की ही उनमें धुन थी। ऐसे प्रसंग भी  
उस्ये जब उन्हें महीनों दूध और धी के दर्शन नहीं हुए। उनके  
हाथ में पैसा आता तो अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं पर  
छर्च करने से भी अधिक खयाल उन्हें किसी प्रजाःहृत सम्बन्धिक  
प्रेस्त तार भेजने का रहता था।

छोटे से छोटा काम करने में उन्हें संकोच नहीं था। रेल के में वे अपना सामान आप रुद उठाते थे और ऐसे भी मौके आये कि लो आदमी पत्र का संपादक और संस्था का पदाधिकारी था, वही अखबारों की ओरी अपनी पीठ पर लाद कर डाकखाने में डाल आया। मेहनत सी वे लोग बारह चौदह घंटे से कम नहीं करते थे। देहात का पैदल सफर और अपना सब काम अपने हाथों कर लेता मामूली चात थी। अनुशासन की वैसी मिसाल शायद राजपूताने में तो किसी दूसरी संस्था में नहीं मिल सकती। अपने नेता के सिवाय कोई भी कार्यकर्ता व्यक्तिगत प्रकाशन नहीं करता था। संगठन इतना मज्जबूत था कि मुट्ठी भर आदमी होते हुए भी राजप सत्ताएँ यह समझती थीं कि संघ के पास कार्यकर्ताओं की कोई बड़ी सेना होगी। इस नाजुक अवसर पर भी स्व० विद्यार्थी जी ने कानपुर से आकर मेल मिलाप कराने की कोशिश की, परन्तु विकारों की प्रधानता होती है तो दिलों की सफाई आसानी से नहीं हुआ करती। आखिर वह सफाई सन् १९३५ में हुई। इस बीच में मैंने अपनी भूल तो अर्से से अनुभव करली थी परन्तु पथिकली की ओर से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला था। एक दिन वे नारेली आये और आंखें झर कर कहने लगे, “मैंने तुम लोगों जैसे साथी खोकर जीवन की सबसे बड़ी भूल की।” उनके हृदय से निकले हुए इस एक चाक्यने हमारा आपस का साता मैल धो दिया। वस्तुतः दिलों की सफाई इसी तरह हुआ करती है।

छठा अध्याय

## कुछ स्वतंत्र विचरण

सो वा संघ के दूट जाने के बाद ही मुझे राजपूताने की रिया सती प्रजा परिषद बुलाने की धून सवार हुई। अजमेर का बातावरण अनुकूल नहीं था। अनेक दिशाओं से विघ्न बाधाएँ आईं। परन्तु स्वतंत्र होकर कुछ कर दिखाने का हौसला और कठिनाइयों के बीच में से रास्ता बना लेने का आत्म-विश्वास हार मानने को तैयार नहीं था। आस पास के रज-बाड़ों में कार्यकर्त्ता भी ऐसे आयोजन के लिए उत्पुक्त थे। श्री० अमृतलाल सेठ ने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। कोठारी जी की सहानुभूति थी। पं० जियालाल और उनके साथी मेरी पीठ प्रर थे। अतः परिषद हुई और सफलतापूर्वक हुई। लेकिन अवांछनीय हाथों में पड़कर मृत्यु के गाल में चिलीन हो गई।

इस अधिवेशन की कामयादी और उसके अनुचित विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप एक तरफ़ मुझे नये मित्र और सहायक मिले और कुछ नया और कठिन लगने वाला काम करने की प्रेरणा हुई। शोभालाली की सहायता से फरवरी १९२६ मे

“वंग राजस्यान” नामक अंग्रेजी साप्तारिक निकाला। अनेक मित्रों ने इसे एक दुष्प्राहस ही समझा। परन्तु बाद में उन्हें अफ़सोस रहा, न हमें। सखारी हल्कों तक में वह पत्र चाब से पढ़ा जाने लगा।

हम लोग व्यावर जाकर वसे ही थे कि सेठीजी और उनके दोतों के साथ हरिभाऊ जी के दल का चुनाव चुद्ध छिड़ गया। यह प्रान्त के राजनीतिक नेतृत्व में आमूल परिवर्तन का प्रयत्न था। बाबाजी उपाध्यायजी के दाहिने हाथ थे। उनके कारण कई परस्पर विरोधी व्यक्तियों का भी सहयोग मिल गया। चुनाव लड़ा गया। भूंठे मेन्वर बनाये गये, उनके लिए खादी के कपड़े बनवा कर ‘श्रीन रूप’ पद्धति का उपयोग किया गया और बनावटी गवाहियां और सबूत पेश किये गये। संस्थाओं का दुरुयोग भी हुआ। गर्ज यह कि दोनों तरफ़ से अवांछनीय कार्रवाइयां हुई। पं० जियालालजी से उपाध्यायजी को बड़ी मदद मिली। रुपये का बज्जे तो अधिक था ही, जन वल भी मिल गया। लोग परिवर्तन भी चाहते थे। सेठीजी परास्त हुए। उन्हें ऐसी चोट लगी कि फिर नहीं पत्ते। अधिकांश मुख्लमान कार्यकर्त्ताओं के दिल उसी समय से कांग्रेस से फिर गये और उनमें से कुछ लोग धीरे धीरे साम्प्रदायिकता के गर्त में गिरते चले गये। प्रान्तीय कांग्रेस में गांधीजीवादी दल की प्रवानता हो गई और राष्ट्रीय जीवन में यात्विकता और प्रतिष्ठा की झलक सी आ गई। परन्तु पारस्परिक मतभेद फिर भी न मिटे और जैसी-

आशा की गई थी उसके अनुसार कांग्रेस संगठन में बल नहीं आ पाया।

हिंसा की नीति की निष्कृतता और अवांछनीयता का तो मैं दस साल पहले ही क्रायल हो चुका था। इस अर्से के अनुबव और पिछले दो साल के झगड़ों ने 'शठं शाठ्यम्' के परिणाम इतने नज़र और भयंकर रूप में दिखाये कि आत्मा प्रबल रूप से गाँधी जी की ओर आकृष्ट हुई। सेठ जमनालालजी के वर्साले से मैं अगस्त या सितम्बर १९३० में सावरमती पहुँच गया। लगभग एक मास महात्माजी के निकट स्थानिध्य में रहा। उनके आदेश से मैं दिन भर उनके पास बैठा तकली चलाया करता, उनकी गति विधियां देखा करता, उनके सम्बाद सुना करता और अवकाश में अपनी शंकाओं का समाधान किया करता। एक दिन की बात है। बृटि मज्जदूर दल के एक प्रमुख व्यक्ति और पर्लियामेन्ट के सदस्य कमाण्डर केनवर्दी महात्माजी से मिलने आये। उन्होंने बृटिश शासन के प्रति भारतीय आरोप सही मान कर पूछा "देशी रजवाहों के लिए आप क्या कहते हैं?" गांधीजी ने तुरन्त उत्तर दिया, "वहां का हाल अंग्रेजी इलाके से बुरा है, मगर उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप का हाथ उनकी पीठ पर से हट नाय तो राजा या खुद सुधर जायेंगे या हम उनसे निवट लेंगे।" कमाण्डर बोले, 'रियासतों में हमारे एजेन्ट जुल्म को रोकने के लिए ही तो हैं।' सरदार बल्लभ भाई कव चूकने वाले थे। बीच में ही कह उठे, 'अगर मुझे किसी

रियासत में रेजोड़ेट बना दिया जाय तो सात पीढ़ी तक कमाने कजाने की किकर ही न रहे।'

इस छोटे से सम्बाद में रियासती राजनीति का सार आगया था। मेरा जीवन देशी राज्यों की प्रजा की सेवा में अर्पण हो चुका था। इसी प्रश्न पर महात्मा जी के विचारों से भवभेद था। वह इष्ट बार दूर होगया। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्ताव किया कि मैं सारा समय लगाने को तैयार हो जाऊं तो उन्हें रियासतों की सेवा के लिए एक अखिल भारतीय संस्था की जी ब डालने तक मैं खुशी होगी। मुझे और क्या चाहिये था? खुश होनया। गांधी जी ने खुद विधान तैयार किया और संस्था का पथ प्रदर्शन करना स्वीकार किया। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठ जमनालाल जी व श्री मणिलाल जी कोठारी एक मत न हो सके और वह योनना कागज पर ही रह गई। आगे चलकर मैंने हरिनन कार्य के विस्तार से जखर लाभ उठाया। गांधी जी ने तत्काल आदेश दिया, 'तुम पत्रकार बनकर अपनी शक्ति को क्यों व्यर्थ खोरहे हो? कोई ठोस काम करना चाहिए। अखबार बन्द करके मेरे पास चले आओ।' शोभालाल जी को मेरी यह भावुकता और जल्दी पसन्द तो नहीं आई, मगर मुझे जारी करने-को उनका जी नहीं चाहता था। उनका स्तेह साथीपन की सीमा पार करके आत्मीयता की शक्ति अखत्यार कर चुका था। उन्होंने मिर्झा अपलेख पर शेक्सपीय की दो पंक्तियां लोड़कर अपनी पीढ़ा व्यक्त करदीं और डेराढ़ंडा उठा-

कर मेरे साथ हो लिए। लाहौर कांग्रेस के तुरन्त बाद हम दोनों सपरिवार सत्याग्रह आश्रम पहुँच गये।

व्यावर में हम लगभग एक साल रहे। इस प्रवास में दो व्यक्तियों से खास सम्पर्क आया। पहले तो थे श्री मुकुट विहारी लाल भारद्वाज। वे ढठते हुए बकील थे। उत्साह, बुद्धि और भावुकता आदि सार्वजनिक जीवन में चमकने की इनमें अनेक पात्रताएं थीं। लिखने बोलने की क्षमता थी, परन्तु बूढ़े पिता के पुराने विचारों का अंकुश उन्हें रोके हुए था। दूसरे आदमी छुग्नमत्त जी बोहरा थे। वे निरे व्यवसायी थे परन्तु उनकी निःस्वार्थ मित्रना अनेक अवसरों पर हमारे काम आई।

सार्वजनिक हृष्ट से 'यंग राजस्थान' के जीवन में श्री० रघुनाथ प्रसाद परसाई का इन्दौर सन्दर्भी पर्चा और उसके आधार पर चलाया गया राजद्रोह का नुक़दमा उल्लेखनीय है। परसाई जी इन्दौर और मालवे के राज्यों की राजनीतिक समस्याओं में दिलचस्पी रखते थे। अखवारों में लिखने के शौकीन थे। उन्होंने इन्दौर के दीवान सर सिरेमल बापना के शासन काल पर एक आलोचनात्मक पर्चा निकाला। वह 'यंग राजस्थान' प्रेस में ही छपा था, लेकिन शुप्र रूप से। उसका पार्सल तो इन्दौर स्टेशन पर पकड़ा गया, परन्तु प्रेस का पता राज्य को पूरी तरह से नहीं चला था। इस बीच में मैं गांधीजी के तत्त्वज्ञान को मानने लगा था। यह रहस्य मैंने उन पर प्रकट करते हुए प्रस्ताव किया कि अधिकारियों को सूचना दे दी जाय तो कैसा रहे? बापूजी को

यह तज्ज्वीज अच्छी लगी और वहीं से मैंने अजमेर के कमिश्नर को इस आशय का पत्र लिख दिया कि उक्त पर्चा मैंने छापा है। इस गैरक्रान्ती कार्य पर मुकदमा चलाना चाहें तो मैं अपने को सहर्ष उपस्थित कर दूँगा। जहाँ तक मुझे खयाल है इस अपराध पर लम्बी काँड़ और भारी जुर्माने की सजा दी जा सकती थी, मगर गिव्सन साहब के लिए और कुछ भी कहा जाय, वे एक शरीक अंग्रेज थे। वे इस घटना को पचारे। मैंने 'यंग राजस्थान' का डिक्टेरेशन व्यावर में दे दिया था। अजमेर के अंदेर में कमिश्नर साहब को इसकी खबर नहीं हुई। उन्होंने मुझसे जबाब तलब किया कि मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाय ? लेकिन जब मैंने वस्तु स्थिति बताई तो उन्होंने अदालत में क्षमा याचना करने में उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं हुआ। अवश्य ही परसाईजी पर इन्हौंर में अभियोग चला और जैसी धारणा थी, उन्हें सजा भी हो गई। लेकिन वापना साहब के पक्ष में यह मानना पड़ेगा कि मुकदमे की कार्रवाई के दौरान में क्रान्ति की दृष्टि से दोष रहे हों तो सीधे कप से कम अभियुक्त को सजा देने और उसके साथ लेल के व्यवहार में बदले की भावना से काम नहीं लिया गया।

'यंग राजस्थान' के सिलसिले में चार सङ्गठकों का चिक्क करना आवश्यक है। सबसे अधिक मदद मिली भाद्रा ( वीक्कानेर ) के त्व० खूबरामजी सराफ़ से। वे राजस्थान के एक पुराने और मूक सेवक थे। इन्होंने जो कमाया उसका

अधिकांश जनसेवा में खर्च किया। इनका हाथ जितना उदार था हृदय उतना ही निर्मल था। इनके दान में अहंता नहीं, विनम्रता रहती थी। दूसरे सहायक राठ साठ विश्वस्त्रनाथजी टंडन थे। इनसे परिचय तो उस बक्तु हुआ जब असेम्बली के चुनाव में इनका और दीठ बठ हरविलासजी शारदा का मुकाबिला था। लेकिन बाद में राय साहब से मेरा स्नेह सम्बन्ध हो गया। ये विचारों में नरम दल के और रहन-सहन में अलमेर के प्रमुख असीरों में थे। मेरे और इनके ख्यालात और जीवन में रात दिन का कर्कि था। मगर इनके प्रेमपूर्ण हृदय, निष्कपट व्यवहार, नियमित जीवन और सिद्धांत निष्ठा ने मुझे सदा के लिए आकर्षित कर लिया। शारदाजी का प्रेम भी मुझे इसी चुनाव में मेरे 'अवैयक्तिक' विरोध के कारण प्राप्त हुआ। चौथे सहायक जोधपुर के प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक और उदार मित्र श्री आनन्दराजी सुराणा थे। अवश्य ही 'यंग राजस्थान' चन्द्र होने पर जब ग्राहकों की तरह सहायकों से हमने पूछा कि वे चाहें तो उनका रूपया वापस दिया जायगा तो चन्द्र खारीदारों के रूपाय किसी ने ऐसी मांग नहीं की।

सातवां अध्याय

## गांधी जी के चरणों में

जनवरी १९३० में जब हम सावरमती पहुंचे तो वहाँ कोई दो सौ स्त्री पुरुष रहते थे। आने वाले सत्याग्रह की तैयारी में देश भर से कार्यकर्त्ताओं का जाना बना रहता था और उन्हें से वहीं रह कर कुछ दिन लान उठाना चाहते थे। नियमों के पालन में इतनी कड़ाई की जाती थी कि एक मास में तीन भूलें हो जाने पर आश्रम छोड़ देना पड़ता था। इतने बड़े समुदाय में स्वतन्त्रता, संयम, सकार्ड, कार्य तत्परता और सहयोग मेरे लिए एक मूल्यवान पदार्थ पाठ था। शरीर श्रम में माझे देने का काम मुझे सदा से प्रिय रहा है। सावरमती में वही मिल गया और वह भी गांधीजी के सेर पर जाने के मार्ग की सफाई का। इसके अलावा मुझे कर्ताई बुनाई सीखने और हिन्दी पढ़ाने का काम दिया गया। मैं लगनग छः महीने वहाँ रहा। आश्रम के कार्यकर्त्ताओं में श्री० नारायणदास गांधी और कु० प्रेमा वृन्द कट्टक की मुझ पर विशेष छाप पढ़ी।

यह वर्ष भारत के इतिहास में एक स्मरणीय काल था। नमक सत्याग्रह छिड़ने वाला था। उसकी तैयारी की चर्चा आश्रम ही में हुई थी। वहीं उसकी

योक्तना वनी। दाएँडी का कूच भी वहीं से शुरू हुआ था। उसमें शरीक होने की मंजूरी तो मुझे नहीं मिली। परन्तु जब 'बुद्धिमानों' के उपहास और शंका का पात्र यह छोटा सा आंदोलन देश व्यापी तूफान की शक्ति पकड़ गया और राजस्थान ने भी उसमें योग्य हिस्सा लेना शुरू कर दिया तो मुझ से न रहा गया। मैं दाएँडी पहुंचा और बापू से अन्मेर जाने की स्वीकृति ले आया। प्रायः सभी पुराने कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके थे। थोड़े दिनों बाद मुझे भी एक साल की कड़ी कैद की सज्जा होगई। इस आनंदोलन में कई नये कार्यकर्ता सामने आये। श्री कृष्ण-गोपालजी गर्ग की बीधुन, किसी प्रश्न की गहराई में जाने की वृत्ति और शक्ति तथा कार्य साधन में अपने शरीर सुख को मुला देने की क्षमता विरलों में ही पाई जाती है। श्री गोकुललाल असावा का त्याग, कांप्रेस निष्ठा और वैधानिक जानकारी उनकी विशेषताएँ हैं। श्री० बालकृष्ण कौल की शान, शिष्टता और बुद्धिशालीनता की छाप हर किसी पर पड़ती है। मास्टर लद्दी नारायणजी का तपस्वी जीवन सबको ग्रेरणा देता था। श्री० लमालुदीन मख्मूँ का भी एक विशेष व्यक्तित्व था। भाई चन्द्र-भानुजी शर्मा से धनिष्टता इसी अवसर पर हुई। उन्होंने असहयोग काल में कालेज छोड़ा था। वे स्थाइके आदि कार्यकर्ताओं में से थे। चौमूँ का उनका सादी कार्यालय शायद देश में पहला उत्पत्ति केन्द्र था। आगे चलकर इनके साथ भी शोभालालजी जैसी आत्मीयता होगई। व्याख्यों से परिचय करने और किसी

नये काम जो खड़ा करने की इनमें गजब की शक्ति है। अपने से वडे को हर हालत में आदर के साथ निभाने का इनमें अद्वितीय गुण है। साथियों के लिये ये खर्च भी खुले हाथों करते हैं। छोटा भाई दुर्गाप्रसाद भी काम धंवा छोड़कर राष्ट्रीय केव्र में उत्तर आया। शुहू से ही खरा, साहसी और सिंगाहियाना प्रकृतिवाला होने के कारण शीत्र ही आगे आगया और स्वयं सेवकों का 'कप्तान' बन गया। उत्र से कांग्रेसी हल्कों में इसी नाम से पुकारा जाता है।

इस आंदोलन में नमक बनाने, शराब और विदेशी कपड़े की दूकानों पर पहरा देने और बड़ी बड़ी सभाओं व जूलूसों द्वारा प्रदर्शन करने का कार्यक्रम मुख्य था। इसमें अजमेर—मेरवाड़ा ने अच्छा भाग लिया। द्यावर ने अजमेर से अधिक लोश दिखाया। अजमेर में भी रामगंज, जोन्सगंज, नगरा बगौर की बाहरी वस्तियों और बसीटी के नौजवानों ने खास दत्साह बताया। विलायती कपड़े का पिकेटिक विशेष हृष से जोरदार हुआ। हिन्दू व्यापारियों ने तो अपने विदेशी माल पर कांग्रेस की मुहर लगाई ही लगवाली। हुब्लु मुसलमान सौदागरों ने दुराग्रह किया और शुहू शुहू में स्वयंसेवकों पर उनके हाथों मार भी पड़ी। भगर इनकी हड्डि सहनशीलता ने अन्त में सब के दिल पिला दिये और विदेशी कपड़ा सभी दुकानों पर विक्री बन्द हो गया। इस काम में श्री० प्यारतचन्द्र विघ्नोई एक आदर्श सैनिक और श्री० दाते एक स्फूर्तिदायक नायक चिद्ध हुए।

विद्यायियों ने भी प्रदर्शन काल में इस आनंदोलन को बलं पहुँचाया। स्थानीय स्कूल कॉलेजों में हड्डतालों हुईं, व्यापारियों ने हड्डतालों के अतिरिक्त सत्याग्रही स्वयंसेवकों के लिये आवश्यक खाद्यसामग्री और धन से भी सहायता दी। श्री० घर्मेन्द्र शिवहरे की देखरेख में ऐसे १५० सैनिकों की एक छावनी खुली। आनंदोलन ने एक समय तो इतना ज्ञोर पकड़ा कि एक ही दिन में ३०० से अधिक गिरफ्तारियां हुईं और विदेशी बख्त धारण करनेवाली देव मूर्तियों के दर्शन पर धरना दिया गया। वच्चों की 'वानर सेना' और उनके जुलूस व प्रभात फेरियां भी इस युद्ध की विशेषताओं में से थीं।

जेल वीचन का अनुनव तो पहले ही एक से अधिक बार हो चुका था। इस बार एक समूह के साथ रहने का काम पड़ा। छोटे बड़े बहुत से कार्यकर्त्ता एक ही जगह दिन रात खाते पीते उठते बैठते थे। विशेष वर्ग का वर्ताव था। काम तो खाना बनाने आदिका अपने आप सम्मिलित रसोई के रूप में करते थे, परन्तु सुविधाएं काफी थीं। बाहर से भी सामान मंगाने की छुट थी। अमृपूर्ण खेलों का तो प्रबन्ध नहीं था, परन्तु लोग व्यायाम काफी कर लेते थे। अपने अपने ढंग से पूजापाठ और अध्ययन भी करते थे। पढ़ने लिखने की सुविधा थी। बाहर से मुस्तकं मंगा सकते थे। अखबार नहीं मिलते थे। सुपरडेट एक अंग्रेज थे। इस पद पर डाक्टर लोग होते हैं—सप्ताह में दो बार कुछ घटों के लिये आते हैं और चक्र बाट-

कर अपना भत्ता पका लेते हैं। उन्हें न इतनी फुर्सत होती है और न इतनी दिलचस्पी कि सब वातों को ध्यान से देखें और अपनी बुद्धि से काम लें। फलतः उन्हें जेलर पर निर्भर रहना पड़ता है। जेलर कुं० कहतसिंह एक मज्जेदार आदमी थे। उनमें राजपूती अहंकार, पुलिस की हथकरण वाज्ञी और राष्ट्रीय भावना का सम्मश्रण था। उनसे राजनीतिक कैदियों का मेल भी हुआ और विगाड़ भी। मेल के समय गायन वादन के साथ तिलक जयंती मनाई गई, जेलर के घर दावत हुई और जेल के बाहर बगीचे में सैर भी कराई गई, विगाड़ के दिनों में हम पर हमला हुआ और ढंडा बोड्यां पहनाकर काल कोठरियों की सज्जा दी गई। मगड़ा इस बात पर हुआ कि जेलर साहब चाहते थे कि सुपरडेट साहब आवें तब देराजकों को खड़े होकर उनकी ताज्जीम करनी चाहिये। हम स्वेच्छा से यह शिष्टाचार करने को तेयार थे और करते भी थे, मगर जवर्दस्ती के आगे भुक्तने को राज्यों नहीं थे। देशमङ्कों में आपस में भी वीच वीच में छोटी मोटी भिड़न्त हो जाया करती थी। जेल की प्रवृत्तियों में दो हस्त-लिखित पत्रों का निकलना उल्लेखनीय है। अंग्रेजी सामाजिक “The Man” का सम्पादन मैं करता था और हिन्दी सामाजिक ‘बन्दी राजस्थान’ का श्री० वैजनाथजी महोदय। पथिकजी ने राजवन्दियों पर एक विनोदात्मक कविता लिखी थी जो खूब पसन्द की गई। इसी तरह विशेष व्यक्तियों की हँसी का बण्णन भी बढ़ा मनोरंजक था। ‘तिकड़म’ शब्द का आविष्कार

भी इसी आन्दोलन में हुआ। इस मत्र के बल से देश-  
मक्कों के जेल में बहुत से काम निकलते थे। वहीं वीरेन्द्र नामक  
स्वयंसेवक से परिचय हुआ जो आगे चलकर और भी घनिष्ठ  
हो गया। उस में व्यवस्थितता, सकाई, सेवा परावणता,  
स्वाभिसानी वृत्ति और भावुकता खूब थी।

नवम्बर १९३० में गांधी अरविन्द सुमित्रे के मात्रहर हम  
लोग जेल से छूटे। कुछ दिन तो समाचों, जुलूसों और भोजों  
की योड़ी चहल पहल रही। बाद में विचारों के भेद जाहिर होने  
लगे। जो विषमताएँ दलबन्दी की एकता, आन्दोलन की एक-  
ता, और कारावास की सीमा के कारण दो साल से दूरी हुई  
थीं वे अब कार्यरूप में प्रगट हुईं। उपाध्यायजी और वावाजी  
एक दूसरे से अलग हो गये। वावाजी ने गांधी सेवा संघ से  
त्याग पत्र दे दिया और पर्याकर्जी से भिल कर एक उप्रदल बना  
लिया। श्री० जमनालालजी के अनुरोध पर मैं संघ का सदस्य  
बन गया। विचारों की अनुकूलता तो थी, परन्तु मैं देशी राज्यों  
की प्रजा की सेवा का ब्रह्मारी था और इसके लिये संघ के  
कार्यक्रम में गुञ्जायश नहीं थी। सेठजी ने अन्यक्ष के नाते  
मेरे लिए विशेष तौर पर यह गुञ्जायश करदी। सिद्धान्त रूप से  
पूरी तरह सहमत न होने के कारण शोभालालजी अलग हो  
मगर हमाग आत्म संवंध पूर्ववत् कायम रहा। चन्द्रमानुजी  
संघ में आगये और हट्टी आत्म के व्यवस्थापक होकर  
हम सब के साथ वहीं रहने लगे। दुर्गाप्रसाद भी वहीं हिन्दु-

स्तानी सेवा दल की देख रेख में कार्यकर्ताओं के द्रेनिंग कैम्प में काम करने लगा। यहीं सेवादास नामक एक साधु-स्वभाव स्वयंसेवक का परिचय हुआ।

इस वक्त तक जिले के गाँवों की तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं गया था। मेरे प्रस्ताव पर हृदृढ़ी आश्रम से एक दुकड़ी भेजना तय हुआ। इसके नायक रामसिंह भाटी चनाये गये। उन्होंने 'सत्याग्रह की विगुल' नामक एक पुस्तिका लिखी जिसमें कांग्रेस के ध्येय और कार्यक्रम से देहातियों की सलाहि का सम्बव बताकर उन्हें कांग्रेस में शरीक होने के लिये निमंत्रण दिया गया था। आगे चलकर ग्रांतीय सरकार ने भी उसे जब्त करके उसका उपयोग सिद्ध कर दिया। यह दल अजमेर सेवाड़े के गाँवों में प्रचार करने और उपयोगी सामग्री जुटाने में सफल रहा।

श्री० ओंकारनाथनी वाकलीबाल से हृदृढ़ी आश्रम में ही परिचय बढ़ा। वे हमारी राष्ट्रीय पाठ्याला के संचालक थे। प्रांत के सबसे पुराने गाँवीबादी होने के साथ ही वे पचीस वर्ष से ज्ञानवर्यपूर्णक गृहस्थ वर्म का पालन करते आ रहे हैं। ज्योतिप भी जानते हैं। असहयोग काल में सरकारी नौकरी छोड़ने वाले अजमेर में शायद यह अकेले ही थे।

श्री० रामनाथ 'सुमन' आश्रम के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी एक लेखक और ग्रन्थकार की प्रतिभा के दर्शन यहाँ हुए। वडे व्यवस्थित और सफाई पसन्द आदमी मालूम हुए।

उपाध्यायजी और महोदयजी, वगैरह तो कांग्रेस के काम में लग गये। शीघ्र ही पुष्कर में प्रान्तीय राजनीतिक परिषद हुई। उसमें पूँ कस्तूरवा गांधी अध्यक्ष और काका साहब कालेलकर उनके सलाहकार बन कर आये।

मेरा कार्यक्त्री तो देशी राज्य ही थे। मेरा मन पिछले भागों से उद्धो हुआ और जेल के ताज्जा अनुभवों से खिल था। मैंने इस संघिकाल वा उपयोग अजमेर में खादी फेरी का कार्यक्रम गठित बनने में किया। आठ दस दिन के निरंतर परिश्रम और सारथियों के सहयोग से इस बारे लितनी खादी बिकी उतनी फेरी में और कभी नहीं बिकी। मेरा सदा से यह ख्याल रहा है कि देश सेवकों को सरकारी कर्मचारियों से अच्छें सम्बंध और व्याकुंगत सम्पर्क रखने की कोशिश करनी चाहिये। इससे अनेक छोटी मोटी कठिनाइयां आसानी से हल होलती हैं और उनकी परिस्थिति के अनुसार देश सेवा में मदद जां मिलती है। अत्वत्ता कार्यकर्त्ताओं को उनकी परवशता का लिहाज और उनसे व्यक्तिगत लाभ, उठाने के लोभ से परहेज रखना चाहिये। उनसे परिचय और सहायता प्राप्त करने के लिये रचनात्मक प्रवृत्तियां आदर्श, साधन हैं। इस बार की खादी फेरी ने मेरी यह धारणा मजबूत करदी। इस सिलसिले में मैं अनेक युरोपियन और भारतीय कर्मचारियों से मिला। ऐसा लगा कि वे खुद भी कांग्रेसियों से किसी न किसी निमित्त सहाय मिलने और उनसे राजनीतिक चर्चा करने के लिये उत्सुक

रहते हैं। तीन मुलाकाएं उल्लेखनीय हैं। पहली रेलवे कारखाने के दृच्छाधारी कोटस्वर्य माहूर से हुई और दूसरे मेवो कालेज के प्रिसोपल स्टो साहब से। दोनों ने खादी खरीदी और वातों वातों में पूछा, “अंग्रेज चले जावंगे, तो हिन्दू मुसलमानों में अमन कैसे रहेगा ?” मैंने उत्तर दिया, “आप लोगों के आने से पहले भी हम किसी तरह चिन्दा थे ही। जिन देशों में वृद्धि गज नहीं है, वहां भी लोग मुख शान्ति से रहते हैं। और अगर जर्मनी इंगलैण्ड पर कब्जा करके कहने लगे कि उसकी सत्ता उठ चक्के से रोमन कैरोलिन और प्रोटेस्टेण्ट या स्कॉ- और अंग्रेज आपस में लड़ मरेंगे तो अंग्रेज अपना घर जर्मनों के हाथ में रहने देंगे ? आखिर देश हमारा है, उसकी इतनी किक आप हमें करते हैं ? अपने घर की चिन्ता हमें ही कर लेने दीजिये।” इसका जवाब भी क्या हो सकता था ? दूसरी घटना इससे ठोस थी। वात यह हुई थी कि कुछ स्वर्य सेवक तिरंगा झण्डा लिये हुए मेवा कालेज के हाते से गुजर रहे थे। इस चार दीवारी को अंग्रेजों ने एक अन्तःपुर की तरह अपने और अपनों के लिए सुरक्षित कर रखा था। कांग्रेसी पताका को देख कर कालेज के बाइस-प्रिसिपल कर्नेल हाडसन उसी तरह विगड़े जैसे लाल कंपड़े से सांड विदकता है। उन्होंने झण्डा छीन कर फाड़ डाला और स्वर्य सेवकों को याने में मिलवा दिया ! कांग्रेसी हल्कों में इस यर बड़ा रोप फैला। प्रान्तीय कार्यकारिणी इस अपमान का वरिमार्जन कराने के लिये चिन्तित हुई, मगर कोई उपाय नहीं

सुकृत रहा था। मुझे इस क्रिस्ते की उड़ी उड़ाती खबर लग गई थी। स्तो साहब और हाउसन साहब दोनों से कहा, “हमारे राष्ट्रीय महांडे का अपनान करके आपने अच्छा नहीं किया। आप इस देश का नमक खाते हैं। जिस पत्ताका को करोड़ों भारतीय पूजते हैं उसकी वैद्यती करना आप जैसी सौनक कौम को बैसे भी शोभा नहीं देता। अगर आपके हुँडे टॉमी (गोरे चिपाही) यूनियन जैक (अंग्रेजी नाम) लेकर कांप्रेस के मैदान में से गुजरें और कांप्रेसी लोग उसे ढीन कर फाड़ दें और टॉमियों की मरम्मत कर दें तो आपको कैसा लगे? मेरी राय में शराकत का तकाजा है कि आप द्वामा याचना करें।” दोनों की तरफ से प्रान्त की कांप्रेस के प्रधान के नाम लिखित माफी नामा पहुंच गया। अंग्रेज स्वाभिमान की इस तरह कङ्क करते हैं!

पुँकर की परिपद हुई ही थी कि विजौलिया में फिर सत्याग्रह दियड़ नया। परिकल्पी से दस्तवर्दीरी लेकर हरिभाऊजी ने उसकी बागहोर संभाली। उर मुख्य देवप्रसाद मेंवाड़ के प्रधान मन्त्री थे। ठिकाने के साथ दिवादर की शक्ति .. मिलकर किसानों का दमन आरंभ किया। नारायणलालजी पकड़े गये। हरिभाऊजी एक आपरेशन के लिये बन्वड़ चले गये और घटना स्थल पर न पहुंच सके। हाँ, हुँडे स्वयंसेवक अन्नमोर से विजौलिया जहर गये। उनके साथ ठिकाने की पुलिस ने बड़ा जलील व्यवहार किया। सेठ नमनलालजी ने बाच में पढ़कर आपने

प्रभाव से प्रजा पक्ष की रक्षा करने की कोशिश की लेकिन जब इस समझौते की शर्तें किसानों को समझाने के लिये शोभालालजी सेठजी के प्रतिनिधि बन कर पहुँचे तो एक उन्हुँ कोतवाल ने उन्हें जूतों से पिटवाकर सामन्तशाही के लंगलीपन का परिचय दिया। बात महामना मालवीयजी तक पहुँची तो उस सुखदेव गालियों पर उतर आये और हरिभाऊजी को 'शैतान' ( evil genius ) शब्द से याद करके अपने दिल की ज.न निकाली। सत्ताधारियों का स्वसाव है कि विरोधी बनते ही 'शरीक' उनकी नज़र में 'नीच' हो जाते हैं। आखिर दस बारह बरस की दाद करियाद के बाद किसानों को अपनी जमीनें वापस मिलीं। मगर उपाध्यायजी को रियासत से जो निकाला गया तो सन् १९३६ तक वह आज्ञा रह नहीं हुई। हाँ, उन्हें साहित्य सम्मेलन के अवसर पर उद्यपुर जाने की शर्तवांद इन्जाज्जत बीच में मिल गई थी।

सन् १९३२ में जब हुवारा सत्याग्रह छिड़ा तो और नेता जल्दी ही गिरफ्तार हो गये, मगर सेठ जमनालालजी मुक्त थे। वे बड़े संगठन कर्ता और देशव्यापी प्रसाव रखने वाले व्यक्ति थे। मेरी इच्छा युद्ध में भाग न लेकर अपने पुराने निश्चय के अनुसार देशी रावद्यों की सेवा करने की ही थी। सेठजी ने रायदी कि खादी कार्य द्वारा यह सेवा उत्तम हो सकेगी। अतः कैसला हुआ कि महाराष्ट्र चर्खां संघ में कुछ समय काम करके आवश्यक अनुभव प्राप्त कर लूँ। परन्तु इससे पहले सेठजी ने

मुझे एक विशिष्ट काम सौंप दिया। वह यह कि अ० भा० काँग्रेस के डिक्टेटरों की एक नामावली तैयार करती जाय ताकि एक के बाद दूसरा श्रृंखला-बद्ध रूप में मैदान में आता चला जाय। इसके लिये मुझे देश भर का दौरा करना था। मैं बंगाल, विहार, यू० पी० और पंजाब में घूम भी आया। लौटा तब तक सेठी जेल में पहुंच चुके थे। मैं महाराष्ट्र चर्खा संघ में काम सीखने लगा। इसकी प्रगति देख कर सानंद आश्र्य हुआ। इस सफलता का श्रेय सर्वे श्री० जाजूंजी, राधाकृष्ण वजाज, कृष्णदास गांधी और द्वारकानाथ लेले को मुख्यतः देना पड़ेगा। कृष्णदास भाई की एक निष्ठा और महाराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की परिश्रमशीलता व मित्रव्ययिता अनुकरणीय मालूम हुई। इसी सिलसिले में मुझे निजाम राज्य के एक उत्पत्ति केन्द्र में रहने का भौका मिला। रियासत की साम्प्रदायिक नीति और आतंकपूर्ण व्यवस्था के प्रत्यक्ष परिणाम देखे। मेटोपल्सी के इस प्रवास में ही यह विश्वास स्थिर और असंदिग्ध हुआ कि भारत के दरिद्र नागरियण के लिये खादी एक वरदान है। लौटते वक्त हैदराबाद में श्री० रामकृष्णजी धूत से परिचय हुआ। वे एक होनहार सुधारक और सेवक प्रतीत हुए।

वधाँ पहुंचा तो गांधी सेवा संघ की मारक्षत यह तजवीज श्री० कि कांग्रेस महासमिति के मंत्री के रिक्त स्थान की पूर्ति करूँ। इस आनंदोलन में गुप्ता का दौरा दौरा था। महासमिति का दफ्तर भी छिपकर काम करता था। मुझे ग्रन्ति-

तक कार्य की धुन ने इस प्रलोभन से तो परे रखा, लेकिन राजस्यान की पुकार के आगे मेरी यह तटस्थिता नहीं टिकी और मैं अन्मेर पहुंच गया। हृदंडी आश्रम ज़क्त हो गया था। हमारे बाल वचे लयपुर में एक लगड़ रहते थे। मैंने एक दो सायियों सहित रामगंग में डेरा लगाया। वहाँ मधुकरी जीवन का अच्छा आनंद रहा। इस आनंदोलन में गवस्यान ने १६३० से भी शानदार भाग लिया। प्रांत के कौने कौने से कार्यकर्ता शरीक हुए। कोई चार सौ सत्याग्रही जेल में पहुंचे। स्त्रियों को संख्या तो वहाँ दूसरे किसी भी प्रांत से अधिक रही। मुझे यह स्मरण करते हुए गर्व होता है कि सभी नकटस्थ सायियों और उनके परिवारों ने भाग लिया। भाई शोभालालजी और उनकी बीर पत्नी विजया वहन, अंजना देवी, दुर्गाप्रसाद और विमला देवी, चन्द्रमानुजी और दुर्गा वहन, हरिमाऊजी और सागीरथी वहन, वैजनाथली महोदय और तुलसी वहन, पं० लादूरामजी और रमा वहन, नीमच के वर्णीरामजी सगर और उनकी पत्नी, कृष्णगोपालजी गर्म की पत्नी शकुन्तला वहन, सुमनजी की पत्नी सीता वहन, कृष्ण देवी, इन्दौर की हक्मणी वहन और दूसरी कई बोरागनाओं ने इस राष्ट्रीय बुद्ध में शरीक होकर प्रान्त का गौरव बढ़ाया, जिन वहनों को 'ए' क्षात्र में रखा गया उनमें से अधिकांश ने अपनी 'सी' क्लास की सायिनियों की खातिर च्चर्वन की मुविचाओं को अस्तीकार कर दिया और काली दाल रोटी खाना पसंद किया। उन्होंने यहाँ भी सायित कर दिया कि त्याग में

स्त्री पुरुष से आगे रहती है। जेल में पुरुष सत्याप्रहियों के साथ इस बार खास तौर पर सख्ती की गई। जिन प्रमुख और उच्च शिक्षित कार्यकर्ताओं को सन् १९३० में विशेष बर्ग में रखा गया था उनमें से अधिकांश को 'सी' क्लास दिया गया, काम भी चक्री पीसने, पानी धरने और दूसरे कठोर परिश्रम के दिये गये। एक दिन कुछ तरुण सत्याप्रहियों को श्री० जवाहर लाल रावत की अदालत से मिली सज्जा पर बेत लगा दिये गये। इस पर राजनीतिक और साधारण क्रैडियों तक ने मिलकर रात भर नारे लगाये। किर तो देशभक्तों को काफी बष्ट दिये गये भगवर आर्यदा किसी सत्याप्रही को अदालत से बेत की सज्जा नहीं ही गई। सन् १९३२ से १९३५ के इस आन्दोलन ने अजमेर को एक नया कार्यकर्ता दिया। ये ये श्री० विश्वरमनाथ भार्गव। जिले के ये दूसरे बकील थे जिन्होंने सारा या अधिकांश समय लगाकर काम्प्रेस का काम किया। इन्होंने तीन बार जेल यात्रा की। एक हानि भी हुई। सास्ता साहित्य मण्डल से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को काम और सार्वनामिक लीबन को बल मिलता था। प्रान्तीय सरकार की उस पर कढ़ी नजर रहने लगी। उसके कुछ प्रकाशन बर्जित करार दिये गये और एक बार तलाशी भी हुई। चिह्नाजी मण्डल को राजनीति से अलग रखना चाहते थे। इन घटनाओं के कारण उन्होंने मण्डल को अजमेर से उठवा कर अपनी सोधी देख रेख में दिल्ली मंगवा लिया।

## आठवाँ अध्याय

# हरिजन सेवक संघ

**गाँधी** युग आम्म होने के साथ ही कांग्रेस के कायक्रम में अस्पृश्यता निवारण एक अविभाव्य अंग बन गया था। मुवारक आन्दोलनों और संस्थाओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्दुओं के प्रगतिशील हल्कों में अद्वृतपन बुरी चीज माना जाने लगा था। मगर सावारण हिन्दू समाज के शरीर में यह रोग अभी तक गहरा पैठा हुआ था। इधर रैम्जे मैकडोनाल्ड की सरकार ने मुसलमानों की तरह अद्वृतों का भी एक अलग वर्ग कायम करके राष्ट्र को दो से बढ़ाकर तीन ढुकड़ों में बांट देने का निर्णय किया। गांधीजी गोल—मेज परिषद में ही यह चेतावनी दे चुके थे कि ऐसी काई योजना अमल में आई तो उसके विरोध में मैं अपनी जान लड़ा दूँगा। सन् १९३२ में जब वृटिश हुक्मत का साम्प्रदायिक निर्णय प्रकाशित हुआ और अद्वृत जातियों के लिये प्रयुक्त निर्वाचन की पद्धति कायम करदी गई तो गांधीजी ने यरवदा मांदर से ही घोषणा करदी कि यदि हिन्दू नेताओं ने हिन्दू वम के शिर से अस्पृश्यता का पाप घोड़ा लालने और विदेशी सरकार ने हिन्दू लाल के ढुकड़े

करने वाले निर्णय को बदल देने का आश्वासन नहीं दिया तो वह आभरण अनशन करेंगे। यह ब्रत शुरू भी होगया। देश में एक तिसिरेसे दूसरे सिरे तक हाहाकार मच गया। असंख्य नर नारियोंने हड्डिताल, उपवास, सभाओं और जुलूसों द्वारा अपने अवतार स्वरूप महापुरुष के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा प्रगट की और यह सिद्ध कर दिया कि भले ही लाखों मनुष्य पुराने विचारों के कारण गांधीजी से किसी प्रश्न पर सहमत न हों फिर भी वे उन्हें भारत की दिव्यतम विभूति, महान से महान हस्ती आर हिन्दुत्व के प्राण समझते हैं और उन्हें किसी तरह भी खोना सहन नहीं करेंगे। फल यह हुआ कि हिन्दू नेताओं और बृहिंश सत्ताधारियों को गांधीजी को मांग स्वीकार करनी पड़ी और उनका उपवास नाजुक स्थिति में पहुंच कर समाप्त हुआ। देश में आनन्द और उत्साह की लहर फैल गई। गांधीजी ने भी इस परिस्थिति का पूरा सद्गुपयोग किया। एक तरफ अबूत-पन के खिलाफ प्रचार करने और दलित जातियों के उत्थान के लिये सतत् कार्य करने वाली एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की गई। दूसरी ओर उन्होंने जेल में बैठ कर इस उद्देश्य की सफलता के लिये उद्योग करने की सरकार से सुविधायें प्राप्त कीं। एक कैदी को इस तरह की स्वतंत्रता मिलना बृहिंश साम्राज्य और शायद सकार के किसी भी राज्य के इतिहास में अभूत पूर्व घटना थी। यह सत्याग्रह का ही चमत्कार था। लेकिन गांधीजी को अराजनीतिक मुलाकातें, प्रकाशन और पत्र-चयवहार करने की जो गैर मान्यता आजादी मिली उसका प्रयोग

भा उन्होंने इस तरह किया जिससे विरोधियों को भी कोई शंका या शिकायत न हो।

हरिजन सेवक संघ स्थापित हुआ। उसका एक प्रमावशाली संचालक मंडल बना। अध्यक्ष सेठ घनश्यामदास विडला, प्रधान मन्त्री श्री० अमृतलाल ठक्कर और सहायक मन्त्री प्रोफेसर नारायणदास मलकानी हुये। विडलाजी की अतुलसम्पत्ति, विशुद्ध खानगी जीवन, प्रखर और विद्यायक वृद्धि, ठक्कर वापा की दीर्घकालीन भील सेवा, त्यागमय ज्ञिन्दगी और पीड़ितों के साथ अगाध सहानुभूति तथा मलकानी जी की विद्वत्ता और कुर्बानियाँ देखते हुये इससे अच्छा चुनाव नहीं हो सकता था। अनुभवने भी इस निर्वाचन की उत्तमता बाद में सिद्ध कर दी। वापा के कठोर अनुशासन, असावारण परिश्रम शीलता और स्तनग्र खानगी व्यवहार ने अनेक काम के आदियों को भक्त बना दिया। संघ का प्रधान कार्यालय दिल्ली में क्रायम हुआ। वहीं से हिन्दी में 'हरिजन सेवक', पूना से अग्रेजी 'हरिजन' और बम्बई से गुजराती 'हरिजन बन्धु' इस संघ के तीन सामाजिक मुख्यपत्र निकलने शुरू हुए। उनके सम्पादक क्रमशः सर्व श्री० वियोगी हरि, महादेव भाई देसाई और चन्द्रशंकर पंड्या हुए। मार्गदर्शन तो संघ की तरह इन पत्रों के लिए भी गांधी जी का ही रहा।

केन्द्रीय व्यवस्था ठीक कर ठक्कर वापा ग्रान्तीय शास्त्रों का संगठन करने निकल पड़े। संघ की रचना इस तरह की थी-

कि केन्द्रीय संघ का अध्यक्ष अपने संचालक मण्डल के सदस्यों और प्रान्तीय अध्यक्षों को मनोनीत करता था और प्रान्तीय अध्यक्ष अपने मण्डल के सदस्यों और प्रान्तीय मंत्री को नियुक्त करता था। प्रान्तीय मन्त्री सारा समय लगा कर काम करने वाले होते थे। एक तरह से यही इस विशाल संगठन के प्राण थे। संघ के वैतनिक कार्यकर्त्ताओं के लिये सत्याप्रह से अलग रहना ज़खरी था। यह सावधानी इसलिये भी ज़खरी थी कि उस बक्त उत्प्रभ रूप में कर सकना बहुत कठिन था। गुजरात का संगठन करके वापा अजमेर आये। श्री० हरविलासजी शारदा को विड्लाजीने राजपूताना शाखा का अध्यक्ष नामजद किया। मन्त्री पद के लिये मेरी तजबीज हुई। मैं गांधी सेवा संघ का सदस्य था। उसके अध्यक्ष सेठ जमनालालनी जेल में थे। वे मुझ से राजपूताने के खादी कार्य का संचालन कराना चाहते थे। उसके लिये तालीम भी ली जा चुकी थी। मैं धर्म संकट में पड़ा। लेकिन वापा और विड्लाजी ने जमनालालनी की मंजूरी दिलाने का जिम्मा लिया। मैं उनके आप्रह के आगे मुक गया और इस नये भार को स्नीकार कर लिया। राजनीति और राजनैतिक आन्दोलन काफी देख चुका था। उसके भगड़े टंटों से अस्त्र हो चुकी थी। साहसी तर्बियत आत्म विश्वास के साथ इस नवीन नेत्र में आगे बढ़ी क्योंकि प्यारे राजस्थान के निम्नतम और दलित बर्गों की ग्रत्यक्ष सेवा का अवसर मिल रहा था।

लेकिन हमारे नेता राजपूताने के काम के विषय में बहुत आशावादी नहीं थे। उनकी आशंका निरावार भी नहीं थी। यह प्रान्त राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक कटूरता का गड़ ठहरा। जात्याभिमान नंगा नाच करता था। जीवन के हर ढंग में ऊँच नीच की भावना का बोलबाला था। शासन सत्ताएँ निरंकुश थीं। वह प्रजा में जीवन और बल पैदा करने वाली हर योजना को संदेह की नज़र से देखती थीं। सत्याग्रह आंदोलन जारी था। उसके कारण सरकारी हल्कों में काफ़ी चौकन्नेपन का चातावरण था। अंग्रेज़ भी हमारे राजाओं को बगावर पट्टी पढ़ा रहे थे कि कांग्रेस वाले हरिजन सेवा की आड़ में राजनैतिक बद्रअमनी फैलाना चाहते हैं, उनसे खबरदार रहना चाहिये। मेरी रुग्याति प्रांत में एक प्रमुख राजनैतिक पुरुष की थी। इधर सेवा कार्यों से सहानुभूति रखने वाले धनिक और शिक्षित वर्गों में अलमें आपसी लड़ाई झगड़ों के लिये बदनाम था। इन सब कारणों से परिस्थिति काफ़ी प्रतिकूल थी। यही बजह थी कि जब मैंने प्रान्तीय संघ के बजट में ११ स्थानीय शाखाओं की गुंजायश रखी तो हमारे दिल्ली के मुख्य दफ्तर में कुछ आश्चर्य और परिहास हुए विना नहीं रहा।

इसलिए मुझे भी कड़म फूँक फूँक कर चलना पड़ा। सन् १९२६ में गांधीजी ने 'राजा प्रजा सेवक समिति' नामक जिस अस्तावित संस्था का विधान तैयार किया था उसमें देशी राज्यों के लिये नम्रता, कुशलता और सचाई त्रिविध कार्यनीति स्थिर

की थी। मैंने उसी के प्रकाश में काम करना शुरू किया। प्रांतीय संघ के विधान में केन्द्रीय संघ से एक क़दम आगे बढ़कर यह नियम बनाया गया कि उसके वैतनिक कार्यकर्त्ता सत्याप्रह में ही नहीं, राजनीति मात्र में भाग न लें। बूंदी, मेवाड़ और जयपुर के सिवाय जहाँ मेरा दाखिला बन्द या मैंने राजपूताने की प्रायः सभी रियासतों का दौरा किया। जिन्हे इताङ्गों में सार्वजनिक प्रवृत्तियों का अभाव या उन पर खास व्याप दिया गया। मैं जहाँ जाता वहाँ के दीवान और पुलिस सुपरिन्टेंडेन्ट को अपने आने की पहले सूचना देता। उसी में यह आश्वासन भी दे देता कि संघ अधिकारियों की सहायता के साथ ही काम करना चाहता है, जिन प्रवृत्तियों पर राज्य को आपत्ति होगी वे वहाँ शुरू नहीं की जायंगी और अगर उन्हें मेरा आना नापसंद होगा तो मैं नहीं आऊंगा। मुझे यह देख कर आश्रय हुआ कि एक के सिवा और किसी रियासत ने मेरे आने पर आपत्ति नहीं की। वह घटना भी दिल्लीचत्त थी। मैं वांसवाड़ा जाने के लिये रत्लाम से लारी में सवार हो ही रहा था कि वासवाड़ा दीवान साहब का एक तार मुझे दिखाया गया। उन्होंने मुझे सीधा जवाब न देकर अपने रत्लाम के एजेंट द्वारा यह सूचना दी कि मैं वांसवाड़ा न जाऊं। मैं तुरन्त लौट पड़ा और उत्तर भेज दिया कि ‘आपकी सूचना के लिये तो घन्घवाद, लेकिन अगर वह अलमेर में मिल जाती तो थोड़े सार्वजनिक समय और धन की बचत हो जाती।’

सेयोगवश थोड़े ही दिन बाद जब मैं हूंगरपुर के सरकारी अतिथि भवन में ठहरा हुआ था तो वहीं वांसवाड़ा के दीवान साहब सी किसी काम से आपहुँचे। बातचीत हुई और उनका समाधान होगया। तो सरे ही दिन वांसवाड़ा से उनका बुलावा आगया! मैं जिस वियासत में पहुंचता सबसे पहले दीवान और पुलिस एवं दूसरे महकमों के अधिकारियों से मिलकर उनका शंका समाधान करता। अपनी तरफ से तो राजा से भी भेट करने का प्रस्ताव करता लेकिन इसमें दो से अधिक जगह सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजाओं को मिलने में भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग का डर ही मुख्यतः वाधु था। दीवानों में प्रतापगढ़ के शाह साहब ने, मुझे याद है, इस सत्य को स्पष्ट स्वीकार किया कि हरिजन सेवक संघ वही काये कर रहा है जो राज्य को करना चाहिये, लेकिन चूंकि मौजूदा अवस्था में सरकारी प्रथनों पर प्रजा का विश्वास नहीं है इसलिये गैर सरकारी संस्थाओं के काम में ही राज्य को अधिक से अधिक मदद देनी चाहिये। शाह साहब ने मदद दी भी। इसी तरह दूसरे कई राज्यों ने भी सहानुभूति दिखाई और सहायता दी। किसी भी राज्य ने धावा दो हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। सहायता हूंगरपुर राज्य की ओर से सबसे अधिक मिली और काम सबसे आगे बढ़ कर मालादाड़ के महाराव साहब ने किया। मैं जहां जाता वहां के सनातनी नेताओं से भी मिल कर उनका समाधान करने की कोशिश

करता। सुवारकों और हरिजनों से तो काम था ही। हर लगह दो चार हरिजन सेवक और एक आध कार्यकर्ता भी मिल जाता। इस प्रकार गाँधीजी के पुण्य प्रताप से अच्छी सफलता मिली। राजस्थान के हरिजनों के इन अच्छे थे। केन्द्रीय मंडल का रुख उदार था। काम बढ़ता चला गया।

‘इन्हीं’ दिनों अजमेर के सामाजिक इतिहास में एक अभूत-पूर्व घटना हुई। किसी विशेष दिवस मनाने के सिलसिले में सबर्णों का एक जुलूस नये बाजार की चौपड़ से शुरू हुआ। सभ्य, शिक्षित और उच्च कक्षाने वाले वर्ग के लोगों के हाथों में माड़, और टोकरियाँ शोभायमान थीं। आगे आगे स्व० गौरीशंकरली वैरिस्टर और पीछे पीछे सैकड़ों लोग हरिजन सेवा के नारे लगाते और गीत गाते चल रहे थे। जब यह क्रतार-बद्ध मानव समूह कट्टरपंथी गालियों में होकर गुज्जरा तो लोगों के आश्र्य का पार न रहा और माताएं व बहनें ब्रतों पर विस्मय-पूर्ण दृष्टि से देखने लगीं। हरिजनों के मुहल्ले में पहुंच कर जब वायू लोग सङ्काई करने लगे तो वे भी चकित हो गये!

सन् १९३४ में गांधीजी ने हरिजन कार्य के लिए देश भर का दौरा किया। मुझे भी इस प्रवास में एक महीने के क्रीड़ चुनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। आन्ध्र व तामिलनाडु क्षेत्रे कहर प्रांतों से शुरू आत की गई। चौधीसों बंट साथ रह कर गांधीजी का दैनिक जीवन और सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ निकट से अध्ययन करने का मौका मिला। अक्षर महापुरुषों के लिये

कहा जाता है कि उनमें दूर से लितना आकर्षण होता है उनना नज़दीक जाने पर नहीं होता। मगर गांधीजी में मैंने उल्टी चात पाई। कई लोगों को भय था कि हिंदू समाज की कटूरता गांधीजी के इस क्रांतिकारी सामाजिक आन्दोलन को बरदाश्त न कर सकेगी, उनकी लोकप्रियता घट जायगी और उनके राजनैतिक सामर्थ्य को गहरा आवात पहुँचेगा। वृटिश सरकार भी शायद ऐसे परिणामों की आशा में ही उन्हें छोड़ने और अवार्दित रूप में काम करने देने को राजी हुई थी। सेकिन मैंने आंखों देखा कि लहां कहीं वे गये अपार भीड़ ने उनका स्वागत किया, उनकी हरिजन सेवार्थ फैली हुई दान की झोली भर दी और इक्के दुके लोगों को छोड़ कर सर्व साधारण ने उनके कार्य का समर्थन किया। गांधीजी का उत्कट राष्ट्रभाषा-प्रेम मैंने इसी दौरे में देखा। जिन प्रान्तों की भाषा हिन्दी नहीं थी वहां भी वे अंग्रेजी के बजाय हिन्दु-स्तानी में ही सुख्यतः बोलते थे। विरोधियों के दृष्टिकोण को समझने, सार्वजनिक आवेश से उनकी रक्षा करने, हरिजन मोहल्ले देखने और स्त्रियों तथा कार्यकर्त्ताओं से वार्तालाप करने ना मौका वे नहीं चूकते थे। इतने गुणे हुये कार्यक्रम में भी वे सुख की नीद सोते, प्रायः सब काम समय पर कर लेते और अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाते थे। इतना गजब का उनका मनोवृत था!

इस प्रवास से जौटकर मैंने राजपूताने के काम को फैलाने

और मज्जबूत करने का उपक्रम किया। सौभाग्य से चन्द्रमानुजी जैसे मिलनसार प्रचारक व संगटनकर्त्ता, शोभालालजी जैसे ज्ञानमेदार और विवेकशील मन्त्री, रामसिंह भाटी जैसे व्यवस्थापक और अयोध्याप्रसादजी जैसे दफ्तरी सहायक प्राप्त थे। साल भर में ही प्रांत में हरिजन सेवक समितियों का नाल चिछ गया। पचासों नवयुवक सेवा ज्ञेत्र में नये आगये और कई ऐसे केन्द्र पैदा हो गये जहाँ पहले कोई सर्वजनिक कार्य नहीं हुआ था। अपने उत्कर्ष काल में राजपूताना हरिजन सेवक संघ की रात और दिन की पाठशालाओं की संख्या सवासौ तक, छात्र छात्राओं की तादाद तीन हजार के लगभग और शाखा समितियों का नम्बर पचास से ऊपर पहुंच गया था, हजारों हरिजनों ने शराब पीना छोड़ दिया था और मुर्दा मांस न खाने की प्रतिज्ञाएं लेती थीं और अनेक जलाशय उनके लिये बने और बन रहे थे।

इस बढ़ते हुये काम को सुचारू रूप से चलाने, प्रांत की लागृति में उससे यथेष्ट परिणाम निकालने और कार्यकर्त्ताओं में एक हृद तक सर्वतोमुखी योग्यता पैदा करने के लिये एक ऐसे केन्द्र की ज़रूरत महसूस हुई जिसमें हरिजन सेवकों को वार्ताम दी जा सके। सन् १९३४ में अजमेर से ५ मील उत्तर पूर्वे नारेली नामक एक छोटे से गांव में सेवा आश्रम खोला गया। प्रांतीय संघ के आधीन जितने शिक्षक और कार्यकर्त्ता ये उनके लिये यहाँ आकर छः महीने तक रहना अनिवार्य किया गया। उनके लिये यह चूहरी था कि साढ़ी पर्हनें कातना सीखें

और शिक्षण और गांधी माहित्य का अध्ययन करें। वे मलमृत्र की सफाई करते, गांव के गंडे मोहल्लों में माछ लगाते, मिट्ठी खोदते, सोजन बनाते और अपना सब काम अपने हाथों से करते थे। यह सब वे खुशी से न करते यदि उनमें एक प्रकार की भिन्नता भावना काम नहीं कर रही होती। इसी भावना के कारण सारे आपहों और पूर्वग्रहों की उपेक्षा करके वे राजनीतिक हेतुओं और झगड़ों से अलग रहे, वृत्त अचूत विना किसी भेदभाव के खान पान और रहन सहन में एक साथ रहे और जनवायु, रग्या, पैसा और कौटुम्बिक रुप सामाजिक विरोध सम्बंधी कठिनाइयों की परवाह न करके भी अपना कर्तव्य पालन करते रहे। हरिनन सेवक संघ के इतिहास में कार्यकर्त्ताओं का यहला ट्रेनिंग कैम्प राजपूताना शास्त्रा ने ही खोला था और उसीने पहले पहल हरिननों से भी अधिक दृढ़ भीलों की सेवा का आयोजन किया था। नारेली में कोई ऐसी कार्यकर्त्ता ट्रेनिंग शाकर निकले। आगे चल कर भी इनमें से अधिकांश लोग हरिजन सेवा, खादी या प्रजामंडल सम्बन्धी किसी न किसी कार्य में लगे रहे। लेकिन राजपूताना हरिजन सेवक संघ को सफलता हरगिज नहीं मिलती अगर उसे कुछ योग्य कार्यकर्त्ताओं की सेवायें प्राप्त न होती। अजमेर के श्री बालकृष्ण गर्ग और क़रौली के श्री० चिरंजीव शर्मा की विविव विकाशशील शाकियां, दौसा के श्री० कल्याण शर्मा की प्रामीण लनता में जुसने की क्षमता, इंदौर के श्री० मदनसिंह तोमर की शिक्षण-

कला, वांसवाड़ा के श्री० गौरीशंकर उपाध्याय की नम्रता, अल्लवर के श्री० रामावतार की श्रद्धा, भरतपुर के श्री गोकुलजी शर्मा की अखण्ड सेवापरावरणता, और अमरसर जयपुर के श्री० गौरीशंकरसिंहजी का हरिजन प्रेम विशेष उल्लेखनीय है। सूरलगड़ के श्री० मूलचन्द्र, जयपुर के स्वामी मुनीश्वरानन्द, झालरापाटण के एक मात्र हरिजन प्रेक्षुएट मास्टर रामचन्द्रली और अमरसर जयपुर के बालासहाय, नरसिंहदास आदि हरिजन कार्यकर्त्ताओं ने भी अपनी जाति की सेवा में अच्छा सहयोग दिया। अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं में जयपुर में श्री० कपूरचन्द्र पाटणी, बीकानेर में श्री० मुक्ताप्रशादजी बक्कील और आर्यसमाज के मंत्री श्री० लालसिंह, प्रतापगढ़ में पं० वैजनाथ शर्मा, राजगढ़ (अल्लवर) में श्री० जमनालाल गुप्त, रामगढ़ (जयपुर) में श्री० महादेव चौधरी, पिलानी में श्री० बनश्याम शर्मा, गंगापुर में पं० सुन्दरलालजी, चिङ्गावा में श्रीकृष्ण शर्मा, फतेहपुर में श्री० भीमराजजी दूरगड़, चौमू में पं० युवाश्रितजी शर्मा, रींगस में रामेश्वरजी अग्रवाल, झालावाड़ में पं० रामनिवासकी शर्मा ने अपनी-अपनी शाखाओं का कार्य संचालन अच्छी तरह किया। वह सब इन्हीं लोगों के परिव्राम का नर्तक था कि राजपूताने का काम हरिजन संघ की प्रथम श्रेणी की शाखाओं में शुमार हुआ। इस कार्य में शेखवा-वाटी के घनिञ्चों की उदारता और चर्चा संघ की दिलचस्पी हरिजन संघ से पहले और बाद में भी वरावर काम करती रही।

यदि मैं दो केन्द्रों का वर्णन ज़रा विस्तार से न करूँ तो यह वृत्तान्त अधूरा ही रहेगा। बाबू हुकमीचन्द्रली सुराणा मेवाड़ के एक सत्पुरुष हैं जिन्हें सेवा की खातिर काम धन्वा छोड़े असी द्वे गया। उनकी बुजुर्गी, दानाई और अमनपसंदी ने उन्हें जैन सन्ध्रदाय में ही नहीं जो भी उनके सन्यर्क में आये उन्हीं के दिलों में आदर का स्थान दिला दिया था। उन्होंने मांडलगढ़ (मेवाड़) के परगने में श्री० मनोहरसिंह आदि कुछ युवकों को लेकर सेवा संबंध नामक एक संस्था खोली। सेवक संबंध की सदा यहाँ से इस मंडली ने अपने छोटे से दायरे में कई पाठशालाएँ चलाई और ग्राम सुधार का अच्छा काम किया।

लेकिन यहाँ से कहीं वडा और सुन्दर काम वागड़ में हुआ। यह हूँगरपुर और वांसवाड़ा के इलाकों का सन्मिलित नाम है। दरिद्रता, कठूरता और अवकार की हड्डि से यह प्रदेश शायद राजपूताने में भवसे नमूनेदार है। ऐसे प्रतिकूल ज़ेत्र में जो अद्भुत कार्य हुआ उसका व्रेत्य मुख्यतः वाचा लक्षण-दास जी और पंड्या जोगीलालजी को है। सचमुच वाचाजी ने प्रतिकूल मौसम, बीहड़ भूमि, कमज़ोर स्वास्थ्य और दूसरी अनेक कठिनाइयों के होते हुये हरिक्लन कार्य का वीज न बोया होता और पंड्याजी ने अपनी सेवा भावना, कार्यदक्षता और परित्रभरीलगा से उसे न थींचा होता तो हरिक्लनसेवा का प्रांत भर में जो आदर्श कार्य हूँगरपुर में हुआ वह संबंध नहीं था। राजगुरु महंत सरदूदासजी ने एक कठूर वैष्णव होते हुये

भी हरिजन सेवक समिति का अध्यक्ष पद स्वीकार किया और साहस व लगन के साथ उस पद की जुम्सेदारी को निभाया। इतना ही नहीं उन्होंने अपना मंदिर भी हरिजनों के लिये खोल दिया था। इसी तरह रामसनेही साधु लच्छीरामजी ने भी वांसवाड़ा के हरिजन कार्य में अच्छी आर्थिक और नैतिक सहायता दी। इस काम में दूंगरपुर के महारावल साहब ने दिल खोल कर मदद दी। फलस्वरूप सारी रियासत के हरिजनों ने शराब पीना और मुर्दा मांस खाना छोड़ दिया, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और सामाजिक कुरोतियों में काँकी कमी हुई। इस सम्बन्ध में श्री० मदनसिंह तोमर और उनकी धर्मपत्नी की सेवाएं प्रशंसनीय रहीं। लेकिन बागड़ प्रदेश में ही नहीं, शायद सारे राजस्थान में जो साधुता, विनम्रता और पद व नाम के प्रति उदासीनता मैंने परतापुर के जगन्नाथजी कंसारा में पाई वह किसी दूसरे सेवक में नहीं देखी। वे कई हरिजन ज भील पाठशालाएं, एक पुस्तकालय और वाचनालय और कष्ट निवारण की दूसरी प्रवृत्तियां बरावर चुपचाप और खूबी के साथ चला रहे हैं। जगन्नाथ जाई को इस काम में अपने शरीक अध्यक्ष गढ़ी के श्री० चन्दूलालजी सोनी से अच्छी सहायता मिलती रही।

हरिजन कार्य के क्षिलसिले में दो दुखद घटनायें भी चल्लेखनीय हैं। अजमेर में कुछ उम्र विवार के युवक भी हरिजन सेवा में प्रवृत्त हुये। उन पर मैंने विश्वास किया, परन्तु

'पता नहीं', विप्लववाद व साम्यवाद के विचारों के किस विषयांस्थि  
का भूत उन पर सबार हुआ कि उन्होंने हरिजन सेवक संघ को  
एक पूँजीपति संस्था समझा, विश्वास से मिली हुई सुविधाओं  
का दुरुन्यग करके वे रात को दफ्तर में घुस गये और मेज  
का ताला तोड़ कर लगभग ५००) रुपया चुरा ले गये। स्वयं  
क्रांतिकारियों में रह कर मैंने उनके बारे में काफी जाना और  
पढ़ा था। उनके शुद्ध जीवन और साहसी कार्यक्रम में ऐसे कायर  
कृत्य की मुझे कहीं गुंजायश दिखाई नहीं दी थी; इन नकली  
विप्लववादियों ने मेरे दिलपर वहीं बुरी प्रतिक्रिया पैदा की।

दूसरी अप्रिय घटना यह हुई कि गांधीजी के अजमेर आग-  
मन के समय सनातनियों का एक विरोधी दल यहां भी आ  
पहुंचा। यह मण्डली स्वामी लालनाथ नाम के एक सन्यासी के  
नेतृत्व में गांधीजी के साथ साथ घूमती और हरिजन आन्दो-  
लन को धर्म विरुद्ध बता कर उसके खिलाफ प्रचार करती थी।  
दुर्भाग्यवश अनेक सावधानियां रखते हुए सी इनकी रक्षा करने  
में कुछ असावधानी रह गई और उनके साथ अजमेर में मारपीट  
हो गई। इस पर गांधीजी को ७ दिन का उपवास करना पड़ा।  
बाद में मालूम हुआ कि यह काम स्थानीय आर्य समाज के  
कागड़ों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ युवकों का योजनापूर्वक  
किया गया काम था।

परन्तु सबसे अधिक कदु अनुभव तो हरिजन कार्य के सिल-  
सिले में हरिजनों की अवस्था का हुआ। पता नहीं मतुष्य किस-

तरह इतना विवेकभ्रष्ट और हृदयहीन बन सका होगा और हिन्दुत्व जैसे दया प्रधान धर्म में यह अमानुषिकता क्योंकर घुसी होगी कि इंसान को इंसान हैवान से भी बढ़तर समझने लगा। 'आत्मवत् सर्वं भूतेषु' का नित्य पाठ करने वाले लोग अपने ही समाज के एक समूचे अंग को अछूत और अदृश्य तक मानने लगे, उनसे गंडे से गंदा काम लेने लगे, उन्हें कभी से कभ और खराब से खराब अन्न बस्त्र देने लगे और उपर से तिरस्कार व ताड़ना का दण्ड भुगताने लगे। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के सारे द्वार इन अमारों के लिये बन्द कर दिये गये। उनको छूना पाप, देखना पाप, उनकी छाया पड़ना पाप गिना जाने लगा—यहाँ तक की देवदर्शन भी उनके लिये निषिद्ध हो गया। ऐसी दशा में बैचारे हरिजन क्या तो पढ़ें लिखें, क्या व्यवसाय उद्घोग करें, क्या समाज और देश की उन्नति में भाग लें और क्या ईश्वरदत्त शक्तियों का विकास करें। पानी के लिये तरसते रहें, मगर कुए बाबड़ी पर पैर नहीं रख सकते। शिक्षा के लिये उत्सुक हैं, पर स्कूल में भरती नहीं हो सकते। भूख लगी हैं, मगर पैसा देकर भी होटल ढावे में नहीं बा सकते। हृदय हरिदर्शन को आतुर है, मगर मन्दिर की दैहली नहीं लांघ सकते। चमड़ा ये कमाते, कूड़ा करकट ये उठाते, टट्टी पेशाब ये साफ़ करते—गरज़ यह कि वे सब काम करते जो माता करती है और जिनके बिना समाज दो दिन ज़िन्दा नहीं रह सकता। मगर हिन्दू समाज है कि जात्या-

भिमान में अंधा होकर इतनी बहुमूल्य सेवाओं का धूणा, खुल्म और शोषण से अच्छे और किसी रूप में बदला देना ही नहीं जानता। अजमेर के मलूसर मुहल्ले में मैला स्टेशन देसा और मनुष्यों को मलमूत्र के कुरड़ में काम करते पाया तो दिल ग्लानि के मारे भर गया। जब मालवे का हाल सुना कि वहाँ सर्वर्ण लोग हरिजन खियों के शिरों पर मैले के घड़े फोड़ कर और उनके साथ खुले रूप में कुत्सित व्यवहार करके दृत्याव भनाते हैं तो ऐसा लगा कि मानवता हिन्दु समाज को छोड़ कर रसातल चली गई और दखड़स्वरूप उधके गले में शुलामी का तौक ढाल गई है। हरिजनों की दुख गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। सर्वर्ण गेहूं और शकर खाते हैं तो हरिजनों को जौ, बाजरे और गुड़ से ही मौसर और व्याह करने चाहिये। 'ऊंच' जाति के मन्दिर पर सोने का कलश चढ़े तो 'नीचों' के भगवान का घर बिना कलश के ही रहना चाहिये। हरिजन, अपने दूल्हे को घोड़े पर चढ़ा कर ले जायगा तो सर्वर्ण बररान के लिये हर लगह हाथी कहाँ से आयेगा? बाइकल पर बैठने की सनाई! द्विन के सामने मजाल है जो अछूत खाट पर बैठ काय, नै लगा कर हुक्का पीले या खं जूता पहन कर निकल काय! यह अभिशाप सर्वर्णों में भी आपस में मौजूद है। किसी राजपूत गांव में बनियों और शहरों को राजपूतों के सामने इसी तरह अपमानित होना पड़ता है। बदले में ठाकुर साहब को सेठी के आगे कमर बांधे सलाम मुकाते हर-

किसी मिल के दर्वाजे पर देखा जा सकता है। मालावाड़ राज्य में एक लखपती हरिजन के सामने ब्राह्मण देवता को हाथ बांधे भीख मांगते भी पाया गया। रेल्वे और सरकारी विभागों में अच्छत हाकिमों की खुशामद करते हुए रात दिन ठाकुर साहिव, पण्डितजी और सेठजी सभी देखे जाते हैं। फिर भी भले ही कुत्ते विल्ली छू जायें, मन्दिर में चले जायें और घर भर में चकर लगाते रहें, मगर हरिजन का कहीं गुजार नहीं। उनके सकान देखे तो अधेरे, तंग और फूस मिट्टी के ढेर जहाँ हवा, रोशनी और कुशादगी का नाम नहीं। खाना जूठा और सड़ा वासी और कपड़ा उतरा हुआ मिले मगर काम करना पड़े कड़ी से कड़ा मेहनत का। न सर्दी का लिहाज, न धूप और वर्षा का ख्याल। ढांट ढपट और गाली गलौज़ ऊपर से। ऐसी नरक यातनाओं को कहाँ तक सहा जाय? ऐसी हालत में क्या आश्चर्य यदि लाखों विधर्मी हो जायें और अनेकों धर्म और जाति के कहर छुश्मन बन जायें? सचमुच गाँधीजी ने अपने ऐतिहासिक उपचास से सदियों के सोये हुए हिन्दू अन्तःकरण को जगा कर और उसे हरिजन सेवा के महान् प्रायश्चित्त में लगाकर मानवता, हिन्दूधर्म और भारतवर्ष की अपूर्व सेवा की। वे और कुछ भी करते तो अकेले इस अलौकिक कार्य के लिये भी इतिहास में अमर हो जाते। मुझे यह सोच कर सन्तोष होता है कि इस नवशाल बन्ने में हमारे प्रान्त का हिस्सा तुच्छ नहीं था।

## नवां अध्याय

# राजस्थान सेवक मण्डल

हृदृंडी में गजपूताना और मध्य भारत के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन हुआ। उद्देश्य यह था कि सेठ जमनालालजी के नेतृत्व में राजस्थान के सारे राष्ट्रीय कार्यों का संचालन करने के लिये एक नेता-मण्डल बनाया जाय। इस आयोजन के संयोजक थे हरिभाऊजी और वावाजी। उनमें पिछले तीन साल में एक से अधिक बार चुनाव युद्ध हो चुके थे और तनातनी स्थायी हो गई थी। मारपीट की नौबत आते रवांची थी और एक बार तो क्रांतिकारियों की नौजवान सेना और दूसरे पक्ष के हिमायतियों की लाई हूई शोहदों की कौज में जंग होते होते रह गई। इस नवे ग्रेम-प्रदर्शन को आम तौर पर संदेह की वृद्धि से देखा गया। लेकिन सम्मेलन के खुले अधिवेशन में मिन्न २ कार्यकर्त्ताओं ने जिस ज्ञार से प्रस्तावित योजना का विरोध किया उसकी आशा किसी को भी नहीं थी। इसे ६ हिटलरों की मण्डली के नाम से पुकारा गया। आयोजन द्वारी तरह असफल रहा।

हरिजन सेवक संघ का कांस बढ़ रहा था। मारियनलालजी

मेवाड़ के एकान्त कैनौली कुंभलगढ़ में सपरिवार नज़रबन्द थे। उनकी बीमारी की खबर पाकर हम लोग चिन्तित हुए और शोभालालजी उन्हें देखने भेजे गये। योड़े अर्से बाद वे रिहा होकर अजमेर आ गये। इन दोनों को केवल हरिजन कार्य कैसे सामाजिक कार्य में संतोष नहीं था। मुझे इस कार्य को भी मज़बूत और व्यवस्थित करना था। और हम सबको एक सूत्र में बंधे रहना था। इसलिये एक ऐसी संस्था बनाने का निश्चय हुआ जिसके हम सब पुराने साथी सदस्य हों, जिसका मुख्य कार्यक्रम रचनात्मक हो लेकिन राजनीतिक प्रवृत्तियों को निःसंमेलन जागरा हो। गाँधीजी ने १९२६ में देशी राज्यों संबंधी वो विवान बनाया था हमने उसे वर्षों का त्यों ले लिया। उसमें सत्य और अहिंसा के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ साथ वे मर्यादाएं भी स्वीकार की गईं कि गाँधी विशेष में वहाँ के राजाओं को आपत्ति न हो तो प्रजा के कष्टों को दूर कराने को कोशिश की जाय, एक राज्य की टीका दूसरे राज्य में बैठकर न हो और छटिश सरकार का हत्तेज्जेप न चाहा जाय। भारत यह कि राजाओं को निःशंक रखने के लिये अधिक से अधिक सावधान रहने की नीति अखिलयार की गई। संस्था का नाम 'राजस्थान सेवक मंडल' रखा गया, मुझे अध्यक्ष और शोभालालजी को भंडी चुना गया और हमारे सिवाय चन्द्रमानुजी, माणिक्यलालजी, नघनूरामलो शमो और रामधिल सदस्य हुए। हुक्मी चंद्रजी, दुर्गाप्रसाद और जयधिल भी शारीक हो गये। इस प्रकार

हरीकी और पथिकजी को लोड़ कर बाजी सब पुराने मुख्य साथी और कुछ नये सहयोगी फिर कत्र हो गये। मुख्यतः सभी हरिजन कार्य में लग गये। १६३५ में नारेली में पक्के मकानात बनवा लिये गये और हूँगरपुर राज्य के सागवाड़ा स्थान पर भील सेवा आश्रम स्थापित कर दिया गया। एक साल बाद अज्जमेर में 'आदर्श प्रेस' नामक एक बड़ा छापाखाना खरीद लिया गया और 'नवबयोति' नामक हिन्दी राष्ट्रीय साप्ताहिक जारी कर दिया।

दक्षिण राजस्थान में मेव डू का दक्षिणी भाग और वांसवाड़ा तथा हूँगरपुर राज्यों का इलाका एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की आवादी लगभग ७५ की सदी भीलों की है। जहाँ तक मैं जानता हूँ यह जाति हिन्दुस्तान की सबसे गरीब जाति है। अज्ञान, अंधविश्वास तथा शोषण का ऐसा दृश्य शायद और कहीं नहीं मिल सकता। राज्य सत्ता और सूदखोर महाजनों के मारे यह भोले भाले प्राणी प्रायः निस्सहाय अवस्था में हैं। उनकी खेती का ढंग विलकुल प्रारम्भिक, जमीन और औच्चार घटिया, मूसिचाई के स्थायी प्रबन्ध का अभाव और जानवर दुवले और घटिया। इसी तरह उनके स्वास्थ्य की तरफ भी किसी का ध्यान नहीं। बीमारी में उन्हें दवा मिलना मुश्किल और यदि कोई संक्रामक रोग फैल गया तो सैकड़ों की संख्या में कीड़े मकोड़ों की तरह भर जाते हैं। मकान उनके खपरैल, वांस व मिट्टी के बने हुये, तंग, नीचे और अंवेरे निम्नमें एक ही जगह खाना,

सोना और पशुओं के रखने का स्थान होता है। लुली हवाएँ और धूप आदि प्रकृति की देन, मीलों की अपनी सैनिकवृत्ति और कठोर परिश्रमशीलता के कारण वे बेचारे किसी तरह जिन्दा रहते हैं। अन्यथा उन्हें तन ढकने को करड़ा और खाने को पूरा अन भी भयसर नहीं होता। आवे पेट खाना, अर्व तरत रहना और जाड़ों में आग के सहारे रात बिताना, वह उनका साधारण जीवनक्रम है। शिक्षा के लिये नाड़ों की तरफ से नहीं के बराबर व्यवस्था है, बेगार की मार और सुदूरोरों की लूट के आगे वे हमेशा तंग रहते हैं। सामाजिक हास्ति से भी उनके साथ लगभग अद्वृतों का सा अवृद्धार होता है।

मैंने अपनी दूसरी यात्रा में ही यह सब स्थिति देख ली और निश्चय कर लिया कि दरिद्रनारायण सच्चमुच्च भीलों में निवास करता है और उसकी सेवा में अपनी और अपने साधियों की काफी शक्ति लगानी चाहिये। राजस्थान सेवक मंडल में विचार होकर शीघ्र ही बागड़ सेवा मन्दिर नामक संस्था स्थापित की गई और वह मंडल की शाखा के रूप में हूँगमपुर राज्य को केन्द्र बना कर बागड़ के भीलों में काम करने लगी। पहले माणिक्यलालनी और बाद में हुगोप्रसाद भील ज़ेत्र में पहुँच गये। वे खड़लाई पाल में कुटिया बना कर रहने लगे। एक पाठ-शाला के साथ काम शुरू किया गया।

यह काम शुरू करने से पहले मैंने महारावल साहब की भील सेवा कार्य के प्रति अद्वृत्तमूर्ति प्राप्त करायी थी। उनके प्रगति-

शील विचारों और उदाद वृत्त का प्रमाण तो उनके हरिजन सेवा कार्य के मिलसिले में मिल चुका था। लेकिन उनके देश प्रेम में अपनी राजनीतिक मर्यादाओं का इसेशा खयाल रहता था। हम भी उनकी कठिनाइयों का लिहाजा रखते थे। अब तक हमने लहां लहां भी काम किया था उसमें या तो विजौलिया आदि की तरह राजाओं और जागीरदारों से लड़ कर जनता को राहत दिलाई था हरिजन सेवा की तरह स्वर्तंत्र रचनात्मक कार्य द्वारा पीड़ितों की सेवा की थी। हूँगरपुर के भील सेवा कार्य में राज्य के सहयोग से प्रजा के उत्थान का प्रयोग शुरू किया गया। चूंकि दोनों तरफ से सद्भाव और सचाई रही, इसलिये परशुराम भी दोनों के लिये संतोषप्रद रहा। न हमारे कार्यकर्त्ताओं में प्रजा को भीतर से भड़का कर किसी छिपे हुये राजनीतिक दहेज्यको पूरा करनेकी नीयत थी और न राज्य भीलों के शांतिपूर्ण विकास में वाधा ढालना चाहता था। छोटे मोटे राज्य कर्मचारियों की तरफ से कभी कभी दिक्षते जरूर पेश आई, लेकिन ऊपर से कोई प्रोत्साहन न मिलने और कार्यकर्त्ताओं की शिकायतों पर उचित ध्यान दिये जाने के कारण काम स्फूलियत और गर्ति के साथ बढ़ता चला गया। महारावल साहब और उनके भाई व गाज्य के प्रधान मंत्री महाराज वीरमद्रिश्विहनी दोनों का ही व्यवहार कार्यकर्त्ताओं के साथ सम्मानपूर्ण होने और कार्यकर्त्ताओं में राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत रागद्वेष न रहने के कारण हमारे भील सेवकों का राजा और प्रजा दोनों में आदर हो गया।

लेकिन भीलोंके लिये तो सेवकर्ग का पहला ही परिचय था। अब तक जितने सकेदपोश उनमें पहुँचे थे वे सरकारी कर्मचारी या व्यवसायी चाहुकार लोग थे। इनका काम शोषण का था। इसलिये पढ़े लिखों के लिये भीलों के मन में घृणा और शंका के भाव थे। राजस्थान सेवक मंडल के कार्यकर्ताओं के सादा, खुले, कष्टसहिष्णु और सेवामय जीवन ने और उनके भीलों में ओत प्रोत हो जाने के कारण कार्यकर्ताओं पर उनका शीघ्र ही विश्वास कायम होगया। आगे चल कर यही भाव श्रद्धा के रूप में परिणत होगया। भीलों ने कार्यकर्ताओं के लिये सब सामग्री और परिश्रम लुटा कर अपनी ही तरह के कच्चे मकानात खड़े कर दिये। कर्क इतना ही था कि कार्यकर्ताओं ने अपनी कुटियायें हवादार प्रकाशमय और कुशादा बनवाईं। उनमें जानवरों के लिये अलग गुंजायश रखवी गई। उनके रहन सहन और खाने पीने में भी स्वच्छता रहती थी और शारीरिक शौच भी उनका अच्छा था। देखा देखी और सतत प्रचार के परिणामस्वरूप भीलों में भी स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी वातों का काफी प्रसार हुआ।

सबसे अधिक आवश्यकता भीलों की शिक्षा की प्रतीत हुई। खंदियों के उत्पीड़न और शोषण ने उन्हें सिखांदया था कि जबतक ज्ञान का दीपक उनके मस्तिष्कों में रोशन नहीं होगा तब तक वे सभ्य चोरों और डाकुओं से अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसलिये शिक्षा प्रचार से ही शुरुआत की गई और

इसी पर सबसे अधिक ज्ञोर दिया गया। खड़लाई में माणिक्य, लालजी व पांतरी में त्याण शर्मा के द्वारा दो पाठशालाएँ खोली गईं। बाद में तो यह संख्या काफी बढ़ी। इन पाठशालाओं में दिन को लड़के और लड़कियां और रात को युवक और प्रौढ़ लोग पढ़ाये जाते थे। अक्षर ज्ञान के साथ साथ छात्रों के लिये नहाना घोना आदि शरीर की सकाई रखना, तकली पर कातना और पीजना जाहरी था। सामान्य ज्ञान भी, दिया जाता था।

दूसरा कार्य औपधि वितरण का किया गया। इस सम्बन्ध में हर पाठशाला के अध्यापक के पास कुछ जहरी औपधियां रखी जाती थीं और उसीके द्वारा वितरण की जाती थीं। लेकिन ज्यादा ज्ञोर स्वच्छता आदि प्राकृतिक नियमों के पालन पर दिया जाता था।

तीसरा काम खेती और पशु पालन के सुधार का किया गया। भील पशुओं से मिलने वाले खाद को अज्ञान और लापरवाही के कारण धूप में सूखने और इधर उधर पड़ा रहने देकर बहुत कुछ वर्दीद करते थे। सेवकों के प्रचार से वे खाद को खड़ों में भरकर उसकी रक्षा करने लग गये। इसी तरह पशुओं को आदर्मियों के रहने के घर में न रखकर अलग रखने, उन्हें अच्छी तरह खिलाने पिलाने और जहरत के मुआफिक थोड़े कन्तु अच्छे जानवर पालने के लान समझाने पर इस दिशा में भी उन्होंने कुछ प्रगति की। लेकिन खेती के सम्बन्ध में भीलों

की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि वे केवल दैव पर निर्भर रहकर वर्षभर में केवल एक फसल और वह भी मक्की और कूरी बढ़ी। आदि घटिया अन्न ही बोते थे। इससे न उनके शरीर को पूरा पोषण मिलता था, न लगान और कर्ज चुकाने को पैसा। हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें कुये सोढ़कर रोहूं, कपास और तिल बर्गैरा बोने की प्रेरणा की। इन बातों के लिये राज्य अर्सें से कौशिश करता आ रहा था लेकिन वह भीलों का विश्वास सम्पादन नहीं कर सका था। कार्यकर्ताओं की नसीहत पर भीलों ने यह काम उत्साह के साथ किया।

कपड़ा भीलों के शोषण का एक मुख्य कारण था। उन्हें पहनने और शादी व्याह के सारे वस्त्र व्यापारियों से खरीदने पड़ते थे। ये लोग उनके अज्ञान और दारिद्र्य का अनुचित लाभ उठा कर उन्हें पूरी तरह लूटते थे। फलतः उन्हें कपड़ा भी बहुत नाकारी मिलता था और दाम भी कई गुने देने पड़ते थे। हमारे कार्यकर्ताओं के अनुरोध से उन्होंने पहले पहल कपास बोया। कपास तैयार होते ही वस्त्र स्वावलम्बन कार्य शुरू कर दिया गया। दुर्गाप्रसाद की देख रेख में एक बुनाई की पाठशाला खोल दी गई और विजौलिया के एक अनुभवी खादी शिक्षक श्री० हेमराज कुछ होनहार विद्यार्थियों को कराई, पिंजाई और बुनाई की वाकायदा शिक्षा देने लगे। इधर श्री० नारायणी देवी और विमलादेवी स्त्रियों को चर्चा सिखाने लगी। राज्य ने चर्चा के लिये जंगल से मुक्त लकड़ी लानेकी सुविधा दे दी। खड़लाई और

पांतली दोनों पालों में प्रायः सभी घरों में चर्खा चलने लगा। पुरुष लोग भी अवकाश के समय तकली पर कातने लगे। प्रत्यक्ष लाभ होने पर यह कार्य स्वामाविक गति से अपने आप बढ़ गया।

इसके बाद ही शराबबंदी का आन्दोलन शुरू किया गया। इस काम में अधिक कठिनाई नहीं हुई। इसका मुख्य कारण भीलों का हड़ पंचायती संगठन था। दोनों पालों की पंचायत का निश्चय होते ही शराब पीना बंद कर दिया गया।

इस सारे काम का प्रत्यक्ष संचालन माणिक्यलालजी करते थे। उनकी देख रेख में मेलों और मौसरों में गायनों, व्याख्यानों और प्रदर्शनियों द्वारा पचार कार्य होता रहता था।

सन् १९३६ में अकाल पड़ा। 'दुबला और दो असाढ़' वाली कहावत चरितार्थ हुई। गरीब भीलों में हाहाकार मच गया। इस समय राजस्थान सेवक मंडल के कार्यकर्त्ताओं ने तो दिल खोल कर काम किया ही, राज्य ने भी उदागतापूर्वक अपना कर्ज़ अदा किया। दोनों के सहयोग से अकाल सहायक समिति नामक कष्ट निवारणी संस्था क्रायम हुई। स्वयं महाराज वीर-भद्रसिंह इसके अध्यक्ष हुये। भोगीलालजी बाहर सहायता एकत्र करने निकले और माणिक्यलालजी व दुर्गाप्रसाद के साथ सर्व श्री० कल्याण शर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय, चन्दूलाल गुप्त, मदनसिंह तोमर, रेवाशंकर पांड्या, हेमराज घाकड़, गोवर्धनलाल और भैरूलाल आदि कार्यकर्त्ताओं ने रियासत का

दौरा शुरू कर दिया। इन लोगों ने पैदल और साइकलों पहाड़ों और जंगलों में, धूप देखी न छांह और भूख देखी प्यास, सारी रियासत को छान मारा। योड़े असें में यह लो अकाल की स्थिति के बारे में बहुमूल्य सामग्री प्राप्त कर लाये। साथ ही जनता के दूसरे हालात के बारे में भी काफी जानकारी हासिल करली। इस के अलावा ये लोग जहाँ जाते शिक्षा, शादी, स्वच्छता, सदाचार, निर्व्यसनता और कृषि सुधार सम्बंधी प्रचार कार्य भी सतत करते थे। इस दौरे में भीलों की सबसे बड़ी कुनीति के दुष्परिणाम देखने में आये। इसे 'दाया' कहते हैं। शादी के मौके पर वर पक्ष बालों को वर, वधु और सम्बंधियों के लिये कपड़ा खरीदना पड़ता है और ८०) रूपया वधु के पिता के हाथों भेट करने पड़ते हैं। भीलों जैसे गरीब लोगों के लिये यह सार बहुत भारी होता है। इसके लिये उन्हें महालनों का कर्जदार बनना पड़ता है और उस कर्ज को चुकाने के लिये परिवार के एक नौजवान को साहूकार के यहाँ 'सागड़ी' बनकर रहना पड़ता है। सागड़ी वह प्रथा है जिसके अनुसार भील युवक को साहूकार के यहाँ भोजन मात्र पर चौबीस घंटे का नौकर रहना पड़ता है। उसे कोई वेतन या मजदूरी नहीं मिलती और यह गुलामी तब तक करनी पड़ती है जब तक युवक के परिवार वाले स्वतन्त्र रूप से साहूकार का झटण न उतार दें। इन दोनों कुप्रथाओं को बंद करानेके लिये सब पालोंकी पंचायतें

से निश्चय करवाये गये और राज्य से उन निश्चयों के आधार पर दरखास्त को गई कि वह दाया प्रथा को कानूनन बन्द करदे। राज्य ने इस मांग को बहुत कुछ स्वीकार कर के कानून बना दिया।

अकाल निवारण का सब से महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि भीलों में लगभग ५०० नये और राने तैयार हुये। अकाल सहायक समिति ने कुये खोदने के औजार खरीद कर लोगों में बांट दिये और उन्होंने अपने परिश्रम से जलाशय बना लिये। ये उनके लिये अकाल निवारण के स्थाथी साधन तो बन ही गये, प्रस्तुत अकाल में भी इनके द्वारा सिचाई करके भीलों ने थोड़ी रफ़सलें पैदा करली। इधर राज्य ने भी तकावी बांटी और कुछ बंद बंधवा कर काफ़ी संख्यामें लोगोंको मज़दूरीके रूप में अन्न दिया। राज्य की ओर से उदार सहायता अकाल के समय लगान में सारी कमी करना थी। हूँगरपुर में एक अन्न चेत्र भी खोला गया। इन सब उपायों का नतीजा यह हुआ कि दुमिक्ष के समय होने वाली लूट मार बिलकुल न हुई, लोग भूखों न मरे, कोई बीमारी न फैली और किसी को विधर्मी न बनना पड़ा। साथ ही जो रचनात्मक कार्यक्रम केवल दो पालों में सीमित था वह सभी पालों में फैल गया।

अकाल के खत्म होते ही वर्षा आरम्भ होने पर समिति की तरफ से फ़सल बोने के लिये बीज बांटा गया लेकिन दुर्दैव से अति वृष्टि होगई। उससे होने वाली हानि और कष्ट में सहायता

पहुंचाई गई और मलेरिया का प्रकोप होने पर औषध वितरण का काम किया गया।

इस संकट के समय ठक्कर बापाने छांगरपुर राज्य का दौरा किया और भीलों में होने वाले सेवा कार्य को देख कर पूर्ण संतोष प्रगट किया। इस भील सेवा कार्य में श्री० घनश्यामदासजी विड़ला ने आर्थिक सहायता दी और मेरे कलकन्ते जाने पर श्री भागीरथजी कानोडिया ने चंदा कराया। मैंने देखा कि कलकन्ते में कानोडियाजी और उनके साथी श्री० बसंतलालजी मुरारका और सीतारामजी सेवसरिया आदि ने एक अच्छा सुधारक दल बना रखा है जो राष्ट्रीय कार्य, समाज सुधार और रचनात्मक सेवा की प्रवृत्तियों में अच्छा भाग लेता रहता है और सहायता करता रहता है। ठक्कर बापा का भीलों के प्रति पक्ष्यात प्रसिद्ध ही है। उन्होंने भील सेवा के कार्य को हरिजन सेवा के कार्य में शुमार करके छांगरपुर के काम में हरिजन सेवक संघ से उदार सहायता दिलवाई।

मण्डल और राज्य के सहयोग का एक महत्वपूर्ण सुफल यह निकला कि किसी प्रकार का संघर्ष और कदुता आये विना ही चेगार प्रथा बन्द होगई। राज्य ने कानून बना कर उसको ऐसा स्वरूप दे दिया जिससे गरीबों से मुक्त काम न लिया जा सके और हर कोई उन्हें तंग न कर सके।

सन् १९३७ के अंत में राजस्थान सेवक मण्डल यह मब काम श्री० भोगीनालजी पंड्या और उनके साथियों की इच्छा-

नुसार उनको सौंप कर चला आया। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस तरह का सुन्दर और ठोस रचनात्मक कार्य इतने थोड़े समय और खर्च में राजपूताने में तो और कहीं नहीं हुआ। संदेश की बात है कि हूँगरपुर सेवा संघ ने उसे सुचारू रूप से जारी रखा भगव दुर्देव से बाद में राज्य और सेवकों में सहयोग न रहा।

इसी बीच में ऐसे, हरिमाऊजी के और हीरालालजी शास्त्री के बीच यह विचार हुआ कि राजस्थान में सारा समय लगाकर काम करने वाले सभी सेवकों को एक मँडे के नीचे लाया जाय। आपस में और दूसरे सांघर्षों से लम्बी ढर्चाएं होकर निश्चय हुआ कि राजस्थान संघ नामक संस्था स्थापित की जाय जिसके हम तीनों संचालक हों। शास्त्रीजी से इसी काल में विशेष परिचय हुआ। उनकी बनस्थली की एकान्त सेवा की तारीफ सुन चुका था। इस बृक्ति वे प्रजामण्डल की राजनीति में सामने आगये। उनकी रुचियों, शक्तियों और आकृति को देखकर मैंने विनोद में कहा कि ये जयपुर के लिये वैसे ही मावित होंगे जैसे मेवाड़ के लिये पथिकजी। अनुभव ने बता दिया कि यह अनुमान गलत न था।

इस प्रकार हरिजन कार्य उत्कर्ष पर पहुँच रहा था, राजस्थान सेवक मण्डल सबल बन रहा था और एक प्रान्त व्यापों संगठन क्रायम होने को ही था कि कुछ विशेष कारणों से मैं सभी सार्वजनिक जिम्मेदारियों से अलग हो गया, हरिजन कार्य का संचार-

लन भार कलकत्ते के मित्रों के कंधों पर चला गया और राजस्थान संघ मेरे बिना ही बना। व्यक्ति की हैसियत समष्टि में बहुत छोटी होने पर भी इतनी तो होती ही है कि किसी चीज़ को बनाने में भले ही सौ के हाथ लगें, परन्तु उसके विगड़ने के लिये एक का निमित्त भी काफ़ी हो जाता है। तदनुसार हरिजन संघ और सेवक मण्डल को जो क्षति पहुंची वह पूरी हुई ही नहीं। दोनों संस्थाएँ फिर न पतप सकी। इस काल में कई मीठे और कढ़वे अनुभव हुए। इस काल में नवलगढ़ के सेठ मोतीलालजी चोखानी ने जो आदर सत्कार किया और हृगरपुर के महारावल साहिब ने जिस आत्मीयता से काम लिया वह मैं कभी नहीं भुला सकता। इस समय पं० जियालालजी ने एक सच्चे मित्र की माँति साथ दिया। दोस्त के, कमज़ोर के और संकट-प्रस्त के काम आने में मैंने इस आदमी को जिस तरह जोखम ढाते देखा वैसा और किसी को शायद ही देखा हो। यही मुख्य कारण है कि अनेक प्रतिकूलताओं के बबजूद वे अपने त्वेत्र की जनता के प्रिय हैं और उसमें सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। इनके साथी पं० कन्हैयालालजी की मुस्तैदी, बा० विद्यारामजी की वकादारी और इनके धर्म-पुत्र श्री० दत्तात्रेय बाट्टों की योग्यता का अधिक परिचय भी इसी अर्से में मिला। श्री० लयनारायणजी व्यास के और मेरे सार्वजनिक सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। फिर भी उन्होंने मतभेद भूलकर मुझे बम्बई आने का निमन्त्रण दिया और एक तरह से शिर पर बिठाकर

रखा। उन दिनों वे हैं निक 'अखण्ड भारत' चला रहे थे। घनबानों के साथ स्वामिभान कायम रखते हुए, दिनरात काम करते हुए और घोर आर्थिक कष्ट सहते हुए भी वे कैसे प्रसन्न रहते थे, सचमुच उनकी मस्ती ग़ज़ब की थी। राजस्थान के प्रथम श्रेणी के सेवकों में बहुत ही योड़े ऐसे हैं जिनमें लगनायक होने के बहुत से गुण एक लगह पाये जाते हैं। व्यापकी उन्हीं योड़े से कार्यकर्त्ताओं में हैं।

---

दसवां अध्याय

## एक दोपक

सन् १९३८ में कांग्रेस संगठन में फिर तीव्र झगड़े हुये और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य श्री शंकररावदेव को अलमेर आना पड़ा। उन्होंने सार्वजनिक लीबन में होने वाले चयकिगत आन्तरिकों की हुली निन्दा की और उसका आश्रय लेने वालों का मुँह बन्द किया। गांधीजी की राय के फलस्वरूप १० हरिभाऊजी और उनके साथी कांग्रेस से अलग हुए। थोड़े अर्थ से वाद सेठ जमनालालजी की सलाह और बड़ती हुई आर्थिक जिम्मेदारी को पूरा कर सकने की संचालकों की असमर्थता के कारण राजस्वान संबंध भी टूट गया। सन् १९३९ में मैं गांधीजी के आदेशनुसार काम करने के लिये सेवाप्राप्त चला गया।

पैने दो साल के इस वीच के अर्थ में मेरा मुख्य कार्यक्रम स्थानीय कांग्रेस का मार्गदर्शन करना, कुछ प्रजामण्डलों और कार्यकर्त्ताओं द्वारा मश्वरा देना, 'नवज्योति' संचालन करना और अलमेर के रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों में दिलचस्पी लेना रहा। मेरे लिये शान्तिकाल में कांग्रेस के कामों में सीधी जिम्मेदारी और क्रियात्मक दिलचस्पी लेने का यह पहला मौक़ा था। इस

अवसर पर सबसे कहु अनुभव तथ हुआ जब कि प्रान्तकी पक मात्र महिला अध्यक्षाको पदच्युत करनेमें उचित अनुचित सभी सावनों को काम में लेकर प्रांत का नाम कलंकित किया गया । राजस्थान सेवक मंडल ने प्रत्ताव करके 'आदर्श प्रेस' और 'नवव्योति' को मेरे सुपुर्द कर दिया था । पत्र संपादन के सम्बन्ध में मेरा असें से यह ख्याल रहा है कि एक और सम्पादक का फर्ज है कि वह अपने सम्बाददाताओं को तालीम देकर अधिक से अधिक व्ययोगी बनाता रहे और पीड़ित पक्ष की सहायता करना अपना सर्वोपरि व्येच रखते और साय ही यह भी व्यान रखते कि निन लोगों के खिलाफ शिकायतें आवें उनके प्रति अन्याय न हो । इसालये जहाँ मैं अपने संबाददाताओं से सच्ची, सप्रमाण और लोकद्वितकारी सामग्री ही भेजने का आग्रह रखता था और उन्हें लिखने के ढंग पर भी सूचनायें दिया करता था, वहाँ अधिकारियों और अभियुक्त पक्ष के लोगों से भी यह जान लेने की कोशिश करता था कि उन पर लगाये गये आरोपों के बारे में उनका क्या कहना है । उत्तर के लिये काकी समय भी देता था । वो शिकायतें सिर्फ खानगी लीबन से सम्बन्ध रखती थीं उन्हें केवल भेज देता था, 'छपाता नहीं' था । फल यह होता था कि संबाददाता वहुधा निराधार या प्रमाणहीन शिकायतें या तो भेजते ही न थे या उन्हें बापस ले लेते या सुधार लेते थे और अधिकारी अक्सर शिकायतें दूर कर देते थे और प्रकाशन की नौवत ही नहीं आती थीं । इस प्रकार दोनों ओर एक स्वास्थ्य-

प्रद वृत्ति पैदा होती थी। जहां तक मुझे याद है मेरे प्रकाशित संवादों का खंडन होने या उन पर खेद प्रकट करने के बहुत ही थोड़े अवसर आये। अवश्य ही, संपादक का धर्म है कि कोई बात गलत छप जाय तो सचाई मालूम होते ही खुले दिल से माफी मांग ले। इसीमें शैर्य भी है। कायरता और बुराई तो इसमें है कि चुपचाप क्षमायाचना करले या भविष्य में कर्त्तव्य पालन पर कोई प्रतिवन्ध स्वीकार किया जाय। जहां तक अजमेर मेरवाड़ा की आजोचना का संबन्ध है मेरे अखबारों को यह फ़ख हासिल रहा कि उसने निवार होकर यहां की निरकुंश हक्कमत की वेजाव्याप्तियों, ज्यादतियों और कुचक्कों पर प्रकाश ढाला, टीका की और लजता की आवाज व राष्ट्र की भावना और पीड़ितों की मुकार को प्रतिघानित किया। इसका पुरस्कार भी बृद्धिश सत्ता ने अच्छा दिया। उसकी तरफ से अनेक बार चेतावनियां मिलीं, तलाशियां लो गईं और ७ साल के असें में प्रेस और पत्र से कई बार ज्ञानतें तलब की गईं। हैलोज़ साहब, जिले के कर्मिनर थे। वे अपने अधे कांग्रेस-विरोध के कारण काफी बदनाम थे। उन्होंने यह हिदायत जारी करवा दी थी कि मेरे अखबार और प्रेस को न्यूनिसिपलिटियों, सरकारी महक़मों और सहायता प्राप्त संस्थाओं से कोई काम न दिया जाय। ईश्वर का धन्यवाद है कि इन चूहानों से टकरा कर भी यह नाव नहीं टूटी। इस नाव को खेने में मुझे आरम्भ में श्री० दीनदयाल दिनेश और ख० सुन्दरलालनी गर्ग से अच्छी मदद मिली।

सिरोही से शासन सम्बन्धी गम्भीर शिकायतें आ रही थीं। जयपुर के पूर्व परिचित कवेन्ट्री साहब यूँ तो वहाँ के पुलिस अधिकारी थे लेकिन उनका असर शासन की सभी दिशाओं में था। परिपाटी के अनुसार मैंने उन्हें शिकायतें लिख भेजीं। उन्होंने रिव ज के मुताविक्ल शिकायतों को तो गलत ही बताया, लेकिन वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देख आने का निमंत्रण भी दे दिया। सन् १९३६ के शुरू में मैं सिरोही पहुंचा। मेरे विद्यार्थी काल में सिरोही के कुछ युवक जयपुर में पढ़ा करते थे। उन्हीं में से एक श्री ताराचन्दजी ढोसी वहाँ मिल गये। मैंने उनसे और दो चार शिक्षित कार्यकर्त्ताओं से प्रजा पक्ष की मोटी मोटी बातें जान लीं। दीवान एक रिटायर्ड अंग्रेज थे। मुझे कहा गया कि उन्हें मिलने का अवकाश नहीं है और महारावल साहब को कष्ट देना उचित नहीं होगा इसलिये मुझे शिक्षा, माल, पुलिस, न्याय और जगलात महक्कमों के अक्सरों से मुलाकात करके ही संताप करना पड़ा। खुद इन्हीं के मुँह से प्रजा की बहुत सी शिकायतों का समर्थन हो गया। सारा शासन सड़ा हुआ था। एक नौजवान यानेदार ने खुद अपनी और पुलिस के दूसरे कर्मचारियों की गम्भीर ज्यादातियों का झक्काल किया। कार्यकर्त्ताओं ने इच्छा प्रगट की कि राजा-प्रजा के कर्तव्य पर मेरा वहाँ भाषण हो, लेकिन रियासत ने अपने एक अतिथि को भी वह अवसर देने का साहस नहीं किया। मैंने जो जनकारी प्राप्त की थी उसे एक आलोचनात्मक लेखमाला के रूप में प्रकाशित किया।

अलवर के साथ मेरा और भी घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ। वास्तव में अलवर के नव-जागरण में हमारे अखबार का एक विशेष हिस्सा रहा। वहाँ के प्रमुख सेवकों के निमंत्रण पर मैं कई बार अलवर गया। वहाँ के दो अंग्रेज दीवानों से भी मिला। हावें साहब के समय में एक खास घटना हुई। अधिकारी और कार्यकर्ता आये दिन की तात्पुरी से उत्तर रहे थे और चाहते थे कि कोई बीच का रास्ता निकल आवे। अंजाम-खड़क के ध्येय के बारे में और रियासतों की तरह वहाँ भी राज्य और प्रजा पक्ष में मतभेद था। मैंने दोनों को समझाया कि यह अखिल भारतीय रियासतों प्रश्न है और उसका निर्णय भी दोनों तरफ के अखिल भारतीय नेता ही कर सकते हैं। इस लिये इस बारे में मतभेद कायम रहने दिया जाय लेकिन रोज़मर्रा के मामलों में यह समझौता कर लिया जाय कि राज्यवैध आन्दोलन में कोई दखल न दे और किसी सार्वजनिक भापण या काये पर उसे आपांत्त हो तो सम्बंधित कार्यकर्ता से रुक्ख वात समझे बिना पुलिस की इकत्तरका रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न की जाय। दूसरी ओर प्रजा सेवक किसी सरकारी कर्मचारी पर व्यक्तिगत आक्रेप न करें। यह शर्त दोनों पक्षों को मंजूर हुई और जहाँ तक मुझे सालूम है उस पर दोनों तरफ से ही अमल हुआ। इस समझौते का लाभ प्रजामण्डल को ही अधिक हुआ। बार बार की छोटी विरुद्ध मुठभेड़ों से उसका बल क्षीण होने से बच गया। इस अनुकूलता का कार्यकर्ताओं ने

उपयोग भी अच्छा किया। कांग्रेस व प्रजामण्डल की तरफ से अलवर में न्यूनिचिपल चुनाव लड़ा गया और उसमें अच्छी सफलता मिली। प्रजामण्डल के प्रचार और संगठन का प्रयत्न भी किया गया। जागीरी इलाकों की जनता के कष्ट निवारण के बारे में गज्जर में और अख्बारों द्वारा प्रयत्न किये गये। बाद में खारी भखड़ार और दूसरी रचनात्मक प्रबृत्तियां भी जारी की गईं। अलवर की आधुनिक जागृति मृत महाराजा के निर्वासन काल से शुरू हुई थी। जनता की उद्धारता देखिये कि निस शासक ने अपने उत्कर्ष काल में उसे बुरी तरह दबा कर रखा उसी का विपर्तकाल में साथ दिया। एक मुसलमान डाक्टर और एक हिन्दू नार्जिम इस सिलसिले में जेल गये। बाद में कांग्रेस और प्रजामण्डल के बाजायदा आन्दोलन हुए। उसमें सर्व श्री० हरनारायण शर्मा, कुंजविहारीलाल मोदी, श्री० जमाली, मोदी नत्यलाल, लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी आदि कार्यकर्त्ताओं को जेल की चातनाएँ भुगतनी पड़ीं। श्री० भोलानाथ मास्टर और श्रीमती सुशीलादेवी त्रिपाठी ने भी काफी काम किया। श्री० जयनारायणजी व्यास के विरुद्ध निर्वासन आज्ञा निकाली गई। दूसरी भी दमन की कार्रवाइयां हुईं।

सन् १९३८ के शुरू में श्री० भूलाभाई देसाई के समाप्तित्व में द्यूवर में राजनीतिक कांग्रेस हुई। इसमें मुख्य प्रत्यावर यह पास हुआ कि अलमेर में वाडा को यू. पी. से मिला दिया जाय ताकि इस जिले को प्रांतीय स्वशासन आदि राजनीतिक

सुधारों से उचित न रहना पड़े। इस निश्चय में राजनीतिक बुद्धि और दूरदर्शिता का अभाव तो था ही, उस पर जब केन्द्रीय असेम्बली में चर्चा हुई तो सरकार की तरफ से कहा गया कि उसे ऐसे किसी निश्चय की खबर नहीं है। इससे पता चल सकता है कि उस समय प्रांत की राष्ट्रीय आवाज कितनी कमज़ोर थी और उसके निश्चयों के पीछे कितना बोड़ा कार्य चल रह गया था।

हरिपुरा कांप्रेस अभी हुई ही थी। यह अधिवेशन देशी राज्यों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। इसमें कांप्रेस ने रियासती प्रजा की दायित्वपूर्ण शासन की मांग को उचित मान कर उसके साथ सहानुभूति प्रगट की। साथ ही साथ प्रजा को यह भी उलाह दी कि वह कांप्रेस पर निर्भर न रह कर अपने पैरों पर बढ़ा रहना सीखे। उस समय एक दल को यह नीति बला टालने वाली दिखाई दी और बुरी लगी। मैं शुरू से ही देशी राज्यों में जैसे ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप नापसंद करता था वैसे ही कांप्रेस का दखल देना भी अवांछनीय मानता था। रियासती मामलों में कांप्रेस के प्रत्यक्ष भाग लेने से ब्रिटिश सरकार को भी बीच में पड़ने का एक नया बहाना मिलता। कांप्रेस के साथ राजाओं के रूप में एक और बलशाली वर्ग से संघी शक्ति होती और प्रजा में स्वावलम्बन की भाषना पैदा न होकर परमुखापेक्षी वृत्ति बढ़ती। इन सब बातों को देखते हुए हरिपुरा के निश्चय से मुझे बड़ा संतोष हुआ।

पारेणाम भी तत्काल और सुन्दर हुआ। देश भरकी रियासती प्रजा में एक अभूत-पूर्व जाग्रति हुई। जहाँ प्रजा का राजनैतिक संगठन नहीं था वहाँ क्रायम होगया और जहाँ था उस में जान आर्गई। देखने २ प्रजामंडलों का एक तांता-सा वंध गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो अब तक रियासती संगठन से उदासीन थे उसके कर्णाधार होगये। ५० जबाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय लोक परिषद के अध्यक्ष थे और डा० पट्टाजि सीतारमैया उपाध्यक्ष। सेठ जमनालालजी ने जयपुर प्रजामण्डल के सभापति का आसन प्रदण किया। सरदार बलभर्माई पटेल ने गुजरात व काठियावाह की ओर श्री० शंकररावदेव ने महाराष्ट्र की रियासती प्रजा की बागडोर सम्माली। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अलवर आदि में प्रजामण्डल पद्धते ही से थे, अब मेवाड़, भरतपुर, कोटा, चूंदी, शाहपुरा, सिरोही, करौली, बीकानेर, किशनगढ़ बगौर में भी ये संस्थायें खड़ी हो गईं और न्यूनाधिक जोर प्रकट गईं। कई जगह सत्याग्रह हुये जहाँ पुरुष और स्त्रियाँ तक काफी संख्या में जेल गये, मार खाई और जुर्माने, निष्कासन और नजर-चन्दियाँ थहरी, हर जगह प्रजाकी आवाज बुलन्द करने वाला एक स्थायी संगठन बन गया, उसके सुख दुख में काम आने वाला एक सेवक समूह पैदा हो गया और प्रजा में अपने अधिकारों की चाह उत्पन्न हो गई। योद्धे से संभव में इतनी जागृति हो गई कि अब किसी को यह कहने का साइस नहीं हो

खकता था कि प्रजा निरकुंश शासन से संतुष्ट है; वह अपना कोई हँड़ या फ़र्ज़ नहीं समझती अथवा उसका प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संस्था ही नहीं है। राज्यसचिवों ने इस प्रत्यक्ष संचार से इन्कार करने और इसके असर को मिटाने की हजार कोशिशें की। पहले तो प्रजा के स्वशासन के अधिकार को ही नहीं माना गया, फिर माना गया तो वही कंजूसी के साथ इतना ही कि वह राज्य संचालन में हिस्सेदार हो सकती है। कुछ भी हो, इतना तो हुआ ही कि सरकारी संस्थाओं में निर्वाचन पद्धति दाखिल हुई, म्यूनीसिपल कमेटियों में चुने हुये प्रजा प्रतिनिधि लिये जाने लगे, भूंठी सज्जी असेम्बलियां कायम होना शुरू हुईं और राजकाल में कार्यकर्ताओं की पूछ होने लगी।

बीकानेर के परलोकवासी मंहाराजा गंगासिंहजी ने इस युग में भी अपनी पुरानी दण्ड व भेद नीति से ही काम लिया। सन् १९३२ में सर्वे श्री खूबरामली व सत्यनारायण सराफ़ और स्वामी गोपालदास आदि संभ्रान्त नगारिकों पर घट्यंत्र का जो अभियोग चलाया गया था वह पुलिस की अमानुषिक यंत्रणाओं, न्याय विभाग की भ्रष्टता और रियासत की कुटिल नीति के लिये राजस्थान के अर्वाचीन इतिहास में अपनी मिसाल नहीं रखता। वस्तुतः परमात्मा ने गंगासिंहली को जैसी असाधारण बुद्धि प्रदान की थी उसका उपयोग यदि वे प्रजा सेवा में करते तो बीकानेर का आधुनिक इतिहास शायद

दूसरी तरह लिखा जाता। लेकिन बृद्धि छब्रछाया में हमारे राजाओं को जैसे संस्कार और शिक्षा दी गई उससे आम तौर पर यही परिणाम निकल सकता था कि वे अपनी अन्नदानी अबा का दूसरा और शोपण करके अपने अहंकार का सन्तोष करें और भोग विलास में फूटे रहें। गंगासिंहली के जमाने में पुराने सेवकों की जायदादें जब्त हुईं और उन्हें कठोर कारावास का दण्ड दिया गया और नवे कार्यकर्ताओं को निर्वासन से और नवीन संगठन को वर्जित करार देकर दवाने की कोशिश की गई। वीकानेर की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के साथ श्री० मुक्ता० श्राद्धजी सक्सेना का अटूट सम्बन्ध रहा। वे यू० पी० के रहने वाले और वीकानेर में प्रमुख वकील थे। खूब कमाने पर भी उनका खाना पहनना बहुत चादा था। वे असहयोग काल से ही खादी पहनते थे। कांप्रेस का काम हो या सेवा संघ का, देशी राज्य प्रबला परिषद का प्रसंग हो या हरिजन सेवा का आयोजन हो, वे तन मन घन से सहायक होते थे। घड़यंत्र केस में वे देशभक्त अनियुक्तों के मुख्य कानूनी सलाहकार थे। इसी के पुरस्कार स्वरूप वे 'जंगलधर बादशाह' के कोप भाजन हुए। लिपि मरभूमि की उन्होंने चिरकाल तक सेवा की यी वहाँ से दे चात की बात में निकाल दिये गये। उनके लाने के बाद श्री० रघुवरदयालजी वकील ने उनकी जगह ली तो उनके साथ भी 'झीकाणा नाथ' का बैसा ही व्यवहार हुआ।

इसे प्रबला मण्डलों का काल कहा जा सकता है। इस काल

में प्रान्त की राजनीति में एक विशेष परिवर्तन हुआ। वह यह कि कार्यकर्ताओं की हृषि अपने अपने राज्यों की ओर लग गई। दहाँ के स्वामार्किक लेन्ड्रो में उनके सेवा-भाव को अधिक संतोष मिला और सीमित होने के कारण वे उन्हें अनुकूल भी पड़े। इससे कांप्रेस का प्रान्तीय संगठन तो खरुर कमज़ोर हुआ और सार्वजनिक जीवन की प्रान्तीय एक सूत्रता भी बढ़ी, मगर स्थानीय जनताओं में लागृति बढ़ी और सब मिलाकर राजस्थान का प्रजा-पक्ष सबल हुआ।

जब मैं सन् १९३८ के शुरू में अल्मेर पहुँचा तो एक बड़े पुलिस अफसर एक पुराने राज्य के मार्क्यूट मुक्कसे मिले। उनके स्थिताफ़ मेरे अखबार में कुप्रबन्ध की शिकायतें छप रही थीं। आम लोगों में उन पर रिश्वतखोरी का आरोप भी लगाया जाता था। इससे वे बवराये हुए थे। मैंने उनसे सीधी चात की। उन्होंने चाहा कि पिछली बातों को दरगुज़र कर दिया था और वचन दिया कि भावध्य में शिकायत का मौज़ा नहीं दिया जायगा। लेकिन शिकायतें बन्द नहीं हुईं। इसलिए उन्हें खफ़ाई का अवधर देकर मैं सार्वजनिक बातों को तो छापता रहा और व्यक्तिगत आरोपों के बारे में उन्हें सावधान करता रहा। मेरी मुश्किल यह थी कि इन आरोपों को प्रमाणित करने को कोई सामने आने को तैयार नहीं था। इस बारे में कानून भी दोषपूर्ण है। उसके अनुसार रिश्वत लेने वाले की तरह देनेवाला भी अपराधी होता है। लेकिन अधिकांश मामलों में चलाकूर-

या राजी सुशी कोई किसी को धूंस नहीं खिलाता, बल्कि भजवूर होकर देता है। फिर भी यह सिद्ध करना कठिन होता है। स्वार्थी और अष्ट कर्मचारी इस स्थिति का पूरा लाभ उठाते हैं। जहाँ शासन अपने कल्प पुर्जों की सफाई और जनता की भलाई चाहता है वहाँ इस कानून के रहते हुए भी ऐसा ही सक्रिया है कि रिश्वत देने वालों को माफ़ी देकर प्रमाण उपस्थिति करने के लिये उत्साहित और निर्मय कर दिया जाय। भगर एक विदेशी सर्कार और खास तौर पर अजमेर मेरवाड़े के रही शासन से यह आशा नहीं हो सकती थी। फलतः यहाँ लगभग सभी महकमों में गंदगी फैली हुई रही।

रेल्वे में भी यह गंदगी कम नहीं पाई गई। मेरे पास सैकड़ों मामले ऐसे आये जिनसे मालूम होता था कि रियासतों की तरह यहाँ भी हर नियुक्ति, तरक्की और तब्दीली के लिये रिश्वत की रकमें बंधी हुई हैं। यह बुराई भारी भारी वेरन पाने वाले अधिकारों और गोटे अफसरों में सब से अधिक देखकर मुझे आश्वर्य हुआ। मैं उस समय के लोकों एन्ड कैरेज सुपरडंट से कई बार मिला। उन्होंने सहानुभूति दिखाई। फिर तो जिन जिन अफसरों के खिलाफ विशेष रूप से शिकायतें थीं उन सब से मुलाकात हुई। मुझे यह देख कर सानंद आश्वर्य हुआ कि अधिकांश ने अपना दोष स्वीकार किया और भविष्य के लिये शुद्ध रहने का वादा किया। जिन दो आदमियों ने ऐसा नहीं किया उनमें एक बक्स मैनेजर को सप्ताह भर में नौकरी छोड़-

फ्रेंच विलायत जाना पड़ा और दूसरे का दज्जी घटा दिया गया। दुर्भाग्यवश इसी समय सुपरहंड साहब का तबादला होगया और भये-साहब ने नई नीति प्रहण की।

कांग्रेस की प्रवृत्तियों में इस समय में प्रांतीय कार्यालय तो क्रियाशील नहीं रहा, मगर नगर कमेटी ने प्रचार कार्य सुचारू रूप से किया। उसकी तरफ से विशेष कार्य यह हुआ कि कांग्रेस के नाम पर अजमेर में म्यूनिसिपल चुनाव लड़ा गया। उसमें सफलता भी खासी मिली। मुट्ठी भर आदमियों ने अच्छा काम किया और नाम कमाया। कांग्रेस के म्यूनिसिपल के प्राण तो श्री कृष्णनोपाल गर्न थे, मगर उसके नेता पं० दयाशंकर भार्गव के सौन्नत्य की, मास्टर चन्द्रगुप्ती की शिक्षण-विशेषज्ञता की, और श्री० डॉत्तात्रेय बान्जे की वक्तव्य-शक्ति की छाप भी अच्छी पड़ी। इस असें में अजमेर की राजनीति में कुछ नये तत्वों का प्रवेश हुआ। श्री० मूलचन्द्र असावा तीसरे स्थानीय वकील निकले जिन्होंने राष्ट्रीय संघाम में भाग लिया। वे सेवाड़ प्रना-मण्डल के सत्याप्रह में, अजमेर के युद्धविरोधी धर्मिगत सत्याप्रह में और फिर नज्जरवन्दी काल में क्रैंड हुये। ये अंग्रेजी के अच्छे लेखक हैं। मौलवी अब्दुल शक्तर मौलाना मुईदुद्दीन साहब के शागिदों में हैं। साक दिल के आदमी और जोरदार बका हैं। डा० मुकर्जी आत्मक वंगाली ठहरे। उन्होंने देश सेवा की शुहआत काफ़ी लोश के साथ की और समय व धन भी काफ़ी लगाया। लेकिन नेतृत्व के गुण श्री० ज्वालाप्रसाद शर्मा में अधिक थे। ये लम्बी नज्जरवन्दी मुगत कर आये थे। इनकी लगन और संगठन-शक्ति का पता उस समय लगा जब १८४१ में इन्होंने स्थानीय रेलवे कर्मचारियों का प्रभावशाली युनियन कायम किया।

## ग्यारहवाँ अध्याय

### युद्ध काल

सन् १६३६ के सितम्बर की शुरुआत में वर्तमान महायुद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश सरकार ने यह दावा किया कि वह संसार की स्वतन्त्रता के लिये लड़ रही है। कांग्रेस ने इस दावे को कसौटी पर कसा और माँग की कि ब्रिटेन हिन्दुस्थान को आज्ञादी देकर अपनी नेतृत्वीयता सावित करे। ब्रिटिश सरकार इस प्रगति में केल हुई। कांग्रेस ने उसे काफी मौका देकर पहले क्रदम के तौर पर अपने सारे प्रान्तीय मणिमण्डलों से त्यागपत्र दिलवाये। इस पर भी अंग्रेजों के स्वार्थ ने उसके विवेक को जागृत नहीं होने दिया। अंत में महात्माजी के नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह जारी किया गया। उस समय इमारे प्रान्त की कांग्रेसी राजनीति की यह स्थिति थी कि 'राजस्थान' पत्र अजमेर से उठ कर अहमदाबाद चला गया था, सबै श्री० कृष्णगोपाल गर्ग, वावा नृसिंहदास और नयनानायणजी व्यास या तो उदासीन होकर या कार्यनेत्र बदल कर अन्यत्र चले गये थे, शंकरलालजी वर्मा और शोभालालजी गुप्त दिल्ली में पत्रकार होगये थे। कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रमुख आदिमियों में से भी थोड़ों

ने ही भाग किया और उसका क्रम जारी रखने के लिये तो एक दो के सिवाय कोई भी दुचारा सामने नहीं आया।

हालांकि जिन लोगों को कांग्रेस कार्य में वाधक होने के दोषी ठहराने की कुछ हल्कों में प्रथा सी पड़ गई थी वे सब के सब अजमेर मेरवाड़े की राजनीति और भौगोलिक सीमा के बाहर चले गये थे, फिर भी न कोई खास काम हुआ और न आपसी कलह ही मिटा। गरज़ यह कि अगस्त १९४२ का अंतिम स्वाधीनता संग्राम छिड़ने से पहले इस प्रान्त का कांग्रेस-संगठन अत्यन्त दुर्बल हो चुका था। होता भी क्यों नहीं? उसके मौजूदा कर्णधारों की शक्ति आपसी संघर्ष से क्षीण हो गई थी। पर्याकर्षी अपनी सेवा-भूमि राजस्थान से निराश होकर अपनी जन्मस्थली यू० पो० में चले गये थे। सेठ नमनालालजी स्वर्गवासी हो चुके थे। उनका सेवामय जीवन जितना सफल, सम्पन्न और गैरवशाली रहा था उनका निवन उतना ही आकस्मिक, दुखदाई और देश के लिये आधात स्तर हुआ था। पं० अर्जुनलालजी सेठी अज्ञात अवस्था में ही चल बसे थे। सार्वजनिक बीवन के कदु अनुभवों ने उनके उपर स्वभाव पर इतना जर्दस्त आधात किया था कि उनके व्यवहार से वे पहचाने भी नहीं जा सकते थे कि वे राजस्थान की राष्ट्रीयता के जनक थे। जिन्दगी के आखिरी दिनों में तो धर्म, कर्म और विचार से वै सूझी बन गये थे। जो लोग बङ्गी रहे उनमें से अधिकांश कोई चर्चाएँ करने, कानूनी वारी कियां निकालने

और आपस में लड़े हुओं को मनाने में अधिक दिलचस्पी लेते रहे। सर्कार से लड़ने के लिये या जनता की सेवा के लिये सार्वजनिक शक्तियों को संगठित करने की उम्मेया तो लच्च कम होगई थी या क्षमता ही बहुत घोड़ी रह गई थी।

आखिर जिस भीषण संघर्ष को टालते टालते हमारे राष्ट्र के कर्णधारों का नाकों इम आगया था। वह उनके न चाहने पर भी हमारे विदेशी शासकों ने शुत्त कर ही दिया। क्रिप्स की यात्रा असफल हो चुकी थी। उसके बाद गांधीजी को दृढ़ विश्वास होगया कि बृटिश राजनीतिज्ञ अपनी स्वार्थपूर्ण सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं और इसीलिये हमारी आपसी फूट की आड़ लेकर हमें गुलाम बनाये रखने पर कठिनदृ हैं। उन्हें यहां तक कह दिया गया कि वे मुस्लिम लीग या और किसी भी प्रजा पक्ष के दल के हाथों भारत की धानडौर सौंप दें। परन्तु अंग्रेजों ने साफ़ जवाब दे दिया कि क्रिप्स के प्रस्तावों से आगे युद्ध के दौरान में सर्कार हरगिज नहीं जाना चाहती। इस पर गांधीजी अपने अहिंसा के अमर सिद्धान्त पर झायम रहते हुए यहां तक तैयार हो गये कि अगर सर्कार भारत की आज्ञादी की घोषणा कर दे तो हम भारत और संसार की स्वतंत्रता की रक्षा में घुरी गण्डों के खिलाक मित्र राष्ट्रों का पूरी नैतिक शक्ति के साथ देने को तैयार हैं। मगर कवि ने ठीक कहा है।

‘धिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत।’

‘नहीं’ काम आती दलील और हुच्चत ॥’

सरकार अपनी बात से उस से मसन हुई। होती भी कैसे ? भारत जैसी सोने की चिह्निया छोड़ने के बाद बृटेन की हैसियत ही क्या रह जाती है ? इतना अतुल धन, इतने असंख्य सैनिक और इंतने बड़े साम्राज्य से मिलने वाली प्रतिष्ठा फिर उसके पास कहाँ से आवै ? अन्त में मजबूर होकर गांधीजी को अंग्रेजों के सामने भारत छोड़ो का नारा बुलन्द करना पढ़ा और कांग्रेस की महासमिति को ८ अगस्त १९४२ को बम्बई में तदनुसार प्रस्ताव पास करना पढ़ा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने युद्धसंबन्धी अपनी नीति स्पष्ट करते हुए बृटेन और संयुक्त राष्ट्रों को अपनी सद्भावना का विश्वास दिलाया, भारत की अल्पसंख्यक जातियों को आश्वासन दिया और वायसराय से समझौते का द्वार खुला रखा। अवश्य ही समझौता न होने पर सार्वत्रिक सविनय आला भंग करने का निश्चय भी प्रगट किया गया।

सरकार तो पहले से दमन पर तुली बैठी थी। उसने राजवन्दियों को नचरवन्दी के नियम अप्रेल में ही ठीक-ठाक करके तैयार कर रखे थे। ६ अगस्त को सारे देश में कांग्रेसजनों की सामूहिक गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। इससे कांग्रेस न तो कार्यक्रम तैयार कर सकी और न जनता को कोई सूचनाएँ ही दे सकी। फिर भी सेनानायक गांधी की ललकार भारतवासियों के कानों पर पड़ चुकी थी कि उनकी मरजी के खिलाफ अंग्रेजों को यहाँ शासन करने का

या रहने का कोई अधिकार नहीं है, यदि वे हठधर्मी करते हैं तो वे अपने को हिंटलर का भाईबन्धु सावित करते हैं और उसे हालत में हर हिन्दुस्थानी का हक्क और कर्जा है कि उनकी हक्कमत को असंभव बना देने के लिये अपनी सारी ताक़त लगा दें। फल यह हुआ कि नेताओं की गिरफतारी के विरोध में देश के एक सिरे से दूसरे तक विद्रोह का दावानल फैल गया। यह कोई साधारण आन्दोलन नहीं था। इसमें राष्ट्र की आवाज तो एक थी, मगर वह प्रकट हुई अलग अलग तरह से। जिस तरह किसी कोर्स में मोटे और वारीक स्वरों का सामंजस्य होता है उसी तरह आज्ञादी की यह आखिरी लड़ाई लड़ाने में अलग अलग विचार के लोग शामिल तो हो गये, मगर लड़े अपने २ ढंग से। जिनका अहिंसा पर ही विश्वास था उन्होंने समाजों, भाषणों, परचों, जुलूसों आदि आज्ञानभंग के कार्यक्रम पर अमल किया। जो हिंसा को विहित समझते थे उन्होंने बम और तमचा संभाला। जनता ने रेल, तार, डाक और सरकारी साधनों को नष्ट करके उन्हें स्वत्कार के उपयोगी न रहने देने का झाम अंगीकार किया। विद्यार्थी तो एक तरह से इस युद्ध के प्रघान संचालक ही बन गये। देश में इस बार जैसी जबरदस्त हड्डतालें, सन्नाएं, जुलूस और दूसरे प्रदर्शन हुए वैसे पहले कभी नहीं हुए। सैकड़ों कारखानों के मजदूरों ने लम्बे असें तक काम बन्द रखा। स्कूल कालेजों को महीनों ताले पड़े रहे। निराश भूखों ने लूट मार का आश्रय लिया। कान्तिकारियों ने मुवर्य

अब सर समझ कर अपने कर्तव्य दिखलाये। फलस्वरूप बृंदिश सर्कार के युद्ध प्रयत्न में काफी वाधा पड़ी। कई जगहों पर उसका सारा कामकाज ही बन्द हो गया। उसने भी दमन का नंगा नाच दिखाया। आर्डीनेस पर आर्डीनेस जारी होते गये। जलता पर जगह जगह चेतहाशा गोली बार किया गया। गांवों पर घडाघड सामूहिक जुर्माने हुए। अनेक स्थानों में फौली शासन क्रायम किया गया। हवाई जहाजों से वम गिराने में भी संकोच नहीं किया गया।

अब मेरे वालों में प्रथम हिन्दुस्तानी चीक कमिशनर के शब्दों में 'कोई उपद्रव नहीं हुआ'। शुल्क में थोड़े से साधारण कार्यकर्ता और कानूनी कार्रवाइयों के अपराध पर दण्डित होकर जल्द पहुंचे, परन्तु बाद में एक कुत्ता भी नहीं भोका। निस समय देश भर में आग सी लगी हुई थी उस समय विद्यार्थियों की थोड़े दिन की हड्डताल के सिवाय न कोई सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ और न भत्त्याप्रह। वस्तुतः पिछले कुछ वर्ष से प्रान्त की राजनीति का संचालन इतना असमर्थ और कांग्रेस-संगठन इतना दुर्बल हो गया या कि सरकार को अपने दमन के शब्दागार में से एक के द्वितीय कोई दूसरा हाथियार निकालने की ज़रूरत ही नहीं पढ़ी।

बह हाथियार या नज़रबन्दी का। इसका प्रयोग उसने सुन्दर हाथों किया। जिन पर कांग्रेस का काम करने या उससे सहानुभूति रखने का भी शक हुआ उन्होंने पुलिस पकड़ लाई। इनमें से इक्के तो बिलकुल निर्दोष थे। उन्होंने पहले किसी राज-

नैतिक आनंदोलन में भाग नहीं लिया था और हस्त बाह भी उनका कुछ करने वरने का इरादा नहीं था। योड़े से ऐसे लोग भी आये जिनके साथ पुलिस कर्मचारियों का व्यक्तिगत द्वेष बताया जाता था। कोई न५ आदमी नज़रबन्द या क्रैंडी बतकर जेल पहुँचे। हमारी वेवसी और पुलिस का हौसला यहां तक बढ़ा हुआ था कि उसे हरिभाऊनी जैसे प्रमुख कांग्रेसी को हथकड़ी पहनाकर लाने में कुछ संकोच नहीं हुआ और न किसी ने उसके खिलाफ़ आवाज़ ही उठाई। लेकिन जब बहुत से नज़रबन्द माझियां मांग कर छूटने लगे तब संदेह होता था कि शायद पुलिस ने अपनी कारगुचारी दिखाने और प्रांतीय संगठन की कमज़ोरी सावित करने के लिये ही अनाप-शनाप गिरफ्तारियां की होंगी। इस बार राजस्यान के रियासती कार्यकर्ता तो प्रजा-मंडलों के सिलसिले में अपने-अपने राज्यों में गिरफ्तार हो ही चुके थे, इसलिये अजमेर जेल में जो लोग पहुँचे जिले के हिसाब से उनकी संख्या बड़ी ही समझनी चाहिये। इन नज़रबन्दों में ऐसे भी लोग थे जिन्हें पुलिस दूसरे प्रान्तों से पकड़ लाई थीं।

हम सब लोग अजमेर सैट्रूल जेल में रखे गये। सरकार ने पहले ही से हमारे लिये नई नियमावली बड़ रखी थी। उसके अनुसार सुपरडंट जेल को हमारे साथ स्थान सफेर करने का अधिकार था। हम लोग बिना मुक़दमा चलाये अपनी आज़ादी से बंधित किये गये थे और वह भी इसलिये नहीं कि हमने कोई इसात्मक या अहिसात्मक अपराध किया हो, बल्कि सिक्के

इस आशंका पर कि हम विदेशी सरकार के युद्ध प्रयत्नों में कहीं बाधक न हो जायें। इस प्रकार हम निर्दोष थे। फिर भी हमसे वे जर्मन और जापानी अधिक सौभाग्यशाली थे जिन्होंने अंग्रेजों के घन और जन की हानि करने में कोई क्षमता नहीं रखी थी, और सशस्त्र मुकाबला करते हुये इनके हाथ पड़ गये थे। उनके लिये प्रति व्यक्ति पन्द्रह बीस रुपया रोज़ भोजन पर खर्च होता था, उनके रहने के स्थान सब प्रकार आरामदेह थे और उनके साथ व्यवहार आदरपूर्ण था। इधर हमको शुरू में नौ आने और बाद में दुगुनी तिगुनी महंगाई होने पर १) रुपया खाने का भत्ता दिया जाता था। हमें मामूली चौर छाकुओं के रहने की गिराइयों में रखा जाता था और हमारे और विदेशी युद्ध क्रैंडियों के साथ होने वाले व्यवहार में ज़मीन आसमान का अन्तर था। नियमों में जो सुविधायें हमारे लिये दर्ज थीं उनमें से आरंभ में चीफ कमिश्नर ने मुलाकात करने व बाहर से रुपया और पुस्तकें बगैर भंगाने की सुविधायें छीन ली थीं। अखबारों की जिस छोटी सी सूची में से चुनाव करने का हमें अधिकार दिया गया था, वह एक गुप्त आज्ञा द्वारा द्व कर दिया गया था। हमें सिर्फ अंग्रेजी का कांग्रेसी, विदेशी एड्सो-इण्डियन दैनिक स्टेट्समैन, हिन्दी का नरम 'दैनिक भारत', और उर्दू का सुस्लिम लीगी गेज़ाना 'हक़' दिया गया था। साधारण क्रैंडियों को दिये जाने वाले मासिक पत्र भी बहुत अरसे तक हमसे दूर रखे जाते थे। ज़ेल के

पुस्तकालय में हिन्दी के उपन्यास अवश्य ही अधिकांश अच्छे थे परन्तु और पुस्तकों न बहुत उपयोगी और उन्हें दर्जे की थीं और न संख्या में ही काफ़ी थीं। उपराह में हम दो पत्र लिख सकते थे और चार पा सकते थे। लेकिन उनमें साधारण घर गृहस्थी और व्यापार धन्धे के सिवाय और कोई समाचार नहीं लिखे जा सकते थे। सेंसर बहुत कड़ा और अक्सर अयोग्य और मनमाना होता था। व्यायामके लिये बॉली-बॉल और फुटबाल का नियमों में उल्लेख ज़रूर था, लेकिन फुटबाल के लिये तो कोई मैदान ही जेलमें नहीं था, बग्लीबॉल के लिये भी किसी तरह खेल खाँच कर काम चलाना पड़ता था। न हमें जेल के बाहर घूमने जाने की इजाजत थी और न सख्त गरमी में बाहर सोने की सुविधा थी, हालांकि दूसरे प्रांतों में यह सहूलियत दी गई थी। हम शाम के आठ नौ बजे से सुबह के छः सात बजे तक गिराइयों में बन्द रखें जाते थे। खाना बनाने के लिये हमें जेल के साधारण कैदी ज़रूर दिये जाते थे। कपड़ा नियमों में 'व' वर्ग का दिया जाने की बात थी मगर गरम कपड़े और घोतियों बगैरा के अलावा 'घाङ्की' एवं बस्त्र वही जेल के बने हुए मोटे-झोटे दिये गये।

हमारे मुपरहंट कर्नल खरेवाट नामके पारसी थे। ये उन आदमियों में से थे जो दोस्त के साथ दोस्ती, दुश्मन के साथ दुश्मनी और निरपेक्षों के साथ उदासीनता रखने में उद्देश्य का ही खयाल करते हैं साधन की परवाह नहीं करते। जेलर

श्रीं पशुपति नारायण आंखों का लिहाज रखने और हवा का रुख देख कर चलने वाले एक स्थानीय कायंस्थ थे। बृटिश सरकार के कड़े रवैये के मारे दोनों परेशान थे। नतीजा यह हुआ कि कुछ यार दोस्तों को छोड़ कर जेल कर्मचारियों के व्यवहार से किसी राजवन्दी को स्वन्त्रोप नहीं रहा। जेल में काम के लिहाज से कर्मचारियों की तादाद पहले से ही कम थी। हम लोगों के पहुंचने से उनका काम और भी बढ़ गया। इसके सिवाय जो लोग चोर डाकुओं का बन्दोबस्त करने के खास तरीकों के आदी हो जाते हैं उनमें सभ्य देशभक्तों की व्यवस्था करने की योग्यता नहीं हो सकती। मजबूरन वेचारों को लल्लोचप्पो और बहानेबाजी से काम लेना पड़ता था। चबसे ज्यादा शिकायत इस बारे में रही कि नज़रबन्दों के लिये जो सामान खरीद कर आता था वह अच्छा नहीं होता, पूरा नहीं आता था और बहुत महंगा पड़ता था। इस बारे में टेकेदारी पद्धति और उसके साथ लगी हुई स्वार्थ की गंदगी बहुत कुछ ज़िम्मेदार थी। खुद देशभक्तों का व्यवहार भी निर्दोष नहीं था। अधिकारियों से मेल जोल रख कर सुविधाएं लेना, छोटी छोटी वातों पर आपस में लड़ कैठना, मार पीट और गलौज़ तक से न चूकना, देशभक्तों में भीतरी संगठन और अनुशासन न होना, नाजायज्ज तरीकों से वाहरी दुनिया के साथ संबन्ध रखने की कोशिशें करना ऐसी वातें थीं जिनसे कई बार क्लेश हो जाता था और कर्मचारियों को

कांग्रेसियों को तंग और बदनाम करने का मौका मिल जाता था।

इस नज़रबन्दी में दो भूख दड़तालें भी हुईं। पहली श्री.मेश-चन्द्र व्यास की नज़रबन्दों के सामूहिक हितोंवा अविंकारों के संबन्ध में हुई। और इस मिलसिले में सुके भी एक सप्ताह की काल कोठरी सुगतनी पड़ी। दूसरी भूख दड़ताल श्री० वालकुष्ण-कौल की थी। इसका कारण तो सामूहिक नहीं था, मगर वह काकी लम्बौ और त्तूब शानदार थी। इससे भी ज्यादा सानंद आश्चर्य तब हुआ जब सुके हृदय का दौरा होने पर कई रोज़ तक श्री० कौल ने ऐसी सुश्रूषा की जैसी कोई निकट से निकट सन्नन्दी या मित्र भी नहीं कर सकता। मनुष्य के ऊपर से दीखने वाले सुविधा-प्रिय जीवन और आपे वाले स्वभाव की तरह में भी कितना मनोबल और सेवा भाव छुपा रह सकता है।

ऐसी हालत में जिन लोगों को अन्याय या अव्यवस्था वर-दाश्ट नहीं होती उन्हें अकेले दम लड़ना पड़ता और परिमाण से अधिक ल्याग और कष्ट सहन करना पड़ता। फिर भी एक दो कर्मचारियों के बारे में नज़रबन्दों को परम सन्तोष रहा। ढाँचे विश्वास एक सच्चे ईसाई और साधु आदमी थे। जेल के छुल कंपट और मूँठ पाखंड से डाक्टर साहब को अरुचि हुई और आखिर बेचारे तबादला कराकर चले गये। कम्पाटरहर राम-स्वरूप को देशमकों के साथ सहानुभूति रखने के पांदे० में तब-

हील करके किसी एकांत जगह भेज दिया गया। छिप्टी दुर्गा-प्रसादजी नजरबन्दों का लिहाज रखते थे तो उन्हें श्री ज्वाला-प्रसाद के जेल तोड़ कर भागने में मदद देने का वहाना बना कर जबरन पेंशन दे दी गई।

इन सब प्रतिकूलताओं के बीच में भी आम तौर पर राज-बदी लोग प्रेम और शांति से रहते थे। बहुतों ने व्यायाम, खेल कूद और मालिश आदि के जारिये शरीर सम्पर्क बढ़ाई। अनेकों ने भिन्न भिन्न भाषाओं और विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। समय समय पर व्याख्यानों द्वारा नये लोगों को विचार दिये गये। कुछ लोग धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और चर्चा में वरावर रस लेते रहे और थोड़े से व्यक्तियों ने मौलिक और अनुवाद के रूप में लिख कर समय और शक्ति का अच्छा उपयोग किया। प्रार्थना और राष्ट्रीय गायन बहुत अर्सें तक दोनों समय नियमित होता था और आज्ञादी दिवस, तिलक पुरण तिथि, गांधी जयन्ती और राष्ट्रीय सप्ताह, राष्ट्रीय पर्व मनाये जाते थे। इस नजरबन्दी के जामाने में सब से खटकने वाली बात यह थी कि वरसों से कार्य करने वाले लोगों में से भी कइयों ने कांग्रेस की प्रांतिष्ठा सम्बन्धी अज्ञान का परिचय दिया। मालूम होता है हमारे बहुत से कार्यकर्त्ता अभी तक इस प्रारम्भिक सत्य को भी समझ नहीं पाये हैं कि एक प्राधीन देश को आज्ञाद करने के लिये जो लोग मैदान में आते हैं उनके लिये कुछ बातों की तैयारी अनिवार्य होती है। उनमें सब से प्रथम यह कि शत्रु के

पैरों में किसी हालत में भी शिर नहीं रखवा जाता। दूसरे, सम्पत्ति और परिवार का सोह कम किया जाय। तीसरे, शारीरिक, कष्ट सहन करने की शक्ति बढ़ाई जाय। चौथे, अपने परिवार के लोगों में इतना संस्कार ज्ञान और धैर्य किया जाय कि उनके साथारण सुख-दुख, रीति-रिवाज और माया-ममता के कारण देशभक्त की तपस्या भंग न हो और उसके काम में वाधा न थड़े। हमारे राजवन्दियों में बहुत लोगों के व्यवहार से ऐसा प्रतीत हुआ कि इस चतुर्मुख तथ्यारी के प्रति उदासीन रहे थे। फल यह हुआ कि पैरोंल अर्थात् अस्थायी शर्तवांद रिहाई पर जाने में तो अच्छे, अच्छे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संकोच नहीं हुआ और थोड़े ही दिन बाद मार्की माँग कर छूटने का क्रम आरम्भ हो गया। अजमेन-मेनवाड़े के शासन का रवैया भी इस मामले में इतना अपमानजनक रहा कि कई व्यक्तियों को उसने अत्यंत कड़ी शर्त लगा कर लम्बे असें को कोशिशों के बाद पूरी तरह जलील करके ही रिहा किया। फिर तो वायुमण्डल इतना विगड़ा कि रिहाई की आशायें बांधना और दिन रात उनको चर्चायें करना एक मामूली बात हो गई और मार्की माँगने की शर्म की तेज़ी भी जाती रही। इस बार प्रांत का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना निःसत्त्व सावित हुआ कि कांग्रेस के सैनिकों को अत्मसमर्पण के पतन कारी मार्ग से रोकने के लिये कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया। बल्कि एक दो मामलों में तो प्रोत्साहन दिया गया।

सूत्रसंचालकों की कोई सुनता ही न था। इतना संतोष जरूर था कि वे लोग खुद अपनी अयोग्यता स्वीकार करने लगे थे। फलस्वरूप क्रीब २५ राजनैतिक क़़ड़ी माफी मांग कर छूट गये जिनमें से कुछ तो प्रमुख व्यक्ति थे।

सन् १९४६ के मध्य में लव ऊंची अदालतों ने भारत रक्षा कानून की २६ वीं धारा को अनियमित करार देकर उसके मातहत हुई नजरबन्दियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो वायसराय ने उस मनमाने कानून के शार्डिक दोप तो तुरन्त दूर कर दिये क्योंकि वृटिश शासन कानून की वारीकियों और न्याय के सिद्धान्तों पर स्थापित न होकर छल और बल पर कायम था। किर भी सरकार ने यही नीति बनाती कि जिन्हें वे कम खतरनाक समझती थी उन्हें छोड़ दिया जाय। छूटने पर इन लोगों पर इस तरह की पाबन्दियां लगाई गईं कि वे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पुलिस को सूचना देंगे, कांग्रेस के आदमियों से सम्पर्क नहीं रखेंगे और राजनैतिक कार्यों में भाग नहीं लेंगे। दो आदमियों सिवाय किसी ने ये शर्तें भंग न कीं।

इससे कम दुखद यह बात भी न थी कि न केवल कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी ही, वल्कि गांधीजी के विचार और कार्यक्रम को मानने वाले अधिकांश कार्यकर्ता तक सब प्रकार की सुविधा होते हुए भी खादी न पढ़न कर मिल जा कपड़ा पहनते हैं। इनमें से अधिकांश को संस्थाओं से पर्याप्त खर्च मिलता था या उनकी जिजी आर्थिक स्थिति ठीक थी।

नज़रवन्दी के जमाने में श्री० व्वालाप्रसाद और रघुराजसिंह का जेल से भाग निकलना एक गैर मामूली घटना थी। इसमें व्वालाप्रसाद के साहस और सूख का विलक्षण परिचय मिला। इन दोनों नौकरानों ने बालीबाल के लोहे के ढंडों व मेज़ों की टांगों को धोतियों से बांध कर एक निहायत मज़बूत सीढ़ी तैयार की, गिराई की छत के सुराख का पत्थर हटाकर उसमें से बाहर निकले और सीढ़ी के जारिये जेल की तीन दीवारें फाँद कर रातों रात अलमेर मेरवाड़े की हद पार कर के लयपुर जा पहुंचे।

इसी युद्ध काल में मेरे कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सन् १९४१ के दशहरे के दिन वर्धा में अखिल भारतीय गो सेवा संघ की स्थापना हुई। सेठ जमनालाजी ने इसी काम में शक्ति लगाने का निश्चय किया। वेही संघ के अध्यक्ष बनाये गये साय ही वापूजी से सलाह कर के मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि देशी राज्यों की आलन्म सेवा के ब्रत में इस नये काम में शरीक होने से कोई वाधा नहीं पड़ती उन्होंने एक नई बात बताई। उनकी दलील यह थी कि अब देशी राज्यों का प्रश्न 'ही नहीं' है मौजूदा स्वरूप में अंग्रेज़ ही उन्हें रखना चाहते हैं, न कांग्रेस ही इसके पक्ष में है। मैंने यह सार निकाला कि अधिक से अधिक यह हो सकता है कि देशी राज्य प्रजा को दायत्वपूर्ण शासन देकर भारतीय संयुक्त राष्ट्र के अधिभाज्य अंग बन कर ही रह सकेंगे, उनकी कोई स्वतन्त्र हस्ती

या निरंकुश हक्कमत नहीं होगी। साथ ही यह भी विचार था कि हरिजन और खादी कार्य की तरह गोसेवा द्वारा भी देशी राज्यों की प्रलाकी सेवा खूब की जा सकती है। इस बात ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया कि गोसेवा गांधीजी के कार्यक्रम का सब से बड़ा अंग है। देश की राष्ट्रिय सेवी के बाद, बल्कि एक तरह से उससे भी अधिक, महत्व गो सेवा का है। भारतवर्ष के लिये गाय ही ऐसा जानवर है जो हमारे मुख्य उद्योग कृषि का एक मात्र आधार बैल देती है और एक निरामिपमोजी राष्ट्र के लिये जिन भोजन-तत्वों की अत्यन्त आवश्यकता है वे भी दूध धी वगैरः के रूप में मुहूर्या करती हैं। अतः निश्चय हुआ कि मैं गो सेवा संघ में काम करने लगूं। सेठ जमनालालजी संघ की स्थापना के बाद पूरे पाँच महीने भी जीवित नहीं रहे, परन्तु मैंने देखा कि वे इस काम में तन्मय हो गये हैं, थोड़े से समय में ही सस्था को उन्होंने मूर्त्ति स्वरूप दे दिया है, देश के विशिष्ट हल्कों में उसके लिये अनुकूल बातावरण पैदा कर लिया है और कार्यकर्ताओं की एक मंडली जमा करली है। उनकी मृत्यु के बाद उनके निश्चय के अनुसार मैं गो सेवा की तालीम पाने के कार्यक्रम पर निकल पड़ा। प्रथम ६ माह के लिये बंगलौर गया। रास्ते में अपने मित्र और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रवान मंत्री श्री० सूर्यनारायणजी के पाम मद्रास में ठहरा तो सभा का विशाल, मुख्यवस्थित और अद्भुत कार्य देख कर चकित हो गया। वहाँ से अपने

भावी कार्य के लिये बहुत सी उपयोगी सूचनाएँ लेकर वैंगलोर पहुंचा और इम्पोरियल डेरी इन्होन्हूँद में दाखिल हो गया। यह संस्था भारत सरकार के डेरी डिपार्टमेंट की तरफ से स्थापित है। इसमें गो सेवा की तालीम दी जाती है। इसके संचालक श्री नालहस्तमजी कोठावाला और मुपरहैंट कॉन्स साहब थे। कोठावाला साहब अपने विषय के पंडित, राष्ट्रीय भावना रखने वाले अच्छे शास्त्रक, परिश्रमशील और स्वामिमानी पारस्परी थे। मुझ पर उनका शुरू से ही प्रेम और विश्वास रहा। कॉक्स साहब एक कौबी अंग्रेज होते हुये भी मेरा आदर रखते थे। यही हाल वहाँ के दूसरे अध्यापकों का था। देसाई साहब से तो मित्रता ही होगई थी, लाजर्स साहब एक जिदादिल और आतिथ्यशील ईसाई थे। नज़ीरुद्दीन साहब विनोदी जीव थे। श्री० रंगस्वामी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने के लिये उत्सुक रहते थे। हमारे एक ईरानी पड़ौसी आगा महमूद साहब और उनके परिवार के साथ भी मेरी बनिधत्ता हुई। वे हिन्दू मुस्लिम एकता के हामी और निहायत शरीफ आदमी थे। विद्यार्थियों का तो कहना क्या? उन्होंने शुरू से अंत तक अपनी श्रद्धा और प्रेम से मुझे सदा के लिये उपकृत कर दिया। अनेक प्रतिकूलताओं के होते हुए भी उन्होंने राष्ट्रीय भावना, भारतीय रहन सहन, शरीर अम, स्वच्छता और दूसरी अनेक सूचनाओं को अंगोकार किया और मेरे हृदय पर यह अंकित कर दिया कि वैंगलोर

प्रवास के यह पाँच महीने मेरे जीवन के अत्यन्त सुखी दिनों में से थे। मुझे वहां काफ़ी सीखने को मिला। परन्तु स्वतंत्रता के इस अन्तिम संग्राम के कारण मैं निश्चित अबधि से एक माम पहिले ही सेवाग्राम चला आया। यद्यपि वापू और दूसरे बुजुर्गों की इच्छा यही थी कि मैं अपने रचनात्मक कार्यों में लगा रहा हूँ, परन्तु राजस्थान का प्रेम भी हृदय में वसा हुआ था। अजमेर चला आया और २४ अगस्त मन्त्र १९४२ को रेल्वे स्टेशन पर उतरते ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

मई १९४५ के अन्त में जेल से रिहाई हुई। छूटने वालों में हम तीन आदमियों की आखिरी दुकड़ी थी। हमारा हुटकारा बिल्कुल विना शर्त था। लेकिन बाहर आकर देखा कि जिन पर अट्ट विश्वास और प्रेम किया था उन्होंने घुरी तरह धोखा दिया। ऐसे हालात में सेवा और आजीविका के पुराने साधनों का त्याग करके गोसेवा की विशाल योजनाओं और उसंगों के साथ जुलाई में घरबार सहित सेवाग्राम वापस पहुँचा। परन्तु वहां भी विधाता को और ही कुछ मंजूर था। धनिकों की महत्वाकांक्षाओं पर कार्य का हित चलिदान हुआ। मुझे अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। दो साल के परियम के बाद वे साधन जुट पाये जिन्हें लेकर 'नया राजस्थान' जिकलां। इस अर्से में वाँची गांधी साहित्य के अनुवाद का अवसर मिला।

इस धोन अजमेर-मेरवाड़े के शासन में थोड़ी सी तबदीली हुई। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के साथ ही उसके नेताओं ने

हमें एक सलाहकार कौंसिल दी। तीन चुने हुए, तीन मनोनीति और एक निर्वाचित नामजद चुनौत्य बने। मगर इस कौंसिल को कोई अधिकार नहीं था, इसकी सुलाह का शासन पर कोई कानून असर न हुआ और कुछ भूलें भी ऐसी हुईं कि यह कौंसिल अचुन्नल रही। अन्त में, चुने कौंसिल को भी अपने विसर्जन और किसी लोकप्रिय अन्तरिम व्यवस्था की जांग करनी पड़ी। नरीजा यह हुआ कि चौक रामिश्वर यहाँ का हिन्दुस्तानी और गांधीव सरकार का आदमी रहा; मगर उसके निरंकुश शासन में कोई रोक न लगी, जनता के प्रतिनिधियों की हड्डूमत न बर्नी और नागरिक अधिकारों को बुरी तरह छुचला जाता रहा। 'नया राजस्थान' इस त्वेच्छाचारी व्यवस्था और व्यवहार का विरोधी होने के कारण अनियंत्रित सत्ता के बारों का बराबर शिकार रहा। गरज यह कि जमाना बदल गया, देश आजाह हो गया, सब प्रांतों में स्वराज आया, मगर अनमेर नेवाड़ा वहीं रहा जहाँ पड़ले था, बल्कि अपनेपन की आड़ में वह और भी बुरी निरंकुशता का निशाना बना। इस असे में यहाँ महीनों तक ज्वानबन्दी और ज्वराज्वरासी बात पर अख्खारों पर असाधारण पावन्दियां लगाने की ऐसी ज्यादतियां भी हुईं जो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुई थीं।

प्रांत के दूसरे मान हम से ज्यादा सुशक्षिप्त रहे। इनमें ही अलवर, भरतपुर, करौली और बौलपुर मिला कर मत्स्य राज बन गया; नेवाड़ा, कोटा, वूंदी, कातावाड़ी, टोक,

शहपुरा, किशनगढ़, हुंगरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का 'राजस्थान' राज्य हो गया। इन सबको और जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को लोकप्रिय अन्तर्रिम शासन मिल गये। संभव है और आशा है कि शीघ्र ही अजमेर मेरवाड़े सहित राजपूताने की सारी रियासतों का एक प्रान्त बन जाय और राजस्थानियों को भी देश की दूसरी इकाइयों की तरह राष्ट्र का गौरवशाली और स्वशासन भोगी अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाय।

लेकिन एक घटना जो पिछले महायुद्ध के समाप्त होने पर हुई वह इतिहास में अभूतपूर्व थी। वह यह थी कि विजयी हो कर भी वृटेन ने हिन्दुस्तान को आज्ञादी दे दी। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का हाथ ज़रूर था और नेताजी सुभाष चोपड़ी की आज्ञाद कौज के कारनामों का भी असर हो सकता है, मगर मुख्य बात यही थी कि गांधीजी के नेतृत्व में उनके दिये हुए अहिंसा के हथियार से कांग्रेसने जो लम्बी लड़ाई लड़ी उसी के कारण यह स्वतन्त्रता नसीब हुई। मुसलिम लीग की हठघर्मी और देश द्वेषी नीति के कारण भारत माता के दो ढुकड़े भी हो गये। यह विमाजन भी इस वेदर्दी के साथ हुआ कि देश भर में खून के नदियां बह गईं, लाखों नर नारी व बच्चे मारे गये, अरबों कंसम्पत्ति नष्ट हो गई और असंख्य जन जलावतन हो गये। देश में साम्राज्यिक काफ़ों का जो दौर चला उसकी लपटें राजस्थान में भी आईं। अजमेरमें काफ़ी तूफ़ान मचा। पार्किस्तान की देखा

देखी हिन्द में भी अल्पसंख्यकों की वरवादी हुई। हिन्दू महा- सभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घृणा और हिंसा का प्रचार करने का मौका मिला। नतीजा यह हुआ कि इन्हीं दोनों संस्थाओं के एक कार्यकर्ता नारायण गोडसे के हाथों गप्रूपिता महात्मा गांधी की ३० जनवरी १९४८ को दिल्ली के बिहूला भवन में निर्मम हत्या हुई। वापू के इस बलिदान से संसार अहिंसा का क्रायल, हिन्दुस्तान साम्प्रदायिकता से मुक्त और पाकिस्तान प्रभावित दिखाई दिया। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, खाकसार और मुखलिम नैशनल गार्ड आदि निजी सेनाएं रखने वाली संस्थाएं नाजायज्ञ करार दी गईं, और उनके हजारों कार्यकर्ता नज़रबन्द कर दिये गये।

इधर रियासतों ने अंग्रेजों ने जाते जाते विलकुल आज्ञाद कर दिया था। राष्ट्रीय सरकार के रियासती विभाग के मन्त्री सरदार पटेल की राजनीतिव्वता, राजाओं की समझदारी और प्रजा शक्तियों के बढ़ते हुए वेग के कारण अधिकांश रियासतें या तो प्रान्तों में मिल गई या राज्यसमूह बन कर बड़ी इकाईयों में बदल गईं। किर भी काश्मीर तो हिन्दू उपनिवेश में उस बक्त शरीक हुआ जब पाकिस्तान ने क़बाइलियों द्वारा उस पर हमला करके राजधानी को भी खतरे में ढाल दिया। इधर हिंदू के शान्ति प्रेम ने पाकिस्तान पर हमला करके उसे नष्ट करने के बजाय साथी देशों की संस्था में मामला पेश करने की प्रेरणा की। उधर हैदराबाद में इत्तिहादुलमुस्लिमीन नामक साम्प्रदायिक संस्था को लूट मार की छूट देकर, भीतर भीतर पाकिस्तान से मांठ गांठ करके और हिन्दू के साथ सम्बन्ध स्थापित न करके एक पेचीदा समस्या खड़ी कर दी।

## बारहवाँ अध्याय

### अलग अलग दल

हमने देख लिया की इस प्रांत में राज्योस्थान का, काय काका हुआ। यह अवश्य ही संतोष की बात है कि अनेक प्रतिकूलताओं के होते हुये हम इतना कुछ कर पाये। इसके अलावा ऐसी कई संस्थाओं, प्रवृत्तियों और व्यक्तियों ने भी जिनसे मेरा प्रत्यक्ष परिचय नहीं हुआ अपने अपने ढंग से काम किया है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुल मिला कर भी यह कारणजारी इतनी नहीं है जिस पर राजस्थान जैसा विशाल झेव गर्व कर सके। निसपन्देह हम और भी अधिक कर सकते थे। वह क्यों नहीं हो सका? भविष्य में हम क्या करें? वे कौनसी भूलें थीं जिन्हें ध्यान में रख कर भूत काल से ज्याद और अच्छा काम भविष्य में हो सकता है? इस परिच्छेद में इन्हीं प्रश्नों पर विचार करना है।

दूसरे देशों और प्रांतों की तरह हमारे यहां भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता ज्यादातर मध्यम श्रेणी के लोगों में से ही निकले। यह एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जन सेवक न धनिक वर्ग में पैदा होते हैं, न शरीव समुदाय में। एक आराम

पसंद, अभिभानी और महत्वाकांक्षी होते हैं और दूसरे निराश, निर्विव और निःसत्त्व। वीच के दर्जे के लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें धन का प्रसाद और दरिद्रता की विवशता, उच्च भावनाओं से गूँण नहीं कर पाती। उनमें आदर्शवादु आसानी से जाप्रत होता है। इन्हीं में सेवा, शौर्य और वलिदान के दिव्य भाव फलते फूलते हैं। राजस्थानी देशमुक्त और समाज सेवक इसी श्रेणी से आये। सब हालात को देखते हुये उनकी संख्या थोड़ी नहीं कही जा सकती। देश के दूसरे हिस्सों की भाँति हमारे यहाँ के गांधीय कार्यकर्ता अलग अलग विचार श्रेणी के लोग थे। उन्हें क्रमशः उदार, विष्णववादी, राष्ट्रवादी, समाजवादी, साम्यवादी और सत्याग्रहवादी इन छः वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। राष्ट्र के उत्थान में अपने अपने समय, शक्ति और विचार की मर्यादा के अनुसार थोड़ा या बहुत इन सभी दूलों ने योग दिया।

उदार या नरम दल के राजनीतिज्ञों ने सार्वजनिक जीवन का श्रीगणेश किया। यही स्वाभाविक भी था। जब राजसत्ता का दबदबा बहुत होता है तब उसके खुले मुकाबले का प्रारम्भ नरम ढंग से ही सम्भव है। सीधी और कड़ी मुखालिकत को आसानी से कुचल देने का राज्य को अवसर मिल जाता है। साधन उसके पास होते ही हैं। जनता दबी हुई होती है। वह त आवाज उठा सकती है न हाथ। ऐसी हालत में नरमदल के लोग ही काम कर सकते हैं। वे शिक्षित और सन्पन्न होते हैं,

हर प्रश्न को गहराई से अध्ययन करते हैं, लिखने बोलने की कला जानते हैं और युक्तियों में जितना सामर्थ्य होता है उस प्रदृष्टि तक सत्ताधारियों को क्रायल या परास्त भी कर लेते हैं। लेकिन राजसत्ताएँ पशुबल पर अवलम्बित होती और लोकमत पर कायम रहती हैं। वे केवल दलीलों से न सुवरती हैं और न उखड़ती हैं। उन्हें हिलाने को ताकत चाहिये। या तो आपके पास राज्यकर्त्ताओं से अधिक शस्त्र शक्ति हो अर्थात् सेना आपके पक्ष में हो या लोकमत आपके साथ हो और राज्य व्यवस्था पलटने के लिये आवश्यक कष्ट सहने को तैयार हों, तभी आप अनिच्छुक शासकों से अधिकार छीन सकते हैं। नरम दल वालों के पास ये दोनों ही बल नहीं होते। वे सिर्फ अर्जी मारूज़ कर सकते हैं, देशभक्ति में राजभक्ति का पुट भिजा कर कड़वी गोली पर शकर का गलेक चढ़ा सकते हैं, अपनी विद्रोहिता और तर्क की धाक जमा कर छोटी मोटी वातों में सरकार से राहत दिला सकते हैं या वहे ओहड़े लं सकते हैं और देश के ग्रन्ति, हल्की सी ही सी, नक्कि की दीप शिखा सुलगती या जलती रख सकते हैं। इस दल का महत्व इस वात में है और वह छोटी वात नहीं है कि वह एक ऐसी पगड़ंडी वना देता है जिस पर आगे चल कर अधिक मनस्वी लोग एक प्रशस्त मार्ग निर्माण कर लेते हैं। वे राजनैतिक सेना में सर्व मना का काम देते हैं, वे लोग शुद्ध राष्ट्रवादी होते हैं साम्प्रदायिकता

से अचूते रहते हैं, सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में भेद की गुणावश मानते हैं और अपने को उच्च वर्ग के प्राणी समझते के कारण जनता में बुलमिल नहीं सकते। इनका प्रभाव बहुत सीमित रहता है। समाज सुधार, कष्ट निवारण और विचारों का आदान प्रदान आदि कार्य इनके हाथों कुछ न कुछ मन्यन्न होते हैं। रियासतों की गज सत्ता अधिक निरंकुश होने के कारण हमारे रजवाड़ों में दल के रूप में तो ये लोग कभी सामने नहीं आये। सिर्फ़ अजमेर मेरवाड़े में सन् १९१६ तक इन्होंने कांग्रेस में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस का ध्येय बृद्धि साम्राज्य के भीतर रहकर स्वशासन प्राप्त करना था। मंगर रचनात्मक काम हमारे यहाँ के नरम दल वालों के हाथ से कुछ खास नहीं हुआ दीखता है। इनको सबसे बड़ी कमज़ोरी यह थी कि अंग्रेजी राज्य को इन्होंने ईश्वर का प्रसाद मान रखा था। अबश्य ही ऐसा पोच ध्येय युवकों से तो फूटी आंखों भी नहीं देखा जा सकता। साधारण जनता से इनका वास्ता नहीं था। इसलिये उसका बल भी इन्हें नहीं मिलता था।

दूसरा दल राष्ट्रवादियों का था। इसमें धनियों की अपेक्षा बौद्धिक वर्ग का हिस्सा ज्यादा था। वकील और डाक्टर वर्गीयों इसके कर्णधार थे। यह उदार दल से ज्यादा गरम वर्ते करने और साम्राज्यिक प्रवृत्तियों से अलग रहने वाले थे। प्रचार ही इनका मुख्य अस्त्र था। जनता के निम्न मध्यम वर्ग तक इनकी पहुंच थी। इस अर्थ में नरन दल वालों से यह अधिक लोकप्रिय

हुये। इनके पीछे भी किसी ठोस सेवा, सर्वसाधारण की आवाज़ या कुरबानी का बल नहीं था। इनमें से कुछ लोगों को जेल की हवा भी ग्रानी पड़ी। विदेशी बहिष्कार और होमस्ल आंदोलन इनके दो खास संघर्षात्मक प्रयत्न थे। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा इनके कार्यक्रम का रचनात्मक भाग था। राजस्थान में इस दल ने कोई खास स्थान नहीं पाया और रियासतों में तो इसका कोई अस्तित्व भी नहीं हुआ। ये लोग भी देहाती जनता में नहीं पहुँचे और न मजदूरों या शरीरों की ही प्रत्यक्ष सेवा की तरफ ध्यान दे सके। इनका ध्येय तरमों से आगे बढ़ा हुआ था। यह ऐसा स्वराज्य चाहते थे कि सम्मव हो तो भारत एक उपनिवेश के रूप में वृटिश साम्राज्य के सीतर रहे और आवश्यक हो तो उसके बाहर हो जाय। इनकी कल्पना में स्वराज्य का अर्थ यह था कि सत्ता अंगेजों के हाथ से शिक्षित भानीयों के हाथ में आ जाय, सर्व साधारण उसमें भागीदार हों या न हों। इस प्रान्त में इस दल के जो इक्फे दुक्के लोग कांप्रेस में शरीक हुये वे या तो नव जब मान और प्रतिष्ठा मिली तब शरीक हुये या अपने धंधों को चमकाने के हेतु से शामिल हुये। इनके कारण दलवंदी भी बड़ी।

तीसरा दल विप्लववादियों का था। राजपूताने में इनका अस्तित्व शुरू से था। हमारी मध्यकालीन हिनापूर्ण वीरता की परम्परा के कारण राजस्थान देश के कांतिवादी आनंदोलन का एक प्रमुख केन्द्र रहा। आरन्म तो इन लोगों ने उस, इटली

और तुर्की आदि युरोपियन देशों के अनुकरण से ही किया, मगर बंग मंग के बाद वर्किम वावू के 'आनन्द मठ' की कल्पना और अरविन्द की शिक्षा से इसका भारतीय संस्करण स्वतन्त्र बन गया। ये ऐसे राजनीतिक सन्यासियों की टोली थी जिनके एक हाथ में 'गीता' और दूसरे में तमंचा था, हृदय मालूमी को विदेशियों के वंधन से छुड़ाने के लिये ब्रह्मद्वय या और बुद्धि अपने पराये के रीगद्वेष से मुक्त थी। इनका उत्कट देशानुराग, इनका ध्येय-प्राप्ति का उन्माद, इनका ज्ञान हथेली पर रख कर चलना, इनकी कार्य-दक्षता, निर्मयता और पवित्र जीवन युवकों को स्फूर्ति देने वाला था। इनका साहसी कार्यक्रम शिक्षित बर्तन को प्रशंसक बनानेवाला और उनका प्रबल साम्राज्य की अतुल शक्ति का सामना करते हुए परंगों की तरह वलिदान हो जाना शत्रु तक को शरमानेवाला था। इन्होंने नैराश्य के ऐनिक्षान में स्वावलम्बन की हरियाली दिखाई, शासक मंडल के अत्याचारी व्यक्तियों में भय का संचार किया और सरकार को नृशंस दमन के मार्ग पर धकेल कर विदेशी शासन का असली रूप प्रकट किया। इनके कार्य के परिणामस्वरूप सचावारियों को छुल राजनीतिक सुवार भी देने पड़े। लेकिन विप्लववाद का आवार हिंसा का ही था। हिंसा का परिणाम प्रतिहिंसा अनिवार्य है। इससे विपक्षी पर ढल्टी ही प्रतिक्रिया होती है। इसका अनुसरण छुप कर ही हो सकता है और गुपता के साथ छल और मूठ का अद्वृद्ध सम्बन्ध है।

परायों पर चलाते चलते जिन अद्वितीयों का हमें अभ्यास हो जाता है पक्ष भेद होते ही हम उन्हीं को अपनों पर भी चलाने लगते हैं। हमारा देश इतना विशाल है कि इसके लिये राष्ट्र व्यापी गुप्त संगठन पक्ष असाध्य चीज़ है। भोली भाली ग्रामीण जनता के संस्कार उसे सरत दिखा और असत्य के मार्ग पर नहीं चलने देते। हत्या और लूटमार के प्रति उसकी हादिक या व्यापक सहानुभूति नहीं हो सकती। यहीं कारण है कि लहां आयलैंड के हो सौ वर्ष के राष्ट्रीय संग्राम में क्रान्तिकारियों के खिलाफ़ कोई देशद्रोही गवाही देने और जनता मदद करने को तैयार नहीं हुई, वहां भारत में सिर्फ़ तीस साल में ही लगभग हर राजनीतिक पड़यन्त्र भेदियों और विश्वासवातियों के कारण असफल हुआ। अब्बान और दिर्घिता के चारण कौन्त में भरती होने वाले भाड़े के आदमियों से भी बहुत आशा नहीं की जा सकती कि वे किसी सुशस्त्र क्रान्ति में प्रब्ला-पक्ष का साथ देंगे। सच् तो यह है कि छलबल और पशुबल में अंग्रेज़ इतने पहुँचे कि इस अस्लाड़े में उत्तर कर इनसे ली-ना बहुत मुश्किल था। इसमें भममौते की गुंजायश नहीं थी। जैनिकों को सदा जीन करने और मैदाने जंग में ढांडे रहना पड़ता था। ऐसा अविश्वास्त दुष्ट बीच बीच में आराम मांगने वाली मानव-प्रकृति के विपरीत था। साधारण जनता से इनका बन्धक नहीं था और लोकमुद्ध का खुला समर्थन मिल नहीं सकता था। ये लोग भावना प्रवान होते थे। राजस्थान के क्रान्तिकारियों में अधिकांश के

ब्रंगाल और महाराष्ट्र के आदि विष्णववादियों जैसी नैतिक उच्चता प्राप्त नहीं थी। सन् १६२० के बाद व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता, अपनों के साथ सरल व सत्य व्यवहार, सिद्धान्तों की दृढ़ता, साइस और साधनों की पूर्णता आदि गुण देश के दूसरे भागों की तरह राजस्थान के विष्णववादियों में भी कम होते गये। चालू राजनीति में घुसते ही ये दलवन्दी में पड़ गये। मगर इसके कुछ कारण भी थे। प्रथम तो रूसी साम्यवाद के धर्महीन प्रभाव ने इनकी आस्तिकता और नैतिकता को ठेस पहुंचाई, दूसरे खुली देशभक्ति से मिलने वाले पद और प्रतिष्ठा का जादू चला और तीसरे रचनात्मक कार्यक्रम में लगे हुए सेवकों को मिलने वाले साधनों और मुविधाओं ने ईर्षा व प्रलोभन उपस्थित किया। कल यह हुआ कि कफ्तन बांध कर चलने वाले ये गजनैतिक कक्षीय भी निष्ठा, निष्पृहित और तप के मार्ग से विचलित होगये। त्याग के अविमान ने सह्योग का द्वार नहीं खुलने दिया। दूसरे क्रियाशील दलों से इनका संघर्ष दीर्घकालीन रहा। फिर भी इनमें अन्य सभी दलों की अपेक्षा देश के लिये कुछ न कुछ कर गुजरने का उत्साह अधिक बना रहा। विष्णववादी राजस्थान यह गर्व कर सकता है कि उसमें अनेक प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों को आश्रय मिला और उसने दूसरे प्रांतों की तरह विश्वासघाती गवाह पैदा नहीं किये।

साम्यवादी या कम्युनिस्ट दल भारत में रूस की १६१७

बाली लाल क्रांति के बाद पैदा हुआ। जारशाही के लोभहर्षी अत्याचारों का अन्त करके यूरोप के सबसे बड़े राष्ट्र ने जब गरीबों के राज की दुंधुमी बजाई तो संसार के पीड़ित वर्ग में एक अजीब आशा, उत्साह और आत्म-विश्वास की लहर दौड़ गई। साम्यवाद ने सैकड़ों भारतीय युवकोंके द्विल व दिमाग पर जल्दी ही कब्जा कर लिया। देखते देखते उनमें कार्ल माकर्स का तत्वज्ञान घर कर गया। सन् १९२६ तक मुझ पर भी इसका 'काफी असर रहा। इस दृल की विशेषता यह थी कि यह सर्व सावारण के साथ एकरस था। यह 'उन्हीं' के लिये या यूं कहिये कि 'उन्हीं' का था। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति, साम्राज्यवाद और शोषकवर्ग को मिटा कर वर्गहीन समाज की रचना और अन्त में अहिंसा की प्रस्थापना करना है। यह मानता है कि जो श्रमिक अपना पसीना वहा कर सुख के सारे साधन पैदा करते हैं 'उन्हीं' के हाथ में इन साधनों का नियंत्रण होना चाहिये। वह यह भी मानता है कि राज्य-संस्था संगठित हिसा का दूसरा नाम है और अहिंसा के कायम होने और जीवित रहने का एक मात्र उपाय यह है कि कोई सर्कार ही न हो और समाज के सब काम काज उसके सदस्यों की कत्व्य-परायणता, सहयोग और जिम्मेदारों की भावना से चले। परन्तु पूंजीपतियों, साम्राज्यवादियों, सामन्तशाहों और अन्य शोषक वर्गों को उखाड़े और उनकी ढाल शासन-संस्थाओं को तोड़े बिना वह स्थिति नहीं आ सकती। इसलिये साम्यवाद

के मातहृत वीच की अवस्था यह होगी कि हिंसा का आश्रय लेकर साम्यवादी सरकार क्रायम की जाय। इस दल के प्रयत्न से भारत के मज़दूरों में काफी और किसानों में कुछ जागृति हुई। धुन के पक्के ये लोग भी उत्तेज ही थे जितने विप्लववादी। इनमें साम्प्रदायिकता तो नाम को नहीं थी। प्रचारक इनसे बढ़कर शायद ही कोई दूसरा दल होगा। मगर इनका अनीश्वरवाद, इनकी नैतिकता के प्रति उदासीनता, इनकी कहु आलोचना और व्यक्तिगत एवं सार्वनानिक जीवन में इनकी विषमता इनके ऐसे दोष थे जिनके कारण ये भारतीय लोकमत का समर्थन न पा सके। वृटिश सरकार इन्हें विप्लववादियों से भी खतरनाक समझती थी। इसलिये उसके दमन कीचक्की में ये खूब पीसे गये। इनका यह विश्वास है कि जनता में असंतोष क्रायम रहना और बढ़ना चाहिये ताकि उसमें कांतिकारी भावना बनी रहे। इस लिये लोगों के तात्कालिक कष्ट निवारण का उपाय न करना, पूंजीपतियों और सम्राज्यवादियों के साथ किसानों व मज़दूरों के संघर्ष द्वारा वर्गयुद्ध की स्थिति बनाये रखना साम्यवादियों की कार्यपद्धति का एक खास उसूल है। लेकिन इससे एक हानि होती है। सर्वसाधारण की मनोवृत्ति यह है कि वे बातें खूब गगमागरम पसन्द करते और नारे उम्र से उम्र बुलन्द करते हैं, मगर लम्बा और तीव्र कष्ट सहन नहीं कर सकते। इसलिये हर भिड़न्त में उन्हें कुछ न कुछ राहत न मिले और कोई न कोई स्पष्ट अधिकार या सुविधा प्राप्त न हो तो उनका न अपने नेताओं

पर और न उनके बताये हुए रास्ते पर ही विश्वास स्थिर रहता है। किरभी साम्यवादी विचारधारा का अस्तर हमारे शहरी मज़दूरों पर चल्हर हुआ है और वडे २ कारखानों में काम करने वाले लोग लाल झड़े के नीचे एक हृद तक संगठित भी हुए हैं। राजस्थान में भी अजमेर, व्यावर, किशनगढ़-आदि की मज़दूर हड्डतालोंमें साम्यवादियोंका हाथ था। साम्यवादियों की क्रान्ति की कल्पना में इन्हीं शहरी अमज्जीवियों को अग्रगामी ढ़ल और स्तंभ माना गया है। इसलिये इन्हें मुझे भर देते हुए भी वे असंख्य किसानों की ओपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। लेकिन इस विचार का भारतीय परिस्थिति से मेल नहीं खेटवा। यहाँ के ६० फी सदी लोग देहाती हैं। किसान सर्वादियों से एक खास तरह की संकृति में पल्ला है। इसे ऐसा कोई रास्ता पसन्द नहीं हो सकता जो धर्वशा विदेशी और नया हो, जो धर्म और ईश्वर की सत्ता के विपरीत दिखाई देता हो, जिसमें छलकपट या मारकाट की छूट या प्रवानता हो और जिसके साथ चिर संवर्ष किया हुआ हो। शायद इसलिये भी किसानोंकी तरफ हमारे साम्यवादियों ने बहुत ध्यान नहीं दिया हो। वहरदाल, हिन्दुस्तानी काश्तकार, आम तौर पर साम्यवाद से प्रभावित नहीं हुए। इस का सूत्र संचालन रूप से होने के कारण राष्ट्रवादी भारत के स्वाभिमान ने इसे ज्यूं का त्यूं अंगीकार करने से इनकार किया और उन साधारण ने इस धर्म-विरोधी विचार-सरणी को नहीं अपनाया। गजस्थान के मार्वर्जनिक जीवन में

इस दल का कोई रचनात्मक भाग 'नहीं' रहा और न उसके अधिकांश सदस्यों के साधारण व्यवहार की ही अच्छी छाप पड़ी। जो भी प्रतिक्रिया हुई वह प्रतिकूल ही हुई। पिछले महायुद्ध के समय तो साम्यवादी दल ने राष्ट्र के साथ स्पष्ट ही दग्ध किया।

समाजवादी ( सोशलिस्ट ) दल कांग्रेस के साथ रहा। पिछले दिनों तक राजस्थान में इनकी गिनती अंगुलियों पर हो सकती थी। ऐसी हालत में उनका दल या संगठन तो होता ही क्या? हाँ, उदारदल की तरह इनमें भी चोटी के होग अध्ययन-शील, उच्च शिक्षित और तंकशाली होते हैं। समतावादियों में इनकी वही स्थिति है जो राष्ट्रवादियों में नरम दल की। फर्क इतना ही है कि वे पूर्ण स्वाधीनता और वडे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्षपाती हैं। साम्प्रदायिकता से ये भी दूर रहते हैं। भगव उतने ही दूर रचनात्मक कार्यों से भी रहते हैं। राजस्थानी समाज-वादी तो मज्जदूरों या साधारण जनता के साथ भी बहुत सम्पर्क स्थापित न कर सके। अलवत्ता अब प्रजामंडलों और कांग्रेस संगठन में पत्रकारों और विद्यार्थियों में इनकी संस्था बढ़ती जा रही है। कांग्रेस से अलग होकर अब ये क्रियाशील भी ज्यादा चलेंगे। विरोधी दल के रूप में इसकी लोकप्रियता बढ़ने की सभावना है।

सर्वोदयवादी दल सबसे व्यापक, संगठित और लोकप्रिय रहा। इसे सत्याग्रहवादी और नांदोवादी भी कहते हैं। इसकी

सकूलता का सुख्य कारण इसके प्रयोग और जायक महात्मा गांधी का अद्वितीय कार्य, अहौकिक व्यक्तित्व और देश विदेश ज्यापी प्रभाव है। सन् १९२० से ही गांधीजी हमारे राजनीतिक गति में सूर्य के समान चमकते रहे। हमारे राष्ट्रीय लीबन के हर पहलू पर उनके विचारों का प्रकाश पड़ा है और समाज की प्रत्येक प्रवृत्ति पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव हुआ है। उन्होंने जाति का हर दिशा में सुवार करने की कोशिश की है। ऐसी सर्वोन्मुखी सामन्यवाली विनूत की दरक सभी का आकर्षित होना चानवित था। गांधीजी ने भारतीय संस्कृति के नूल और सुख्य आवार को रक्षा करते हुये पश्चिम की वे सभी सूखियां प्रहरण करली जो हमारी सांख्यिक सम्पत्ति और राष्ट्रीय शक्ति को बड़ा खड़ा बनायी थीं। उनके सर्वोन्मुखवाद में दूसरे बादों की खास खास अच्छाइयां भी शामिल हैं। इसमें विष्णवाद की गीतामय लीबन और पूर्ण स्वार्दिनता का व्येय है, तरम दल की समाज सुवार, रक्षात्मक सेवा और समस्याएँ की हुति है राष्ट्रवाद की असान्नदायिकता है, समाजवाद का बड़े द्योगों का राष्ट्रीयकरण है और सान्यवादियों की अराजकता है। विष्णवाद और सान्यवाद की दरह यह निश्चय के प्रकृति के बज (Sanctions) में विश्वास रखता है और इन दोनों से अधिक आनन्द और व्यापक क्रांति का हिमायती है। चत्याप्रवाद वर्गदृष्टि के विप्रदारी कार्यक्रम के द्वाय उन की सलाही चाहता है; शोषकवर्ग के नाश का व्यर्थ प्रयास

छोड़ कर उसके हृदय-परिवर्तन और स्वेच्छापूर्वक त्याग का अधिक स्वाभाविक और आशाभय प्रयत्न करता है। समाज-वादियों की तरह वह भी मानता है कि पूँजी के सच्चे उत्पादक और असली स्वामी मज़दूर हैं और 'उत्पादन में केवल बुद्धि या धन लगाने वाला समुदाय मालिक नहीं' ट्रस्टी या रक्षक बनाने का हक्कदार है। यह समाजवादियों और साम्यवादियों की राजाओं, जागीरदारों और दूसरे परंपरागत सुधारियों और सत्तामोगी समूहों के विनाश का पथ ब्रह्मणन कर के उन्हें जनता के सेवक बनाने का पक्षपाती है। इस कारण इन विशेष समुदायों की तरफ से भी गांधीवाद का तीव्र विरोध नहीं हुआ और एक हड़ तक उनकी सहानुभूति भी मिली। हिन्दू धर्म के आवारभूत सिद्धांत सत्य और अहिंसा के साथ गांधीजी ने अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अस्वाद आदि यम नियमों का पुट लंगा कर असंग्रह, शरीरअत्म, निर्भयता, सर्वधर्म-समन्वय, स्वदेशी और स्थृत्यता के न्यारह नियम ऐसे बता दिये जिन्हें गांधीवाद के तत्व कह सकते हैं। सत्य सर्वोपरि है, मगर अहिंसा के बिना उसका श्रेयस्तर पालन नहीं हो सकता। या यूँ कहिये कि न्याय साध्य है और उसका साधन प्रेम हो तभी वह कल्याण-कारी हो सकता है। लक्ष्य शुद्ध होने पर भी उस तक पहुँचने के तरीके अशुद्ध हों तो लक्ष्य अनिष्ट हो सकता है। इस बात पर गांधीवाद का बड़ा ज्ओर है। यह एक निर्विवाद सचाई है कि भूंठ और क्रोध का छूल और पशु

बल का, दूसरे पर अच्छा अपर नहीं होता। प्रतिपक्षी का हृदय अहिंसा अर्थात् प्रेम, दया, क्षमा या उदारता से ही जीता जा सकता है। लेकिन इस हृदयपरिवर्तन के लिये निष्क्रिय अहिंसा काफ़ी नहीं है। उसे सक्रिय होना चाहिये। पापी, अत्याचारी या विरोधी के प्रति रोष, प्रतिशोध या बल प्रयोग न करते हुये और सब कष्ट सह कर भी सत्याग्रही को उचित बात पर डटे रहना जरूरी है। इसी को सत्याग्रह कहते हैं। गांधीवाद के शस्त्रागार का यही ब्रह्मास्त्र है। लेकिन सत्याग्रही को अस्तेय यानी चोरी न करने का ब्रत भी पालन करना जरूरी है। उसके विचार से इतना ही काफ़ी नहीं है कि किसी की चीज़ उससे विना पूछे न ली जाय, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हम संसार को अधिक से अधिक दें और अपने लिये कम से कम लें। ब्रह्मचर्य के पुनर्न अर्थ में भी गांधीवाद ने यह सुधार और विस्तार किया है कि अविवाहित रहने या विवाहिता पत्नी से अलग होने की अपेक्षा उसके साथ रह कर संयम रखने में अधिक शौर्य है। अस्वाद के नियम का उपयोग भी स्पष्ट ही है कि मनुष्य अधिक खाकर बीमार पड़ने और विकारों का शिकार होने से बचे। असंग्रह की कल्पना साम्यवाद के व्यक्तिगत सम्पत्ति न रखने वाले विधान से भी आगे बढ़ी हुई है। उस विधान में कुछ इच्छार तक रुपया रखने की गुंजायश है तो यहां रोज़ कुआं खोदने और रोज़ पानी निकालने की आशा रक्खी गई है। इन पांचों नियमों का लाभ एक गरीब देश के सेवकों

के लिये साक ही है। शरीरश्रम का महत्व अस्वाद की तरह स्वास्थ्य के लिये तो है ही, इसका मुख्य मूल्य मनुष्य की शोषणवृत्ति कम करने में है। हम अधिक से अधिक सुख भोगना चाहते हैं इसलिये खुद कम से कम काम करके दूसरों से ज्यादा से ज्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं। नतीजा यह होता है कि संसार में एक तरफ़ मुड़ी भर पड़े लिखे, धनवान और सत्तावारी लोग हैं जो ज़रूरत से ज्यादा खाते, पहनते और नाम मात्र को मेहनत करके भी भौज ड़ड़ते हैं और दूसरी ओर करोड़ों इन्द्रियान अपना खून पसीना एक करके भी नंगे भूखे और निराश्रित रहते हैं। एक बर्ग शरीरश्रम के अभाव में और दूसरा उसका ज्यादी से स्वास्थ्य की हानि करता है। गांधीवाद ने निजी कामों के रूप में शरीरश्रम आवश्यक करार देकर बर्ग-विषमता और शोषण के एक ज्वरदस्त कारण को दूर करने का सुगम उपाय सुझाया है। भारत संतान की चिरसीरुता को मिटाने के लिये नियंत्रिता का पाठ पढ़ा कर गांधीजी ने उसमें हँसते हँसते जेल, लाठी और गोली की मार सहने का साहस उत्पन्न किया है। अंग्रेजों की फूट डाल कर शासन करने की नीति ने हिन्दू, मुस्लिम और और दूसरी जातियों में वैमनस्य का विष वृक्ष लगाया। उसके उन्मूलन के लिये भी सर्वधर्म-समझ ज़रूरी था। मगर इससे भी बड़ी शिक्षा इस ब्रत में यह है कि हम सब एक ही ईश्वर की संवान हैं, सारे धर्म उसी एक लक्ष्य तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते मात्र हैं और हम सब अपने धर्म से प्रेम और दूसरे धर्मों

का आदर करते हुये भाई भाई की तरह सुख शांति से रह सकते हैं। विदेशी चीजों की मूँठी तड़क भड़क और सत्तेपन की गलत धारणा ने हमें अपने देश की बनी हुई वस्तुओं के प्रति इतनों उदासीन बना दिया था कि हम अब तो होकर अपना बन विदेशों में वहा रहे थे और अपने उच्चोगवंधों की हत्या करते बा रहे थे। गांधीजी ने हमारो स्वदेशी की भावना को अधिक सुन्दर और सजीव तो किया ही, हमें उनसे इस विषय में एक सौन्तिक विचार भी मिला है। स्वदेशी की उनकी यह व्याख्या यहां तक जाती है कि हम अपने पढ़ोशी की सेवा पहले करें और फिर बूते के अनुसार सेवा का ज़ेब बढ़ाते जावें। अस्पृश्यता को सिटाये बिना तो राष्ट्र में न्याय, एकता और समानता की स्थापना ही नहीं हो सकती थी। सर्वोदयवाद में साधुता, शान्ति-प्रियता और जीवदया देखकर वनिकवर्ग ने इसके अनुयायियों को बन की अच्छी सहायता दी। कुछ असीरों ने इन्हें भावी शासक समझकर भी मढ़द की। गांधीजी ने गोखले की भारत सेवक समिति से आजन्म सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं की कल्पना लेकर घनवानों के दान से उप्रका खूब उपयोग और विस्तार किया। इससे देश में सैकड़ों ऐसे सेवक पैदा हो गये जो सारा समय लगाकर जनता को भलाई का कोई न कोई काम करते रहे। इनका एक बलशाली संगठन बन गया। ये लोग आजादी की लड़ाइयों में तो सैनिक बन जाते और शान्तिकाल में अस्पृश्यता निवारण, शिक्षा, ग्राम सेवा, प्राम उद्योग और कष्ट

निवारण आदि में से किसी न किसी रचनात्मक प्रवृत्ति में लगे रहते। इससे कार्यकर्ताओं को भावी स्वराज-संचालन के लिये आवश्यक तालीम मिलती है, जनता से दिन रात का सीधा संबन्ध बढ़ता है, उसके दुख सुख, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ब्रान रहता है, प्रामीणों की कुछ न कुछ प्रत्यक्ष सेवा होती है, उन्हें थोड़ी बहुत रोज़ी मिलती है, राजकर्मचारयों, सूदलोरों और दूसरे शोषक वर्गों से उनकी कुछ रक्षा होती है और दोबारा के जीवन को सुखी और शुद्ध रखने के लिये उचित सलाह प्राप्त होती है। उन सब वातों से देहाती जनता की राष्ट्रीय आनंदोलन में दिलचस्पी बढ़ती है। वह यह समझ कर उसमें भाग लेती है कि आनंदोलन उसीकी भलाई के लिये है। उसे यह विश्वास होता है कि जिस लड़ाई में वह खुद हिस्सा ले रही है उसका फल भोगने यानी शासन के अधिकारों में भी उसका भाग जरूर रहेगा। सत्याप्रह का संग्राम है हमारे देहातियों की स्थिति, संस्कार और शक्ति के अनुकूल। एक निःशब्द, विशाल और अहिंसा-प्रवान संस्कृति बाले देश के बेचारे निरक्षर, दरिद्र और लीथे सादे प्रामीण अंगेजों जैसे बुद्धुए कूटनीतिज्ञ, हिंसा-पद्ध और संगठित शासकों के सामने गुप्त मार काट, छल कपट की राजनीति या हथिथारवंद बगावत में कैसे टिक सकते थे? उन्हें तो खुला और सीधा कार्यक्रम ही पसंद आ सकता है। इस कार्यक्रम की सफलता में सुन्दर लड़ाइयों से उन्हें विश्वास तो हो रहा गया था, सत्याप्रह के देश-

व्यापी घर्मयुद्ध में वह हर बार बड़ी संख्या में शरीक हुये। गांधीजी ने खियों, अद्वृतों आदि जातियों और अल्पसंख्यकों के उत्थान कार्य को भी चालना दी। इस कारण सर्वोदयवादी इन बर्गों में भी लोकप्रिय हुये। गांधीजी के कार्बकम में वाल, बृद्ध और कमज़ोर सभी के लिए स्थान था। वे भी सहायक हुये सब ने महत्व की बात यह है कि सामूहिक अहिंसावाद में संसार-समस्याओं को हल करने का सामर्थ्य है। राष्ट्रों में हिसा और असत्यके आधार पर जो आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक संघर्षे चिरकाल से चला आहा है वह सत्य और अहिंसामूलक उपायों से ही तक सकृत है। सभी देशों के विचारशील व्यक्ति गांधी-वाद की इस शोधता से आकर्षित हुये हैं और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जब भारत आजाह हो गया है और पिछले नहायुद्ध के बाद जब भारत समर दुःह काह रहा है तो दुनिया की आंतें गांधीजी के दरीकों की तरफ लगी हुई हैं। देशी राज्यों की हाई सेवा देखा जाय तो उदार दूल को छोड़ कर दूसरे राजनीतिज्ञों ने प्रायः उनकी उपेक्षा की थी। इसे कारण वहां की आठ कोड़ लनवा के लिये हृदय सागर की राजनीति दिलचर्पी की चीज़ नहीं थी। गांधीजी ने एक रियासत में बन्म लिया, हिन्दुस्तान की आजादी में रियासती प्रला को सामूहिक द्वार बनाया और कंग्रेस संस्कृत में उसे प्रतिनिवित्व दिलवाया। इसना ही नहीं, उन्होंने देशी राज्यों में रचनात्मक कार्य

के चारिये सार्वजनिक जीवन की जड़ जमाई और बाद में उसे वृटिश भारत की तरह ठेठ तक पहुँचा दिया। इस कारण गाँधीवादियों को रियासती प्रजा का समर्थन नी मिल गया। राजस्थान देशीगव्यप्रधान प्रान्त है और सेठ जमनालालजी जैसे समर्थ व्यक्ति राजस्थानी थे। इस कारण इस प्रान्त में गाँधीवादियों का अस, व्यापक और स्थायी रहा। मगर गाँधी-वादियों में कम से कम राजस्थान में काम करने वाले गाँधी-वादियों में न विष्णववादियों का सा उन्माद या और न साम्यवादियों की सी छुन थी। वे राजस्थान सेवासंघ के कार्यकर्ताओं की तरह त्याग, कष्टसहिष्णुता और परिश्रमशीलता का उदाहरण भी पेश न कर सके। अम तौर पर उनकी सहनशीलता तथा नम्रता आदि गुणों के साथ साथ उनकी आराम-तलवों और साधनों के सोह की भी दूसरों पर छाप पड़ी। प्रमुख व्यक्तियों में से अधिकांश में कार्य शक्ति और नेष्टत्व के गुणों की भारी कमी पाई गई। दुर्भाग्यवश जब से यह दल राजपूताने में बना रह से आपस का संघर्ष घटने के बनाय बढ़ता ही गया और हर दल से इसकी किसी न किसी समय टक्कर हो गई। इन कारणों से यद्यपि कुल मिला कर प्रान्त की सेवा इनके हाथों और किसी भी दल से कम न होने पर भी जितने साधन, जितना समर्थन और जितना अवसर इन को मिला उतना काम इनके हाथों हो पाया।

## तेरहवां अध्याय

### प्रतिकूलताएँ

‘हमारे प्रांत के राष्ट्रीय प्रयत्नों को यथेष्ट सफलता न मिलने का कारण हमारी दो तरह की प्रतिकूलताएँ थीं। प्रथम तो राजशूताने की भौगोलिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। अजमेर मेरवाड़ा के छोटे से हिस्से को छोड़ कर वाकी सारा इलाका रियासती है। पिछले कुछ साल पहले तक इसमें सार्वजनिक कामों की बहुत कम गुणायश थी। लिखने, बोलने, अखबार निकालने और सभा-संस्था संगठन करने की आज्ञादी न होने से निर्दोष प्रवृत्तियां भी बंद थीं। जिनके दिलों में देशभक्ति के भाव उदय होते उन्हें बहाँ काम करने का मौका न मिलता। इसलिये उच्च शिक्षितों में व्यावहारिक बुद्धि वाले तथा जोरदार तबीयत वाले अंग्रेजी इलाके में आकर कांपेस या रियासती लोक परिपद में शरीक होकर अपनी सार्वजनिक आकांक्षाओं की पूर्ति करते। मगर अजमेर मेरवाड़ा खुद भी निरंकुश शासन के अधीन था। उसका द्वायरा भी छोटा सा था। इस भीमित क्षेत्र में भी रचनात्मक कार्य की

ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये या उतना नहीं दिया गया। छोटी सी लगड़ में बहुत से कार्यकर्त्ता इकट्ठे हो गये। उन्हें भी पूरी तरह काम में लगाये रखने की चिंता नहीं की गई। निटल्ले गहने और सबकी महत्वाकांक्षाओं के लिये अवधर न मिलने के कारण आपसी संवर्प अनिवार्य हो गया।

कार्यकर्त्ताओं की भीड़ और पारस्परिक मगाड़ों का दूसरा कारण हमारे प्रांत का बहुत बड़ा बना दिया जाना भी था। क्रांतिकारी ने जिस वक्त मध्यभारत और गजपूताना की रियासतों को अजमेर मेरवाड़े के साथ मिला कर एक सूवा बनाया उस वक्त न तो नेताओं को ही परिस्थिति का सम्यक ज्ञान था और न प्रांत के राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं को ही इस प्रश्न के महत्व और भावी उलझनों का ख्याल था। असल में भूगोल, राजनीति और सम्यता के लिहाज से गजपूताना के रजवाड़ों और अजमेर मेरवाड़ा का ही मेल बैठ सकता है। मध्यभारत की ये स्थितियां स्पष्टतः एक अलग प्रान्त की मांग करती हैं। उसके बहुत से भाग अजमेर से दूर होने के कारण प्रांत के राष्ट्रीय केन्द्र से बनिधि सम्पर्क नहीं रख सकते। यह दूरी आमदरक्षत के लिये खर्च होने वाले समय और धन की समस्या भी उपस्थित करती है। इसी बजह से मध्यभारत की जन-संख्या और कार्यकर्त्ताओं की तादाद के मुताबिक बहुत असंतुष्ट उन्हें योग्य महत्व नहीं मिल सका और उनमें यह असंतोष रहा कि मध्यभारत राजपूताने का पुछला है। दुंदेलखंड वाजे तो आखिर इस

प्रांत से निकल ही गये। इधर मध्यमारत वालों को यह शिका-  
यत रही कि जो लोग उन्हें छोड़ कर अजमेर में आ वसे हैं  
उन्हें मध्यमारत का प्रतिनिधि क्यों मान लिया जाता है और  
इधर राजपूताने वालों को यह शिकायत रही कि बाहर  
के लोग हमारे शिर पर आ वैठे हैं।

रचनात्मक काम भले ही अजमेर में वहुत न हुआ  
हो, किन्तु प्रांत में तो हुआ ही। इस कार्यक्रम की सफलता का  
रहस्य इस बात में होता है कि उसमें लगे हुये कार्यकर्ता सभी  
दलों का सद्भाव प्राप्त करें। यह सद्भाव चुनाव सम्बन्धी  
और दूसरे राजनीतिक मालिङ्गों में तटस्थ रह कर ही प्राप्त किया  
ला सकता है। मगर हमारे यहां के रचनात्मक सेवक विशेषतः  
खादी कार्यकर्ता यह लिपेश्वरीत्ति न रख सके और राजनीतिक  
दलबन्दी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते रहे। सेवा  
के सावनों का इस प्रकार का उपयोग पारस्परिक संवर्धन बढ़ा  
ही सकता था।

एक बड़ी प्रतिकूलता हमारे प्रांत की यह रही कि हमारे  
किसी राष्ट्रीय कार्यकर्ता को शक्तिशाली नेतृत्व का पद और  
सर्वांगीण प्रभाव प्राप्त नहीं हुआ। सेठीजी और पदिकजी  
दो व्यक्ति जहर ऐसे थे जिनमें ग्रांडन में नेता के काफी  
लक्षण दिखाई दिये। मगर वै बराबरी के आदमी थे।  
उनमें आपस में स्पर्धा रही। कार्यक्रम अलग  
अलग होने के कारण संवर्धन भले ही उनमें तीव्र न हुआ हो,

परन्तु असहयोग तो या ही। सेठ जमनालालजी ही एक ऐसे समर्थ पुरुष थे जिनका व्यक्तित्व, प्रशाव और व्यवहार प्रांत के छोटे बड़े अधिकारियों पर अमर ढाल सकता था। मगर वे अखिल भारतीय नेता थे। नव्यप्रांत मुख्यतः उनका कार्य एवं निवापनकेत्र था। राजस्थान में आकर बैठने की उनको कुरसर न थी। वहाँ के गांधीवादी दल के वे सरपरत थे। जब वह दल आपसी मणियों में पड़ा तो सेठजी की स्थिति, चलत या चहों, दूसरे दलों को हाई में सर्वया निष्पक्ष नहीं रही। किंतु वी मेलमिजाप और संगठित कार्य के हर प्रयत्न को उनकी तरफ से प्रोत्साहन मिलता था। वाजी के लोगों में से जो ग्रान्त के मार्वरनिक जीवन का पथ-प्रदर्शन करने की क्षमताएँ रखते थे वे अपनी व्यक्तिगत कमज़ोरियों के साथ साथ सार्वकानिक इच्छा के शिकार हो गये। जो इस विषय में अधिक भाग्यशाली थे उनमें लोकतायक वनने की घोगताएँ नहीं थीं। लेकिन महत्वाकांक्षा तो थी हो। उपर्युक्त पूर्वि के लिये अपात्रों को आर्थिक उद्घाटन या पदन्दान की नीति से अपना बना कर रखना सामाविक था। फज्जतः नये और छोटे कार्यकर्ताओं में लोभ की वृत्ति पैदा हुई और वे खुशामद के जरिये मुक्तिवाएँ प्राप्त करने की कला सीखने लगे। अनुवायियों की हेरा फेटी हमारे सावेचनिक जीवन का एक स्थायी सा अभिशाप होगया। एक नेता के प्रति बेवकूफ दूसरे के प्रति अद्वा की कसोटी बन गई। इस गड्ढ़ में अपने आदिमियों की उपेक्षा और दूसरों की

गलतियों की निन्दा करना राजनीतिक अखाड़े की साधारण रणनीति होगई। उद्घटना दूसरों में पाई गई तो वह 'गुणठाई' कहलाई और अपनों में हुई तो उसे 'दंवंगपन' का दर्जा मिल गया। विरोधी की साधुता को धूर्तता और उसकी तेजस्विता को उच्छृंखलता बता कर कोसा गया। फिर भी हमारे यहां 'राजस्थान के एक मात्र नेता' निर्माण करने के कई प्रयत्न हुए। इनके असफल होने पर सामूहिक नेतृत्व का विकास करने की चर्चाएं चलीं। खयाल अच्छा था। आ. भा. कांग्रेस की कार्यसमिति का उदाहरण भी मौजूद था। मगर हमारे प्रांत में आपस के भाइड़ों से दिलों में इतनी खाई पैदा होगई थी कि पुराने कार्यकर्ताओं में तो आपस में सहयोग नहीं हो सका और नये लोगों की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वे छलांग मार कर सभी के शिर पर बैठना चाहते थे। कुछ ऐसे जीव भी थे जो न किसी एक व्यक्ति का लोहा मानने को तैयार होते थे और न किसी ऐसे सामूहिक नेतृत्व को पसन्द करते थे जिसमें वे खुद सम्मिलित न किये गये हों। फिर भी हमें आगे पीछे इसी सामूहिक उपाय का अवलम्बन करना पड़ेगा। दूसरा कोई चागा ही नहीं दीखता।

हमारे कांग्रेससंगठन में एक खासी यह रही कि हमने स्थानीय प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस कारण सर्व साधारण और खास कर पीड़ित और दलित वर्ग की वास्तविक सहानुभूति और कियात्मक सहयोग प्राप्तीय या स्थानीय कांग्रेस

शास्त्राओं को नहीं मिला। इसका एक प्रमाण और परिणाम यह है कि हमारे बड़े से बड़े राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के नाम और सून्दर से आम जनता परिचित नहीं हुई और कांग्रेस के मामूली आचोकनों में उम्मने वहुत थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। इस दिशा में सिर्फ तीन कार्यकर्ताओं ने प्रयत्न किया। श्री० कृष्णगोपाल गर्ग ने व्यापारियों में, श्री० वालकृष्ण गर्ग ने हरिजनों और न्यूनिसिपल्टी के निम्न कर्मचारियों में और श्री० व्वालाप्रसाद ने देल्हे मजदूरों में उनकी दैनिक समस्याएं और प्रत्यक्ष तकलीफों मिटाने के लिये काम करने का प्रयत्न किया।

प्रान्त की सावारण जनता और उसके निन्दा० वर्गों की हालत भी किसी प्रगतिशील और प्राणदायक कार्यक्रम के अनुकूल नहीं थी, वृटिश संरक्षण ने हमारे राजाओं को अंग्रेजों के सामने भेड़ और प्रजा के आगे शेर बना दिया था। अधिकांश को भोग विलास के सिवाय दूसरे किसी शगल में दिलचस्पी नहीं रही। वे अपने को देश के सेवक और वस्तुतः प्रबा के स्वाभाविक नेता समझ कर आगे बढ़ते तो उन्नति का माने काली दुगम और प्रशस्त हो सकता था। जागीरदारों की ज्यादतियाँ राजाओं से भी अधिक अमर्यादित थीं। वे राजा प्रबा दोनों के अप्रिय बनकर लोकहित के लिये निकल्ने हो गये। इन दो वर्गों में देश प्रेम, दूरदर्शिता और कर्मस्यता होती तो इन्हें भारत के समुराई कहलाने का और भारत को जापान की तरह त्वातंच्यन्सुख भोगने का सौभाग्य कभी का सुलभ हो सकता

था। आज तो राजा नाम मात्र को और जागीरदार मरणोन्मुख ही है।

धनवानों में दान देनेका संस्कार प्रवल था, परन्तु उसमें विवेक का अभाव था। वे जो कुछ देते थे अधिकांश ऐसे कामों में देते थे जिनका आधुनिक काल में बहुत उपयोग नहीं रहा। सम्पत्ति मनुष्य को कायर बनाती है। इसलिये राजस्थानी अमीर ऐसे कार्यों में मदद देने से डरते थे जो राजसत्ता को नपसन्द हों। जब उनमें राष्ट्रीय भावना उदय हुई तब भी उसमें संकीर्णता चाही रही। जिस प्रदेश में वे पैदा होते उसी में अधिक खर्च करते। यह प्रदेश प्रान्त के हिसाब से बहुत छोटा है। नहीं जो हुआ कि राजपूताने के अनेक भागों में जहां सेवा की बहुत जरूरत थी और जहां थोड़े धन से काफ़ी काम हो सकता था वहां उसके अभाव में काम नहीं हो सका और जहां बहुत जरूरत नहीं थी वहां पानी की तरह पैसा बहता रहा। इससे सेवक और सेव्य दोनों की मनोवृत्ति में विगड़ हुआ। हमारे बहुत से दानियों में आगे चलकर यह खराबी नी आगई कि धार्मिक और सामाजिक कामों की तरह राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वे नाम चाहने लगे। इससे मार्वर्जनिक जीवन की शुद्धता को काफ़ी हानि पहुंची। आज तो स्थिति यह है कि अधिकांश दाता लोग यश भी चाहते हैं और पद भी। जहां खुले तौर पर पद लेने में लोखम होती हैं वहां वे अपने 'मुमायंदों' को देखने के इच्छुक रहते हैं। माया के इस बढ़ते

हुए प्रनाव ने त्याग सेवा और शौर्य का मूल्य घटा कर कंचन को ऐसी जगह आसीन कर दिया है जहां वह भलाई के बजाय बुराई अधिक कर रहा है। उसने हमारी राजनीति में कृत्रिम दलवान्दी को जन्म दिया है। पूँजीपति भी अब योड़े ही दिन के महमान हैं।

अजमेर-भेरवाड़ा की शामन-पद्धति और नीति भी सदा लोकबल के चिकास में बाधक रही। शायद वह बड़ी ही इसी प्रकार और इसी हेतु से गई थी। विदेशी निरंकुशता ने गांव में राजनीति की गंध न पहुंचने देने के लिये असाधारण सतर्कता रखी, जिन कार्यकर्ताओं ने ज़िले के अत्याचार के किले-इस्तमुरारी इलाकों की जनता में प्रवेश करने की कोशिश की उन्हें निकाज देने के लिये मदाखिलत बेजा के कानून तक का दुरुपयोग करते में शर्म महसूम नहीं की गई, मानो उस जमीन पर अंग्रेज शासक या राजपूत इस्तमुरारांदार ईश्वर के यहां से पहा करवा कर लाये हों और जो प्रजा दोनों के आगमन से भी पहले उस पर काविज्ञ श्री उसका कोई हक ही नहीं था। खैर, अब तो इस्तमुरारी प्रथा आखिरी सांस ही ले रही है। अफसोस की बात है कि नेताओं की तरफ से इस दमन का योग्य उत्तर नहीं दिया गया। दो एक कायेकर्ता जेल भेज दिये गये। जनता दब गई। उसका सेवकों पर से विश्वास ढाठ गया। हमारे कांग्रेस-संचालन में यह एक खास कमज़ोरी रही कि हम आरंभशुर रहे और किसी

चात को छाड़ा कर उस पर अन्त तक ढंडे नहीं रह सके। इसी तरह शहरी मजदूरों में ज्ञागृति और संगठन पैदा करने के लिये प्रारंभिक प्रवत्त किये गये उन्हें भी वेदर्दी के साथ कुचल दिया गया। खालसे मैं किसानों को लगान और लागवाग की ज्याइती का कष्ट तो नहीं था, मगर उनमें से जीवट के आदमी निकल सकते थे उन्हें कौन मैं नौकरियाँ देकर प्रजा के लिये निकला ही नहीं वाधक चना दिया जाता था। मध्यसर्वर के लोग अधिकांश सरकारी या रेलवे की नौकरियों के कारण स्वार्थमील होगये। रिश्वत देने, लेने या दिलाने वालों में न्याऊं का ठौंपकड़ने की हिमत कहाँ से आवे ? न सीरावाद, नीमच और जड़ आदि खालिम कौनी अड्डे ठहरे। द्वावनियों में सैनिक अधिकारियों के स्वेच्छाचारी अस्तित्यारों के सामने मामूली साहम की गुलर नहीं होती। केकड़ी सामन्तशाही के और पुक्कर पंडाई के बायुमगड़ल से दूषित था। व्यावर के व्यापारी नगर में जहर सार्वजनिक उत्साह पैदा हुआ। वज्ञाह तत्त्वों के बाहुल्य से वहाँ प्रदर्शनात्मक आयोजन भफल भी हुए। किन्तु वहाँ आदर्शवाद, बुद्धिशालीनता और संकृति का आधार न होने से जन योजनाओं में ठोसपन, स्थायीत्व और ऊँची सुवह की जहरत होती है वे कामयाद नहीं हैं।

एक और प्रतिक्रिया भी रही। हमारे ग्रान्त को समय समय पर ऐसे कई सेवकों की सेवाएँ प्राप्त हुईं जो दूसरे सूबों से आये

थे। इनमें से कई हमारे प्रमुख सेवक बनकर रहे। इनके द्वारा राजपूतों की सेवा भी कार्य हुई। इसके लिये हमें उनका अद्भुतमन्द होना चाहिये था। उन्हें भी सेवा का यह सौमान्य भाव लुश होना चाहित था। फिर भी उन्हें अपनी सहायता के लिये बाहर से अपने भरोसे के सहायक कार्यकर्ता बुलाने पड़े। यह स्वास्थ्यविकासी था। लेकिन उस दृढ़ तक न्यानीय और प्रान्तीय कार्यकर्ताओं को अवसर कम मिला। इस पर असन्तोष होना भी आश्चर्य की बात नहीं थी। पूलतः इन सेवकों को 'बाहर वाले' कहकर समय-असमय चिढ़ाया गया। उन्होंने भी राजस्थान को 'भरभूमि' 'नमक की खाज' आदि विशेषण देकर वह प्रगट किया कि वर्सों तक यहाँ का अन्न लल खाकर भी वे अपने में इस प्रान्त के प्रति समत्व पैदा नहीं कर सके। आपसी मनसुदाव का और जनता में इन सेवकों का प्रभाव न बढ़ने का एक कारण वह भी रहा।

हमारे द्वोटे कार्यकर्ताओं में भी अनेक दोष पाये गये। इनमें से अविद्यांश सन् १८३० के विनाट आन्दोलन के जोश से प्रजावित होकर राष्ट्रीय नेत्र में आये थे। उनमें १८०५ के दूरा-भक्तों की सी आदर्शवादिता और १८२० के सत्याग्रहियों की सी त्याग भावना नहीं थी। ज्यादातर त्यर्यसेवक देखाइखी और परिणामों का विचार किये विना भरती हुए थे। उनके संत्कार उन्हें नहीं थे। बौद्धिक सतह भी नीची थी। न उन्होंने और न उनके नायकों ने ही ये त्रुटियां दूर करने की कोई खास-

कोशिश की। सर्कार से लड़ने के कारण उनमें लड़ाकूपन तो आ ही गया था। राजनीतिक अखाड़े की दलवंदियों, चुनावों की अनीतियों और जेल जीवन की अशुद्धताओं ने उन्हें नेताओं की बुआइयां तो सिखा दीं मगर उनके गुण सीखने में न ये तत्पर रहे और न सफल हुए। फलतः कांग्रेस के भीतर आवारा, डदरड और अविश्वसनीय 'देशभक्तों' का एक दल ऐसा भी पैदा होगया जिसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह थी कि जब तक आप उन्हें खिलाते पिलाते और बढ़ाते चढ़ाते रहिए तब तक उनका शरीर, इच्छा और अन्तःकरण सब कुछ आपके अपरण है, आप उनसे बुरा से बुरा काम ले लीजिये; लेकिन जूँही आपने कृपा कर वरदृस्त हटाया और किसी कारण-बशा सहायता देना बन्द किया त्योहाँ वे आपके शत्रु हो गये। फिर तो आपका खुले तौर पर अपमान करना, गालों गलौज ब-मारपीट पर उत्तर आना, आपके खिलाफ पर्चे निकालना, विश्वासवात करना और हर तरह आपको तंग करना उनके बायें हाथ का खेल है। वे राजनीति में भूठ ही नहीं खानगी जीवन में भी वेईमानी, छलकपट, हिंसा और अनाचार की सभी शाखाओं को विहित मानने और तदनुसार व्यवहार करने लगते हैं। जो प्रमुख व्यक्ति कांग्रेस की अहिंसा को केवल मजबूरी समझ कर मानते हैं, किन्तु संस्कार उनके बही पुराने भूठ और हिंसा के बने हुए हैं ऐसे लोगों की तरफ से भी इन छोटे कार्यकर्ताओं को समय-असमय प्रोत्साहन मिलता रहता

है। नेताओं के जीवन की ग्रासांगिक असंगतताओं को अपनी दिनरात्र की नीतिहीनता के लिये ये लोग पर्याप्त कारण बताते और उसका औचित्य सिद्ध करते हैं। फल यह होता है कि सभ्य पड़ने पर आर्थिक प्रामाणिकता, शारीरिक कष्ट-सहन, राष्ट्रीय स्वानिमान और लद्य-निष्ठा की परीक्षाओं में इनमें से बहुतेरे बुरी तरह असफल होते हैं और संस्था की प्रतिष्ठा को गहरा घक्का तो पहुँचाते ही हैं उसके संगठन की मजबूती, कार्य-संचालन की शान्ति और अनुशासन की कड़ाई की भी काफी हानि करते हैं। इन के व्यवहार में सर्वदा, दुर्द्व में ज्ञान, हृदय में नीतिमत्ता और संस्कारों में ऊँचाई, शिष्टता और नम्रता लाने की भरपूर कोशिश न की गई और कार्यों व पदों के वितरण में कस कर जांचने की सावधानी न रखी गई तो हमारा भावी निर्माण कार्य भी चौपट होने से नहीं बच सकेगा।



# चौदहवां अध्याय

## अब क्या किया जाय

### कुछ सुभाव

देश आजाद होगया । अब मातृभूमि के राष्ट्रीय-लीबन की पुरानी करने की जिम्मेदारी हम पर आर्गई है । यह काल किसी भी राष्ट्र के इतिहास में जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही नाजुक होता है । किसी बाहरी शत्रु से लड़ना निस्सन्देह बहुत कठिन काम है । मगर उससे भी मुश्किल होता है उस लड़ाई से थको हुई और विखरी हुई भीतरी शक्तियों को इकट्ठा करके रचनात्मक उद्योग में लगाना । युद्धकाल में शत्रु को हराने का एक सामान्य लक्ष्य अपने आप बन जाता है और उस तक पहुंचने के लिये सब .खुशी .खुशी एक होजाते हैं । इसके विपरीत, शांतिकाल में भिन्न २ स्वार्थी, विचारों और आदर्शों को अपनी अपनी ढक्की अलग बनाने का मौका मिलता है । यही घड़ी ऐसी है जब एकीकरण के लिये उत्कट देशभक्ति, लोक कल्याण की विशुद्ध भावना और असाधारण दूर-दृष्टि की जरूरत है । अन्यथा हमारी आपसी फूट,

नासमझी और निष्क्रियता से ही सदियों की तपस्या व्यर्थ हो सकती है।

इसलिये वर्तमान और निकट भविष्य में राजस्थान की समस्त संतान को अत्यन्त जागरूक, विचार शील और कठिबद्ध होकर अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। हमारे प्रांत के लिये सर्वाङ्गीण सावधानी की और भी ज्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुर्दैव ने इसके कई अलग अलग राजनैतिक दुकड़े कर डाले हैं और साम्राज्यवादियों की कूटनीति ने उन्हें ही जुदा-जुदा स्वार्थ स्थापित कर दिये हैं। उन सब का इमें सामंजस्य करना है। उस हालत में राजा परम्परागत सम्मान के हक्कदार तो रहेंगे, मगर शासन कार्य पूरी तरह प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होगा। सार यह कि राजा रहेंगे, सुख से रहेंगे, और प्रजा व देश की सेवा करने के लिये विलकुल आजाद होंगे। इंसे, किसी पर ज्यादती करने को सत्ता उनके पास नहीं रहेगी। हर रियासत का कई बातों में अलग अस्तित्व भी कायम रह सकेगा, उसका दर्जा एक ज़िले से कम न होगा। परन्तु उसे अलमेर मेरवाड़ा के साथ संघबद्ध होकर प्रांत का एक अंग भी बनना पड़ेगा। यही सूत्रा राष्ट्र की प्रांतीय इकाइयों में शुभार किया जायगा। उसके शासन और उसके अधिकार एवं दायित्व भी दूसरे प्रांतों के समान होंगे। अगर हमारे राजा इस हृद तक भी राष्ट्रीय हित और जीवन के साथ जाने को तच्यार न हुये तो उनके और उनके राज्यों का अस्तित्व मिटे बिना नहीं।

रह सकता। उस अवस्था में राजस्थान भी देश के दूसरे प्रांतों की तरह वैसा ही एक प्रांत बन जायगा।

हमारी ग्रान्तीय समस्याएँ अलग हैं और रहेंगी। उनको प्रगट करने और उन पर लोकसत जागृत, शिक्षित व संगठित करने के लिये हमारे अपने अखबारों की ज़रूरत होगी। ऐसे ही समाचार पत्र हमारे विशेष प्रश्नों के साथ न्याय कर सकते हैं। इस कार्य के लिये प्रत्येक महत्वपूर्ण राज्य के स्थानीय मुख्य पत्रों के तौर पर एक वैनिक की भी ज़रूरत है। साथ ही ऐसे अखबार भी चाहिये जो राजस्थान भर के सभूहिक सबालात को प्रांतीय दृष्टि से हल करने में अपनी शक्ति केन्द्रित करें। अवश्य ही इनका संचालन निर्दल ढंग पर होना चाहिये।

राजस्थान का प्रांतीय स्वरूप इस तरह संगठित करने के अलावा हमें उसे विकास में प्रगति में भी दूसरे प्रांतों की सतह के बराबर पहुंचाना होगा। जिससे वह राष्ट्र का एक दुर्वल अंग न रह कर सबल भाग बने और विश्व की चलति में गौरवपूर्ण हित्सा लेने के योग्य बनने में देश को सहायक सिद्ध हो।

इस सुखद स्थिति तक पहुंचने के लिये हमें कितना काम करना पड़ेगा, इसी कल्पना ही की जा सकती है। वह कितना काटन होगा उतना ही पवित्र, महत्वपूर्ण और श्रेयस्कर भी होगा। उसे करना भी हमी को होगा। भगव उसकी सफलता की कुछ शर्तें हैं। उन्हें पूरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ इसे इस पथ पर अग्रसर होना चाहिये।

कोई महान् सार्वजनिक आयोजन तभी पार पड़ सकता है जब सामूहिक हित के लिये व्यक्ति अपने स्वार्थी, महत्वाकांक्षाओं और दूसरी आसक्तियों को बलिदान करने के लिये तैयार हो। दूपरे, जिन भूलों या दोषों के कारण हमारी भूतकालीन चेष्टाएँ विफल हुईं या पूरी तरह सफल न हुई हों उनसे लाभ उठाकर अपने मात्री प्रयत्नों में सतर्कता रखनी होगी। तीसरे, हम अपने अपने अधिकारों पर जोर न देकर कर्त्तव्यपालन और ज़िम्मेदारी का ही ज्यादा ख्याल रखेंगे तभी परस्पर सहयोग सुगम हो सकेगा। चौथे, जब तक हमारे राष्ट्र का संगठन मज़बूत, शासन सुधारणा स्थित और साधारण हालात शांत न हो जायें तब तक अलग अलग विचार धाराओं और कायेपद्धतियों का आग्रह छोड़ कर समूचे देश के लिये जो नीति और कार्यक्रम राष्ट्र के कर्णवारों द्वारा तय हो उसी को पूरा करने में अपनी सारी शक्तयां लगानी होगी। पांचवें, विकेन्द्रीकरण के आदर्श तक पहुंचने के लिये अर्थात् भारत के स्वाभाविक और छोटे छोटे नागरिक व प्रामाणिक प्रजातन्त्र स्वत्पन्न करने के लिये वीच के काल में हमें राजनैतिक संगठन और राष्ट्रीय व्यवस्था में वेन्द्रीकरण का आश्रय लेना पड़ेगा और एक सबल केन्द्रीय हक्कमत के जरिये जाति, धर्म, नस्ल और वर्ग सम्बंधी परस्परविरोधी स्वार्थों को देश के सार्वत्रिक हितों के ज़िलाकर खड़ा होने से रोकना पड़ेगा।

मेरी राय में राजस्थानियों में यह सारी प्रतियाँ लाने के लिये एक उपाय सर्वोपरि और अनिवार्य है। वह यह कि प्रांत

के पुनरुत्थान व्यव्ह का संचालन योग्य हाथों में हो। दुर्भाग्यवशे न गो हसमें कोई विभूति एक ऐसी है और न इत्यसल यह कान एक आदमी के बूँदे का है। हमें अपने यहाँ के विविध शक्ति रखने वाले कुछ प्रभुत्व सेवकों का संचालक मरण बनाना हो पड़ेगा। सौमान्य से हमारे प्रान्त में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जहरत इसी दात की है कि वे पुराने रामदेव को छोड़ कर, व्यक्तिगत आकांक्षाओं को विलंजिल देकर और प्रांतके भावी के प्रति बकादारी की प्रतिक्षा लेकर आगे बढ़े और सहयोग की पदवार के सहारे राजन्यान की जाव छोड़ दिये। एक प्रकार से प्रान्तीय सार्वजनिक जीवन की व्यवस्था के लिये यह हमारा दैर सरकारी मन्त्रिमण्डल होगा। पथप्रदर्शन की जिसेदारी हर सदस्य पर चारी चारी से प्रतिवर्ष रक्खी जा सकती है। अवश्य ही इसका अनुशासन कड़ा होना चाहिये और दूसरे सदस्यों को हवाय से सहयोग देना चाहिये। संचालक मरण के निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे एक भावनाशील, सबे हुए समझदार दौर्घटोंगी और प्रतिज्ञावद सेवक समूह का होना अनिवार्य है जो जीवन भर वा लम्बे अर्थे तक सारा नमय देने को तैयार हो जिसके कार्य में संचालक मरण के बदलते रहने पर भी छोड़ दावा न पड़े।

इस चौकना में वे वरि तत्त्व मौजूद हैं जिनके अभाव में मानव सभाव विवरीत दिशा में चान करने लगता है। इसमें संदेह नहीं की इन्हें ही से प्रान्त उत्ति के शिखर पर नहीं पहुँच

लायगा। सेवकों में ऐक्य होने पर भी जनता की ओर से उत्तर अच्छा मिलना ज़हरी होगा, हमारे किसान, मज़दूर, शिक्षित, धनिक, कर्मचारी, विद्यार्थी और दूसरे सभी वर्गों को अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा और हमारे युवकों को अपना सारा उत्साह, वल और बुद्धि रचनात्मक प्रवृत्तियों में अर्पित करना होगा। एवमस्तु !

~~~~~